दैनिक सच्चाई की जंग

लोकमित्र

वर्ष : 31 | अंक :56
प्रतापगढ़ | शनिवार ,28 दिसम्बर -2024
पृष्ठ : 8 | मूल्य : 3 रुपये

प्रतापगढ़, लखनऊ, कौशाम्बी एवं प्रयागराज से एक साथ प्रकाशित

R.N.I. No. : 71870/94

संस्थापक : श्रद्धेय स्व. रामनिरंजन भगवन

प्रतिदिन की खबरों के लिए देखें www.dailylokmitra.com

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर होगा 7 दिन का राष्ट्रीय शोक

▶▶डा. मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा आज

▶▶राज्यकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

नई दिल्ली, (हि.स.)। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स में गुरुवार रात निधन हो गया। डॉ. मनमोहन सिंह ने रात 9 बजकर 51 मिनट पर अंतिम सांस ली। केंद्र सरकार इस दुख की इस घड़ी में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करेगी। भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को 11 बजे पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए कैबिनेट की बैठक होगी। इसके साथ कल होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए जाएंगे। डॉ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।डॉ. मनमोहन लंबे समय से अस्वस्थ थे। गुरुवार को रात आठ बजे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। जिसके बाद वे बेहोश होगे। उन्हें तुरंत दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया

था।मनमोहन सिंह के निधन को लेकर दिल्ली एम्स ने विज्ञप्ति के जरिए बयान जारी किया। एम्स की ओर से बताया गया कि मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो उम्र से संबंधित बीमारियों से ग्रसित थे। आज अपने घर पर अचानक बेहोश हो गए थे। उन्हें रात 8ः06 बजे एम्स के मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। रात 9ः51 बजे उन्हें मृत घोषित किया गया।मनमोहन सिंह एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, शिक्षक और ब्यूरोक्रेट रहे। उन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और वह जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेन्द्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री है। उन्होंने लोकसभा का सदस्य बनने के बजाय राज्यसभा में असम से 1991 से 2019 और फिर राजस्थान से 2019 से 2024 तक सदस्य के रूप में कार्य किया।मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिम पंजाब के गाह (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था। 1947 में भारत विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। सिंह ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किया और 1966 से 1969 तक संयुक्त राष्ट्र में काम किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी शुरुआत की और कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।1991 में, जब भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। सिंह ने अपनी नीतियों से भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया, जिससे भारत ने आर्थिक संकट से उबरकर तेज़ी से विकास किया। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किए गए।पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह 8 बजे एआईसीसी मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां आम लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह 8.30 से 9.30 बजे के बीच श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। उनकी अंतिम यात्रा कल सुबह 9.30 बजे एआईसीसी मुख्यालय से शुरू होगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि डा. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आज शाम 5.30 बजे नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) मुख्यालय में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होगी। इसमें सीडब्ल्यूसी सदस्य, स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे।उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आज जनता के अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान 3, मोतीलाल नेहरू रोड, नई दिल्ली पर रखा गया है। कल 28 दिसंबर को सुबह 8 बजे उनका पार्थिव शरीर एआईसीसी मुख्यालय ले जाया जाएगा और जनता तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कल सुबह 8.30 से 9.30 बजे के बीच श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिलेगा। डॉ. सिंह की अंतिम यात्रा कल सुबह 9.30 बजे एआईसीसी मुख्यालय से शुरू होगी।

मनमोहन सिंह को एक सुधारवादी नेता के रूप में याद किया जाएगा - प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और देश की प्रगति एवं विकास में उनके योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि सिंह को हमेशा एक सुधारवादी नेता के रूप में याद किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष वीडियो संदेश में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल और स्वयं के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान हुई बातचीत को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. सिंह के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना, एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनके जीवन से ये सीख भावी पीढ़ी को मिलती रहेगी।उन्होंने कहा कि एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग-अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दीं। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉ. सिंह का जीवन, उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था, वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉ. साहब की निष्ठा सभी के लिए एक प्रेरणा है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हील चेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे।

अब संभल की शाही जामा मस्जिद पर 24 घंटे रहेगी यूपी पुलिस

लखनऊ,एजेंसियॉ। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के पास खाली पड़े मैदान में पुलिस चौकी बनाएगी। प्रस्तावित पुलिस चौकी का निर्माण शुरू होते ही आरएएफ के जवान तैनात होंगे। अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने यह जानकारी दी। हालांकि चौकी का नाम क्या होगा इसे लेकर उन्होंने अभी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। संभल में सुरक्षा की दृष्टि से नयी पुलिस चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जहां 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। उल्लेखनीय है कि 24 नवंबर को शाही मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। उम्मीद है कि कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव संभल की जामा मस्जिद के मूल रूप से हरिहर मंदिर होने के दावे से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट संभवतः जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी। जिला प्रशासन ने संभल कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कोट पूर्वी में प्राचीन मृत्यु कूप की खुदाई और जीर्णोद्धार का काम बृहस्पतिवार को शुरू कर दिया। संभल में पुराणों में वर्णित, अति प्राचीन और धार्मिक महत्व के माने जाने वाले कुओं की पहचान कर उनकी खुदाई और जीर्णोद्धार की पहल के तहत यह कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, वर्षों पूर्व इन कुओं को या तो ऐसे ही छोड़ दिया गया था या इनमें मलबा भरकर इन्हें पाट दिया गया था। ऐतिहासिक महत्व के इन कुओं को लेकर लोगों की मान्यता है कि इनके पानी से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

कांग्रेस पार्टी ने सात दिनों के लिए सभी कार्यक्रम रद्द किए

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी के सम्मान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह सहित सभी आधिकारिक कार्यक्रम अगले सात दिनों के लिए रद्द कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज रात यह जानकारी दी।केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इस दौरान रद्द किए जाने वाले कार्यक्रमों में सभी आंदोलनात्मक और आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं। पार्टी के कार्यक्रम 83 जनवरी, 2025 को फिर से शुरू होंगे। शोक की इस अवधि के दौरान पार्टी का झंडा आधा झुका रहेगा।

26/11 अटैक के गुनहगार अब्दुल रहमान मक्की की मौत

▶▶लाल किले पर हमले में भी शामिल था

नई दिल्ली, एजेंसियॉ। मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के उप प्रमुख हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की शुक्रवार, 27 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से पाकिस्तान में मौत हो गई। मक्की पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और उनका लाहौर के एक निजी अस्पताल में उच्च शर्करा स्तर का इलाज चल रहा था। मई 2019 में मक्की को पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और लाहौर में नजरबंद कर दिया गया। 2020 में एक पाकिस्तानी अदालत ने भी उसे आतंकी वित्तपोषण से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जनवरी 2023 में मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा वैश्विक आतंकवादी भी घोषित किया गया था।मक्की 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के लिए वित्तपोषण प्रदान करने में शामिल था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। आतंकवाद विरोधी अभियानों में कुल नौ आतंकवादी भी मारे गए और एक आतंकवादी आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। मुंबई आतंकी हमले के अलावा, मक्की लाल किला हमले में शामिल होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भारत में एक वांछित आतंकवादी भी था, जहां छह (एलईटी) आतंकवादियों ने 22 दिसंबर, 2000 को लाल किले पर हमला किया था और गोलीबारी की थी।

2018 में वरिष्ठ पत्रकार और राइजिंग कश्मीर अखबार के प्रधान संपादक शुजात बुखारी और उनके दो सुरक्षा गार्डों की हत्या में भी मक्की का आतंकी संगठन लश्कर शामिल था।संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करते हुए कहा था, ÷सुरक्षा परिषद समिति आईएसआईएल (दाएश) के संबंध में प्रस्ताव 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसार, अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं ने इसके आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा में नीचे निर्दिष्ट प्रविष्टि को जोड़ने को मंजूरी दी संपत्ति जब्त, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की प्रतिबंध सूची सुरक्षा परिषद संकल्प 2610 (2021) के पैराग्राफ 1 में निर्धारित की गई है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय ङ्घढ्ढ के तहत अपनाई गई है।

कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से एक और बांग्लादेशी घुसपैठिया गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप

कोलकाता, (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की पुलिस टीम ने गुरुवार देर रात पार्क स्ट्रीट के मार्क्विस स्ट्रीट इलाके से एक और बांग्लादेशी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 37 वर्षीय मोहम्मद अबीउर रहमान के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के नाराइल जिले के नूतनगंज का रहने वाला है। पुलिस ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी।पुलिस के मुताबिक आरोपित रहमान बिना वैध दस्तावेज के भारत में दाखिल हुआ था। उस पर आरोप है कि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के बाद उसने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार किए। पुलिस का कहना है कि वह इन फर्जी दस्तावेजों का उपयोग विभिन्न धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों के लिए करता था।

एक इंसान की जिंदगी दांव पर लगी है-सुप्रीम कोर्ट

▶▶किसान नेता डल्लेवाल के जीवन और सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

नई दिल्ली, एजेंसियॉ। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के आदेश का पालन नहीं करने के लिए मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता ¯ उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार को शनिवार तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। किसान नेता डल्लेवाल के जीवन और सुरक्षा को लेकर चिंतित, पंजाब सरकार उन्हें चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो आपको उससे सख्ती से निपटना होगा।जगजीत सिंह दल्लेवाल खनौरी सीमा पर अनिश्चितकालीन उपवास पर हैं और केंद्र से आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें कोर पर एमएसपी की कानूनी गारंटी भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सुनवाई के दौरान दल्लेवाल के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की थी और राज्य सरकार और केंद्र को नेता को भूख हड़ताल छोड़ने के लिए मनाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था।अदालत के निर्देशों के बाद, पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव और केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने विरोध स्थल पर दल्लेवाल से मुलाकात की और उनकी चिंताओं को सुना। इस महीने की शुरुआत में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की, जो 17 दिनों से अधिक समय से खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर हैं।

दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज बरसात, चल रही है ठंडी हवा

नई दिल्ली, (हि.स.)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और सीमावर्ती राज्यों के शहरों में रहने वालों को आज सुबह बूंदाबांदी का सामना करना पड़ा। इस दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बरसात हुई है। ठंडी हवा चल रही है। इससे शीतलहर का असर और बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज और कल उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत में आंधी, ओलावृष्टि और मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि आज सुबह 7ः23 बजे दिल्ली में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समूचे महानगर में चल रही ठंडी हवा से मौसम और सर्द हो गया। इन दो दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव और घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। आज अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दिल्ली के आसमान पर अगले 48 घंटे तक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है।

रिहाई के बाद आक्रमक दिखे किसान नेता सुखबीर खलीफा, फिर से धरने का एलान

ग्रेटर नोएडा,(हि.स.)। नोएडा में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान नेता सुखबीर खलीफा शुक्रवार को लुक्सर जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर आने पर किसानों ने उनका स्वागत किया। जेल से बाहर आने पर वह फिर आक्रमक नजर आए। उन्होंने एलान किया कि किसान फिर से धरने पर बैठेंगे और मांगे न माने जाने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा।दरअसल, किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सुखबीर खलीफा को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। तभी से वह अन्य किसानों के साथ जेल में थे। शुक्रवार को जेल से रिहा हुए किसान नेता सुखबीर खलीफा ने फिर से धरने पर बैठने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो एक बार फिर आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए किसान रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने सहयोग करने पर नोएडा के किसानों और वकीलों को

आभार व्यक्त किया।उल्लेखनीय है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 10 प्रतिशत आबादी भूखंड, बढ़ा हुआ 64.7 प्रतिशत मुआवजा और नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने की मांग को लेकर 25 नवंबर से महापंचायत शुरू की थी। हजारों को संख्या में किसानों ने पहले ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर दो दिन तक डेरा डालकर विरोध जताया। इसके बाद किसानों ने यमुना विकास प्राधिकरण कार्यालय के बाहर डेरा डालने गए थे।इसी बीच शासन-प्रशासन से वार्ता विफल होने के बाद 2 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल 10 संगठनों ने अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर दिल्ली कूच का एलान किया था। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने 7 दिन का समय दिया और आंदोलन को नोएडा के दलित प्रेरणास्थल पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद पुलिस ने दलित प्रेरणास्थल आने वाले किसानों को रोक दिया और ज़ीरो प्वाइंट से आठ किसान नेताओं समेत 1 23 किसानों को गिरफ्तार किया गया था तभी से वे लुकसर जेल में थे।

वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की दूसरे दिन की बैठक स्थगित

नई दिल्ली, (हि.स.)। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की दूसरे दिन की बैठक शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद स्थगित कर दी गयी। जेपीसी की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन गुरुवार को कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया।जेपीसी के चेयरमैन एवं भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने मीडियाकर्मियों को बताया कि आज की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। इसके बाद उनके सम्मान में बैठक स्थगित कर दी गयी। पाल ने बताया कि अगली बैठक बजट सत्र में बुलाई जाएगी, जिसमें दिल्ली, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा और उनसे जवाब भी मांगा जाएगा। उन्होंने बताया कि समिति 18 से 19 जनवरी तक बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का दौरा करेगी।

इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति मिल गई है।उन्होंने बताया कि जेपीसी ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है। समिति के समक्ष गुरुवार को इन तीनों राज्यों के अल्पसंख्यक मामलों के प्रमुख सचिव तथा राजस्व सचिव उपस्थित हुए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया

नागपुर, (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। संघ ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. सिंह के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक्स हैंडल पर शोक संदेश जारी किया है। इसमें सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले को उद्धृत करते हुए लिखा गया, %%भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और देश के वरिष्ठ नेता डॉ. सरदार मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश बेहद दुखी है।

बठिंडा में बड़ा बस हादसा, 8 लोगों की मौत

● 18 घायल यात्रियों का इलाज जारी

बठिंडा , एजेंसियॉ। पंजाब के बठिंडा में शुक्रवार को एक बस दुर्घटना में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, बठिंडा शहरी विधायक जगरूप सिंह गिल ने कहा कि पांच की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन ने इलाज के दौरान गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। गिल को बठिंडा के सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप सिंगला ने जानकारी दी, जब विधायक ने बठिंडा शहर के शहीद भाई मणि सिंह सिविल अस्पताल का दौरा किया, जहां वर्तमान में 18 घायल यात्रियों का इलाज किया जा रहा है।गिल ने कहा कि पांच की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन ने गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। करीब 18 का इलाज शहीद भाई मणि सिंह सिविल अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह हादसा बठिंडा के जीवन सिंह वाला गांव के पास हुआ जब एक बस पुल से टकराने के बाद नाले में गिर गई। एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चल रहा है।

निजी बस तलवंडी साबो से बठिंडा शहर जा रही थी, तभी फिसलकर नाले में गिर गई। बचाव कार्यों की निगरानी के लिए शीर्ष नागरिक और पुलिस अधिकारी मौके पर हैं।

जिला अधिकारियों द्वारा अभी तक मृतकों की पहचान की पुष्टि नहीं की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गंदे नाले में गिरने से पहले बस एक पुल की रेलिंग से टकराई।

यूपी बोर्ड : 54 लाख परीक्षार्थियों की एआई से होगी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा

लोकमित्र ब्यूरो

प्रयागराज। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज बोर्ड परीक्षा के दौरान हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 54 लाख परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से करने जा रही है। इसके लिए जो तीन कंपनियों के टेण्डर आये थे उसमें से दो कंपनियों ने टेण्डर का शुल्क जमा नहीं किया था, इस पर उनका टेण्डर निरस्त हो गया है। एआई का कंट्रोल रूम यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज और लखनऊ में बनाया जा रहा है। यूपी बोर्ड एआई से प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर 25 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। इसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई है। एआई के टेण्डर चयन की कमेटी में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा महेंद्र देव, यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह, उप्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के वरिष्ठ वित्त अधिकारी सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी थे। यूपी बोर्ड एआई पर 25 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। शासन ने बजट पहले ही मंजूर कर दिया था। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि एआई से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की जाएगी, इसकी तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू कर दी गई है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा के लिए जो आठ हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए हैं उन परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्रों को रखा जाएगा और उसकी सुरक्षा के लिए एआई लगाया जाएगा।

एआई लगने के बाद उस स्ट्रांग रूम में प्रधानाचार्य व केन्द्र व्यवस्थापक के अलावा कोई नहीं जा सकेगा। किसी दूसरे व्यक्ति के स्ट्रांग रूम में घुसते ही एआई यूपी बोर्ड मुख्यालय को एलर्ट जारी कर देगा कि स्ट्रांग रूम में कोई बाहरी व्यक्ति घुस गया है। इस पर यूपी बोर्ड मुख्यालय अपने अपर सचिव, जेडी, डीआईओएस सहित जिला प्रशासन के अफसरों को संबंधित परीक्षा केंद्र पर भेजकर कारवाई करेगा।

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो पाए। उन्होंने बताया कि एआई का कंट्रोल रूम यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज और लखनऊ होगा, जहां से शिक्षा धिकारियों की टीम एआई से प्रश्न पत्रों वाले स्ट्रांग रूम पर निगाह रख सके।

मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रारम्भ

प्रयागराज। उ प्र राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की सत्र दिसम्बर 2024 की परीक्षाएं शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हुई। प्रदेश के विभिन्न कारागारों में भी आज बन्दियों ने परीक्षा दी।

परीक्षा नियंत्रक कर्नल विनय कुमार ने आज विश्वविद्यालय परिसर में स्थित त्रिवेणी सामुदायिक केंद्र परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया तथा परीक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं देखीं। प्रथम चरण में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा तथा शोध पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं।

परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में पारदर्शिता के साथ परीक्षा प्रारंभ हुई।

मासूम आँखों में आशा की किरण भरता अष्टदल

लोकमित्र ब्यूरो

प्रयागराज। ÷अष्टदल÷ बिहार में स्थित बसहा ग्राम की एक ऐसी संस्था है जो कि मासूम आँखों में आशा की किरण भरने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इस संस्था का एकमात्र यह उदेश्य है कि जिन बच्चों में लगन और जिद्द देखी गई है और वो किसी कारणवश उसको पाने में असमर्थ हैं तो उन बच्चों को पंख देकर उनका आसमान देता है जिससे कि वो अपने आसमान में बेफिक्री से पूर्ण विश्वास के साथ विचरण कर सके। अष्टदल के विद्यालय में मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता किया गया। जिसमें कुछ बेहतरीन चित्रकारी के कलाकार को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अष्टदल के संस्थापक

अंजनी कुमार चौधरी ने किया, जिसके अध्यक्ष तनुजा चौधरी एवं संयोजक साकेत चौधरी थे।

कार्यक्रम में बच्चो ने मैथिली पारंपरिक गीत एवं नृत्य का बहुत ही भव्य प्रदर्शन दिया। अष्टदल अपने बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा, चित्रकला के साथ कई तरह की सांस्कृतिक क्रिया- कलाप भी सिखाता है।अष्टदल की शिक्षिका रजनी एवं स्थानीय संयोजक साकेत चौधरी को उनके अथक परिश्रम के लिए अष्टदल के संस्थापक के द्वार सम्मानित शब्दों के साथ मोमेंटो देकर आभार प्रकट किया गया।

इस समारोह की जानकारी लोकेंद्र शर्मा से मिली जो कि उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।

डॉ मनमोहन सिंह खुली अर्थव्यवस्था के सूत्रधार थे- अंशुमन

कांग्रेसजनों ने पूर्व प्रधानमंत्री को अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि

लोकमित्र ब्यूरो

प्रयागराज। महान अर्थशास्त्री, पूर्व वित्त मंत्री भारत सरकार, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, बहुत ही सहज, सरल,शांत स्वभाव के व्यक्तित्व डॉ मनमोहन सिंह का निधन कल 26 दिसंबर रात्रि में हो गया। जिनकी आत्मा की शांति के लिए आज महानगर कांग्रेस कार्यालय चौक घंटाघर प्रयागराज में महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि एवं शोक सभा सभा आयोजित की गई तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। शोक सभा के बाद महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन ने बोलते हुए कहा कि डॉ मनमोहन सिंह जैसा व्यक्तित्व देश को पुनः मिल पाना बहुत ही दुर्लभ है द्य डॉ मनमोहन सिंह खुली अर्थव्यवस्था के सूत्रधार थे। उन्होंने भारतीय बाजार को दुनिया के लिए खोला और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने क्रांतिकारी बदलाव वाले कानून लाए, 2005 में आरटीआई जैसा कानून लाए जिससे लोगों को सरकार तथा अन्य संस्थाओं से सूचना पाने का अधिकार मिला। उन्होंने परमाणु समझौते के लिए अपनी सरकार को भी दांव पर लगा दिया था वाम दलों के विरोध के बावजूद अमेरिका के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता किया। ऐसे अर्थशास्त्री देश के पूर्व प्रधानमंत्री को बार बार नमन विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

शोक सभा में प्रमुख रुप से प्रदीप मिश्र अंशुमन, दिवाकर भारतीय, नयन कुशवाहा,प्रवीण सिंह भोले, अनूप सिंह, विनय पांडेय, अजेंद्र गौड़, इसरत अली चाँद,राम मनोरथ सरोज,विवेक पांडेय, राज कुमार शुक्ला, अंजुम नाज़, इरशाद उल्ला, अब्दुल कलाम आज़ाद, मुन्ना यादव, सतीश श्रीवास्तव, नफीस कुरैशी, राजेंद्र श्रीवास्तव, अशोक सिंह, श्वेता श्रीवास्तव, राहुल यादव, शिव शंकर मिश्र,विशाल सोनकर, प्रवीण गुप्ता उपस्थित रहे।

महाकुंभ के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगने वाले चार बदमाश गिरफ्तार

फर्जी वेबसाइट पर कॉटेज, टेन्ट, होटल बुकिंग के नाम पर देते थे डिस्काउंट का लालच

लोकमित्र ब्यूरो

प्रयागराज। महाकुंभ के नाम पर साइबर ठगों का गैंग भी ऑनलाइन ठगी करने लगा है। महाकुंभ में कॉटेज, टेन्ट, होटल, टेंट सिटी, लॉज, फ्लैट्स आदि की बुकिंग के नाम पर लाखों की ठगी की जा रही है। कई मामले सामने आने के बाद प्रयागराज पुलिस ने चार साइबर ठगों को अरेस्ट किया है। यह गैंग फर्जी वेबसाइट बनाकर साइबर ठगी कर रहा था। पकड़े गए साइबर ठगों के पास से 3 लैपटॉप, 6 एंड्रॉयड, एपल मोबाइल फोन और 6 एटीएम कार्ड बरामद किया है। पकड़े गए साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन ठगी की बात कबूल की है। पकड़े गए बदमाश नालंदा, वाराणसी, आजमगढ़ आदि के रहने वाले हैं।

डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने

बताया कि यह शातिर सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर ठगी कर रहे थे। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में करोड़ों लोगों का आना है, ऐसे में अभी से बुकिंग शुरू हो गई है। इसी का फायदा यह गिरोह उठा रहा था। महाकुम्भ में कॉटेज, टेन्ट, होटल आदि की बुकिंग के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर उन पर डिस्काउंट दिखाकर यात्रियों को गुमराह करते थे। फिर ऑनलाइन साइबर ठगी करते थे। डीसीसी के मुताबिक अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि सुनियोजित ढंग से तीर्थयात्रियों को सस्ते में बुकिंग का लालच देकर ठगी कर रहे थे। होटलों की वेबसाइट हुबहू तैयार करते। लोगों को लिंक भेजते ताकि वह झांसे में आ जाएं। महाकुंभ से मिलते जुलते नामों से फर्जी व डुप्लीकेट वेबसाइट बनाते हैं तथा उनके माध्यम से तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रकार के आकर्षक प्रलोभन जैसे- ठहरने की उत्तम व्यवस्था, वीआईपी स्नान एवं दर्शन आदि देकर उनसे साइबर ठगी कर रहे थे।

पकड़े गए आरोपियों में पंकज कुमार पुत्र कुंवर प्रसाद निवासी चोरसुआ थाना गिरियक जनपद नालंदा बिहार, यश चौबे पुत्र आलोक कुमार चौबे निवासी ग्राम मुरीदपुर पोस्ट चौबेपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी, अंकित कुमार गुप्ता पुत्र आनंद कुमार गुप्ता निवासी छीतमपुर कादीपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी और अमन कुमार पुत्र शिव सहाय निवासी लसड़ा खुर्द, ठेकमा, थाना बर्दा जनपद आजमगढ़ शामिल है।

पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर जताया शोक

प्रयागराज। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर समाजवादी पार्टी ने शोक जताया है। पार्टी कार्यालय में बैठक कर सपा पदाधिकारियों नेताओं, कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को बेहद ईमानदार और सादगी पसंद व्यक्तित्व का धनी बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में देश की अर्थ व्यवस्था को ऊंचाई पर पहुँचाने का काम किया।

शोक व्यक्त करने वालों में अनिल यादव, सैयद इफ़्तेख़ार हुसैन, पप्पूलाल निषाद, डॉ मानसिंह यादव, श्रीमती विजमा यादव, अंसार अहमद, हाकिम लाल बिन्द, पंधारी यादव, जोखूलाल यादव,सत्य वीर मुन्ना, दान बहादुर मधुर, आर एन यादव, सचिन श्रीवास्तव आदि शामिल रहे।

देश मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा- प्रमोद तिवारी

लोकमित्र ब्यूरो

प्रयागराज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में कांग्रेस की डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अपने सिविल लाइन्स स्थित एलगिन रोड आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जिला शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया।` राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा है कि यह देश हमेशा डा0 मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। वह देश के पहले अल्पसंख्यक और जीनियस प्रधानमंत्री थे। डॉ मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1991 में जब पूरा एशिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हम सफल नहीं हो पा रहे थे। उस दौर में उदारीकरण के जरिए समग्र क्रांति की

ओर देश को बढ़ाने वाले सेनापति भारत के वित्त मंत्री के रूप में डा0 मनमोहन सिंह बने। देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दी। जिससे नरेगा, मनरेगा के जरिए सिर्फ उस दौर में नहीं बल्कि कोरोना काल में भी करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। राइट टू इनफार्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू फूड जैसे विवेकपूर्ण कदम पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने उठाए। जिससे भारत आज दुनिया की पांच महाशक्तियों में एक बना है। उन्होंने कहा है कि भारतीय राजनीति में उनके योगदान से राष्ट्र हमेशा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने सदन में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा है कि राज्यसभा में जब मेरा पहला कार्यकाल समाप्त हुआ तो उन्होंने टिप्पणी की थी कि एक ऐसा सदस्य सदन से जा रहा है जिसे अच्छा संसदीय ज्ञान का था। फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी में डा0 मनमोहन सिंह सदस्य थे। अस्वस्थता के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था और मेरे नाम को आगे बढ़ाया था। उनके इस्तीफे के बाद मैं फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बना। इसलिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ मेरी ऐसी तमाम यादें हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मनमोहन सिंह ज्ञान के चलते-फिरते भंडार यानि थे। उनके व्यक्तित्व में विनम्रता और ईमानदारी देखने को मिलती थी। कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बनाई योजनाओं से ही आज देश आगे बढ़ रहा है। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा।

इस दौरान पूर्व विधयाक विजय प्रकाश, सुधाकर तिवारी, तलत अजीम, हरिकेश त्रिपाठी, मुकुंद तिवारी, विवेकानंद पाठक, हसीब अहमद, संजय तिवारी, गौरव पाण्डेय, मनोज पासी, अनिल पाण्डेय, लाल सिंह पटेल, शाश्वत मिश्रा, किशोर वार्ष्णेय, फुजैल हाश्मी, दीपचंद्र शर्मा, मो0हसीन, तबरेज अहमद, अरशद अली समेत आदि लोग शामिल रहे।

तीन दिवसीय वॉलीबाल प्रतियोगिता 29 से

लोकमित्र ब्यूरो

मेजा (प्रयागराज)। मेजारोड स्थित सोरांव यूथ क्लब के सार्वजनिक वॉलीबाल खेल मैदान (क्षेत्रीय वॉलीबाल स्टेडियम) पर शनिवार 29 दिसंबर से तीन दिवसीय आमंत्रण वॉलीबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता जिला वॉलीबाल संघ प्रयागराज से संबद्ध है। उक्त आशय की जानकारी प्रतियोगिता के संयोजक बाबा ओझा एवं यूथ क्लब के अध्यक्ष राहुल द्विवेदी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों को आमंत्रित कर दिया गया है और समारोह की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। भाग लेने की इच्छुक टीमें जिला वॉलीबाल संघ,प्रयागराज से या मो. 9415427158, 9793505154 व 8009880088 पर संपर्क करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा सकती है।

बच्चों की प्रतिभा को उजागर करना ही शिक्षक का दायित्व- संजय पाठक

लोकमित्र ब्यूरो

नैनी(प्रयागराज)। अत्यंत हर्ष एवं उल्लास के साथ मोरीना कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल का सालाना जलसा कॉलेज के प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ।कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पंडित संजय पाठक राष्ट्रीय महासचिव नमो सेना ने सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर आरंभ किया। साथ स्कूल के प्रबंधक शाहिद हसन, प्रधानाचार्य अजरा हसन भी मौजूद थी। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से आरंभ हुआ। जिसको कक्षा 6 एवं 7 के बच्चों ने प्रस्तुत किया। उसके पश्चात एक के बाद एक सामाजिक मुद्दों पर आधारित गीतों पर कलात्मक प्रस्तुति कर दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर जातिगत विसंगतियों पर आधारित तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। गीत पर दर्शकों को अपने स्थान पर खड़े होने को मजबूर कर दिया। वर्तमान समय में जिस प्रकार जीविकोपार्जन हेतु

बच्चे माता-पिता से दूर हो जाते हैं। एवं बूढ़े माता-पिता को वृद्ध आश्रम में रहने को बाध्य होना पड़ता है। की प्रस्तुति ने दर्शकों को एक बार फ़िर आंसू ला दिए। तत्पश्चात एक के बाद एक सेव गर्ल चाइल्ड मोबाइल थीम आर्मी थीम फ्लोर डांस गिद्दा पंजाबी डांस भांगड़ा नृत्य भरतनाट्यम आदि प्रस्तुत कर दर्शकों को की ताली बटोरी एवं अपार प्रेम प्राप्त किया। तत्पश्चात पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि पंडित संजय पाठक एवं महामंडलेश्वर विनयानंद जी महाराज पशुपतिनाथ अखाड़ा काठमांडू नेपाल के हाथों से किया गया। कार्यक्रम में स्नेहा अब्दुल मान्य आदर्श आकृति नायरा मुजम्मिल दिव्यांशी इत्यादि ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में संजय पाठक ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षकों की भूरि भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा का उजागरीकरण जिस कुशलता से स्कूल के अध्यापिकाओं के द्वारा किया गया है। यह हमारे देश के संस्कार एवं संस्कृति की अविरल प्रवाह का घोतक है। कार्यक्रम का कुशल संचालन स्कूल की उप प्रधानाचार्य श्रीमती अनम हसन के द्वारा किया गया।

टीजीटी में दूसरा, माध्यमिक में पांचवां एवं पीजीटी में सातवें रैंक में चयन

लेड़ियारी(प्रयागराज)। क्षेत्र के लेड़ियारी पूरा कदौली निवासी शिवम् त्रिपाठी पुत्र दयाशंकर त्रिपाठी ने एक महीने में तीसरी बार अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया । टीजीटी संस्कृत विषय में दूसरे रैंक पीजीटी संस्कृत में सातवें और माध्यमिक विद्यालय पांचवें रैंक हासिल कर गांव का गौरव बढ़ाया। 25 साल की उम्र में प्रवक्ता पद हासिल किए । शिवम त्रिपाठी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने बड़े पिता भृगुमणि त्रिपाठी और पिता दया शंकर त्रिपाठी को दिया। शिवम् ने अपनी शिक्षा के बारे मे बताया कि ग्रेजुएशन (शास्त्री) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू , बीएड केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के.जे. सोमैया विद्या पीठम मुंबई से हासिल करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमए किया ।सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली जेएनयू से हासिल की । साथ ही शिवम् त्रिपाठी ने बताया कि मेरे बड़े भाई दिल्ली में एक मल्टी नेशनल कंपनी एमएनसी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है । उन्हीं के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण किए।

अखिलेश की निगेटिविटी धुल जाएगी, महाकुंभ में डुबकी लगाएं- मुख्तार अब्बास नकवी

लोकमित्र ब्यूरो

प्रयागराज। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अखिलेश यादव महाकुंभ में एक बार डुबकी लगा लें तो उनकी सारी निगेटिविटी धुल जाएगी। जिनकी मानसिकता में ही निगेटिविटी भरी हो, उन लोगों को हर काम में कमी दिखाई देती है। इससे वह समाज में भ्रम और भय पैदा करते हैं। श्री नकवी आज सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

उन्होंने अखिलेश यादव के ङ्क पर पोस्ट को लेकर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने 25 और 26 दिसंबर को महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल किए थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि महाकुंभ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सभी कार्य समय से पूरे होंगे। महाकुंभ पर

पूरे विश्व की नजर है। योगी सरकार इसे भव्य, दिव्य बनाने में जुटी है। इस बार महाकुंभ पूरे विश्व के लोगों को भारत की भव्य और दिव्य छवि को दिखाएगा।श्री नकवी ने महाकुंभ में आतंकी पन्नू की धमकी पर कहा- यूपी में योगी सरकार में जिस प्रकार से दंगाइयों और गुंडों की कुटाई हुई है। उसको सभी ने देखा है। ऐसे में उनके हश्र को देखने के बाद किसी में भी हिम्मत नहीं होगी कि वह महाकुंभ में इस प्रकार हरकत करें। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की तरफ से महाकुंभ की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। मैंने खुद आज सुबह संगम क्षेत्र देखा है। जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखी हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा- देश ने पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विकास किया है, उसे सभी जानते हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो सफल सफर है। उसे आगे बढ़ाने के मजबूत स्तंभ मनमोहन सिंह थे। बिना किसी राजनैतिक परिवार के उन्होंने यहां तक का सफर तय किया। उनके साथ संसद में काफी समय बिताने का मौका मिला। वह कुशल व्यवहार के धनी व्यक्ति थे। उनके जाने से देश को क्षति हुई है।संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिए बयान पर श्री नकवी ने अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा- कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने देश में जो किया, उस कलंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से राम मंदिर का समाधान निकला, उसी प्रकार ऐसे मामलों का संवाद के जरिए हल निकाला जाएगा। मोहन भागवत का कहना ठीक है कि ऐसे मामलों का संवाद से समाधान होना चाहिए।

प्रतिनिधि मंडल महापौर व मुख्य कर अधिकारी से मिला

गृहकर निर्धारण हेतु नगर निगम शिविर लगाने पर सहमति

नैनी(प्रयागराज)। नगर निगम द्वारा विस्तारित क्षेत्र अवंतिका कॉलोनी में वितरित गृहकर नोटिस पर आपत्ति जताते हुए अवन्तिका विकास समिति का प्रतिनिधि मंडल महापौर गणेश केसरवानी तथा मुख्य कर अधिकारी पी के द्विवेदी से मिला। महापौर ने आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य कर अधिकारी को निर्देशित किया। उक्त जानकारी देते हुए समिति के संयोजक गजेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि नगर निगम के मुख्य कर अधिकारी को भी प्रतिनिधि मंडल ने मांगपत्र देते हुए पुनः सर्वेक्षण कराने अथवा कैम्प लगाकर कमियों को ठीक कराने की मांग किया, जिस पर मुख्य कर अधिकारी ने समिति के सुझाव पर शीघ्र ही शिविर लगाने एवं आपत्तियों को पूर्ण रूप से दूर कराने के बाद ही टैक्स जमा करवाने पर सहमति जताई।प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से समिति के संयोजक गजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष डी के सिंह व जगदम्बा प्रसाद शुक्ल, मंत्री सुनील साहनी, संयुक्त मंत्री अखिलेश प्रताप सिंह आदि शामिल रहे।

डॉ. सुरेंद्र गुप्ता का चयन एमडी मेडिसिन के पद पर होने से खुशी की लहर

लोकमित्र ब्यूरो

होलागढ़ (प्रयागराज)। हुलासगंज, दहियावां निवासी 30 वर्षीय एमबीबीएस डॉ सुरेंद्र गुप्ता का चयन गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज कानपुर मे एमडी मेडिसिन के पद हो गया। डा सुरेंद्र का चयन गुरुवार यानी 26 दिसंबर को हुई काउंसलिंग् के बाद किया गया। बता दें कि डा सुरेंद्र गुप्ता दो भाइयों मे छोटे हैं। बड़ा भाई अरुण गुप्ता भी प्रतापगढ़ मे मेडिकल अफसर है। सुरेंद्र की तीन बहनों मे सबसे बड़ी डा मुस्कान एमबीएस, दूसरी बहन प्रतिमा गुप्ता एएनएम और तीसरी महिमा गुप्ता भी एमबीबीएस हैं। यही नहीं हुलासगंज

के इस परिवार के मेडिकल क्षेत्र मे कुल 20 लोग सेवा मे हैं। फिलहाल सुरेंद्र गुप्ता के चयन से पिता डा हीरा लाल गुप्त, माता कुसुम देवी, पत्रकार नवल किशोर मिश्र, पूर्व प्रधान कर्म चन्द्र वैश्य, धर्म चन्द्र वैश्य, प्रधान मोती लाल, रवी यादव, राजू यादव, गोपाल तिवारी, शिक्षक नेता राकेश मिश्र नगरहा आदि लोगों ने खुशी का इजहार किया है।

इलाहाबाद विवि के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष इंदू प्रकाश का निधन

लोकमित्र ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष इंदू प्रकाश सिंह का निधन हो गया। वह काफी समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। शुक्रवार को सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से शोक की लहर दौड़ गई। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार रसूलाबाद घाट पर शाम चार बजे किया जाएगा। आजमगढ़ के जियापुर के मूल निवासी इंदू प्रकाश सिंह शहर के गोविंदपुर में रहते थे। वह 1987 में छात्रसंघ महामंत्री और 1995 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष चुने गए थे। वह काफी समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। इंदु प्रकाश सिंह मूलत आजमगढ़ जनपद के बहलोलपुर, मेहनाजपुर तरवां के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम शंभूनाथ सिंह, बड़े भाई कर्नल ओम प्रकाश सिंह, दूसरे स्थान पर इंदु प्रकाश सिंह उर्फ नेता जी, एक बहन गीता सिंह जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पत्राचार संस्थान में कार्यरत थीं। सबसे छोटे भाई सुधीर कुमार सिंह उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ता हैं। इंदुप्रकाश सिंह आजमगढ़ से प्रयागराज में 1980 में अध्ययन करने के लिए आए थे।राजनीति के खिलाड़ी हेमवती नंदन बहुगुणा के सानिध्य में आकर 1983 में राजनीति का ककहरा सीखना शुरू कर दिया था। सन 1985 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरब के ऑक्सफोर्ड के नाम से विख्यात है यहां छात्र संघ में महामंत्री का पहली बार चुनाव लड़े और दूसरे स्थान पर रहे। छात्रों की रहनुमाई और संघर्षों नाम से जनमानस में पहचान बनाने वाले इंदु प्रकाश सिंह 1987 में रिकॉर्ड 2199 मतों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महामंत्री चुने गए। उनके करीबी वीरेंद्र सिंह के अनुसार उस दौर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का महामंत्री और अध्यक्ष की हैसियत विधायक और सांसदों से बढ़कर हुआ करती थी।

लायंस के तत्वाधान में निकली स्वच्छता जागरूकता रैली

प्रयागराज। लायंस क्लब इलाहाबाद अशोक लायंस क्लब इलाहाबाद सिटी एवं लायंस क्लब इलाहाबाद मेंस द्वारा संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान एवं जागरूकता रैली सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से निकाली गई।

रैली कॉलेज प्रांगण से प्रारंभ होकर मटिहरा रोड से जाकर बाघम्बरी गद्दी से होते हुए लेबर चौराहा पानी की टंकी के पास स्कूल प्रांगण में समाप्त हुई। इस रैली में शिशु सरस्वती शिशु मंदिर किदवई नगर ने भी अपने सभी विद्यार्थियों के साथ जिसमें ड्रम वाद्य भी था सम्मिलित हुए। रैली में विद्यार्थियों एवं लायन सदस्यों को

मिलाकर 500 थी।रैली को दोनों स्कूलों के प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, उप मंडल अध्यक्ष प्रथम डॉक्टर अर्पण घर दुबे, उप मंडल अध्यक्ष द्वितीय उदय चंदानी ने हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना किया।

इस अवसर पर प्रयागराज के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजय गुप्ता , सतीश टंडन सचिव योजना, एडवाइजर गवर्नर उमेश कक्कड़ एवं अनेक वरिष्ठ लायन सदस्य उपस्थित थे। जोन चेयरपर्सन एवं रीजन चेयरपर्सन भी उपस्थित थे। अध्यक्ष अनूप सिंह, अध्यक्ष मुकुल श्रीवास्तव एवं अध्यक्ष सरला मध्यान के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

मिशन शक्ति अभियान फेज-05 के अन्तर्गत चला जागरूकता अभियान

लोकमित्र ब्यूरो

कौशाम्बी। मिशन शक्ति अभियान फेज-05 के अन्तर्गत आज पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में जनपद के विभिन्न थानों के थाना प्रभारी व महिला बीट उपनिरीक्षक, आरक्षियों द्वारा चौराहों, बस स्टैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड, जिला अस्पताल, विद्यालय, गांव व कस्बा में भ्रमण कर, चौपाल लगाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा ग्राम कोशम इनाम मे जाकर, थाना संदीपन घाट पुलिस टीम द्वारा मूरतगंज बाजार मे भ्रमणशील रहकर, थाना मोहब्बतपुर पइंसा पुलिस टीम द्वारा ग्राम फत्तू का पुरवा मे जाकर, थाना सैनी पुलिस टीम द्वारा कस्बा सिराथू मे भ्रमण कर तथा थाना कडाधाम,

महिला थाना, पश्चिम शरीरा, पिपरी एवं थाना महेवाघाट पुलिस टीम द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र मे भ्रमण कर, चौपाल लगाकर, कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चियों, छात्राओं, महिलाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया गया तथा उनके प्रति होने वाले किसी भी अपराध एवं संबंधित अपराधियों के बारे में तत्काल पुलिस एवं शक्ति मित्र महिला पुलिसकर्मियों अथवा थानों में बने महिला हेल्प डेस्क पर सूचना देने के लिए जागरूक किया गया। महिलाओं एवं बच्चियों को पम्पलेट वितरित कर विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जैसे 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1090 वीमन पावर हेल्पलाइन, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ सेवा, 108 एंबुलेंस सेवा, 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन, 181 वन स्टाप सेन्टर, तथा 112 पुलिस आपात कालीन सेवा आदि के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया तथा इमरजेन्सी कॉल, पैनिक बटन का मोबाइल पर उपयोग करने हेतु डेमो दिखाया गया एवं महिला अपराध आदि की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा सरकार द्वारा जारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, अभ्युदय योजना,

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिलाओं को पेंशन योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, आयुष्मान योजना आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी।

समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में हुई शोकसभा

लोकमित्र ब्यूरो

कौशाम्बी। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय मंझनपुर में महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती मनाई गई। जिसकी अध्यक्षता पार्टी जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव ने किया तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की आकस्मिक निधन पर पार्टी कार्यालय में 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति है। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मानसिंह पटेल, भोलानाथ सरोज, प्रदीप चौधरी, रोहित यादव, आफ्ताब शेख, लवलेश, प्रधान भारत सिंह लोधी, अंचल पटेल, पप्पू यादव, राजू पटेल, नवनीत यादव, हंसराज सरोज, राम सुरेमन सरोज, राम लखन, संजय सरोज, नथन लोधी, प्रदीप यादव, मनोज पाल, विनोद, संजय, नथनलाल, शिवसागर यादव आदि मौजूद रहें।

एआरके कॉलेज में जूनियर इलेवन ने हॉस्टल इलेवन को हराया

लोकमित्र ब्यूरो

सराय अकिल, (कौशाम्बी)। सराय अकिल क्षेत्र ए आर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ए आर के प्रीमियम लीग सीजन 2 के दूसरे दिन खेले गए क्रिकेट मैच में जूनियर इलेवन के कप्तान अनुराग त्रिपाठी ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया पर कप्तान अनुराग की धारदार गेंदबाजी के आगे कप्तान नीरज की अगुवाई वाली हॉस्टल इलेवन ने 8 ओवर में मात्र 59 पर सिमट गई, हॉस्टल इलेवन की तरफ से शहजाद ने हैट्रिक छक्के की मदद से 19 रन बनाए जबकि जूनियर इलेवन की तरफ से अनुराग एवं विवेक ने तीन तीन एवं दिलीप ने दो विकेट लिए जवाब में जूनियर इलेवन की तरफ से कप्तान अनुराग के ताबड़तोड़ 33 रन की मदद से मात्र 6ओवर में विजय अर्जित की। कप्तान अनुराग को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ दी मैच का पुरस्कार दिया गया एवं शहजाद को हैट्रिक छक्के के लिए आयोजक फरहान सर की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। इस क्रिकेट मैच में अंपायरिंग का जिम्मेदारी पद्माकर द्विवेदी सर एवं जय प्रकाश दिवाकर ने निभाई।

वाहन चेकिंग के दौरान की गई कार्यवाही

कौशाम्बी। जनपद में चलाये जा रहे यातायात से सम्बन्धित अभियान के क्रम में जनपद स्तर पर विभिन्न थानों व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सघन चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान दो-पहिया, चार पहिया वाहनों को चेक किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 142 वाहनों का ई-चालान किया गया।

बीआरसी चायल में शोक सभा का हुआ आयोजन

लोकमित्र ब्यूरो

कौशाम्बी। खंड शिक्षा अधिकारी चायल के नेतृत्व में ब्लॉक संसाधन केंद्र चायल एवं प्राथमिक विद्यालय चायल में भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहावसान होने पर शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में विद्यालय के बच्चों को संबोधित करते हुए उनके जीवन काल की उपलब्धियों के विषय में बताते हुए भारत देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।इसी के साथ प्राथमिक विद्यालय रैया देह माफी में गुरुवार को असमय दिवंगत हुए कक्षा आठ के छात्र इरफान अहमद को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी चायल, बीआरसी चायल का समस्त स्टाफ एवं प्राथमिक विद्यालय चायल के समस्त स्टाफ सहित विद्यालय के बच्चों ने दो मिनट का मौन रख दिवंगत की आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की।

विजलेंस और अवर अभियंता की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को की छापेमारी

लोकमित्र ब्यूरो

करारी, कौशाम्बी। सदर ब्लाक के गोपाल मिश्र के पुरवा गांव में शुक्रवार को विजलेंस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने छापा मारकर 3 दर्जन कनेक्शन काट दिए गए हैं। एक लाख के ऊपर के बकायेदारों का कनेक्शन काटते हुए अधिकारियों ने जल्द से जल्द बकाया बिल जमा करवाने की बात कही है।

शुक्रवार को सदर ब्लाक के गोपाल मिश्र के पुरवा गांव में विजलेंस के जेई राजेंद्र दिवाकर और करारी अवर अभियंता अमर सिंह ने अपने टीम के साथ गांव में अभियान चलाकर छोएमारी की। इस दौरान गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। एक लाख के ऊपर 15 बकायेदारों का कनेक्शन काटा गया तो एक लाख के नीचे वाले 21 लोगों का कनेक्शन काट दिया गया। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए अधिकारियों ने साफशब्दों में कहा कि यदि बकायेदार उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं जमा करेगा तो उसका कनेक्शन नहीं जोड़ा जाएगा।जेई अमर सिंह और विजलेंस के जेई राजेंद्र दिवाकर ने बकायेदारों को एक मुश्त योजना का लाभ उठाकर बिल जमा करवाने की बात कही। साथ ही ब्याज छूट होने की बात बताई। इस दौरान एक दर्जन कर्मचारी मौजूद रहे।

हर्दय गति रूकने से शिक्षामित्र का हुआ निधन

लोकमित्र ब्यूरो

कौशाम्बी। कंपोजिट विद्यालय तेरहरा सिराथू में तैनात शिक्षामित्र चंद्रसेन सिंह निवासी खोजवापुर मंझनपुर को रात 09 बजे हर्दय गति रूकने से निधन हो गया। रात में ही परिवार के सदस्य इलाज हेतु प्रयागराज ले गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। आज उनका दाह संस्कार पैतृक निवास खोजवापुर में दोपहर 02:30 बजे कर दिया गया। उक्त जानकारी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने दी।

डॉ0 मनमोहन सिंह के द्वारा किये गए कार्य को याद रखेगा देश- राशिद रिजवी

लोकमित्र ब्यूरो

करारी, कौशाम्बी। करारी कस्बा स्थित डॉ0 रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल में शुक्रवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गयी। उनके द्वारा किये गए कार्य को याद किया गया। इस मौके पर सभी की आंखें नम थी। डॉ0 अख्तर हसन रिजवी एजुकेशनल ट्रस्ट के सचिव करार हुसैन उर्फ राशिद रिजवी ने डॉ0 मनमोहन सिंह के द्वारा किये गए कार्यो को बताया। उन्होंने बताया कि 1991 में, वित्त मंत्री के रूप में डॉ0 सिंह ने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, जो दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमी आर्थिक वृद्धि और भ्रष्टाचार का स्रोत था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, जिससे विकास में नाटकीय रूप से तेजी आई। इसके बाद उपस्थित सभी अध्यापक सहित छात्र छात्रा आदि ने दो मिनट का मौन रख कर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार, ओम शंकर पाण्डेय, अश्नीत कुमार, शमीम रजा, मोहम्मद आरिफ आदि अध्यापक सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे।

सनातन सन्देश, धर्म रक्षा ही समाज और राष्ट्र की रक्षा है- साध्वी सरस्वती दीदी

लोकमित्र ब्यूरो

इंदौर। यह लेख सनातन धर्म के महत्व, इसकी आध्यात्मिक शक्ति और समाज में इसकी भूमिका पर गहन प्रकाश डालता है। साध्वी सरस्वती दीदी ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सनातन सन्देश बतलाकर धर्म के उच्च आदर्शों और इसकी अमरता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। सनातन धर्म की विशेषताएँ आदि से अंत तक स्थायी धर्म सनातन धर्म को पूरे विश्व में सबसे प्राचीन और स्थायी धर्म माना गया है, जो वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर आधारित है। यह मानव मात्र के कल्याण और सत्य मार्ग की स्थापना का संदेश देता है। श्री हरि का धर्म स्थापना में योगदान साध्वी सरस्वती जी ने भगवान राम और कृष्ण के जीवन के उदाहरण देकर समझाया कि कैसे भगवान ने सत्य और धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। भागवत कथा का

महत्व साध्वी जी ने श्रोताओं को भागवत कथा की शरण में आने का आह्वान करते हुए कहा कि यह जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति पाने का माध्यम है। धर्म की रक्षा का संकल्प साध्वी जी ने अपने जीवन में धर्म और गौ संरक्षण के लिए संकल्प लिया है। उनका कहना है कि यदि धर्म की रक्षा की जाएगी, तो वह हमारी भी रक्षा करेगा। राष्ट्रभक्ति का संदेश साध्वी सरस्वती ने राष्ट्रभक्ति के महत्व पर जोर दिया और सोने की चिड़िया जैसे गीतों के माध्यम से श्रोताओं को प्रेरित किया।

सामाजिक योगदान 111 कन्याओं का विवाह इस भागवत कथा आयोजन में दिलीप अग्रवाल जी के परिवार द्वारा 111 कन्याओं के सामूहिक विवाह की योजना को साध्वी ने ठाकुर की कृपा बताया। यह सामाजिक सेवा का एक अनुकरणीय उदाहरण है। गौ संरक्षण का आग्रह साध्वी जी ने प्रधानमंत्री से यह आह्वान किया कि पूरे विश्व में गौ हत्या पर रोक लगाने का कानून लागू किया जाए। श्रोताओं पर प्रभाव इस कथा के माध्यम से श्रोताओं को न केवल आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हुई, बल्कि राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, और धर्म रक्षा का भाव भी जागृत हुआ। राजा परीक्षित, सुखदेव जी, और ध्रुव जैसे पवित्र प्रसंगों ने कथा में आध्यात्मिकता का रंग भर दिया। समापन साध्वी सरस्वती और भागवत कथा वाचक अर्चना शर्मा जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से धर्म, सेवा, और त्याग की भावना को प्रबल किया। यह कथा आयोजन, न केवल आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत बना, बल्कि सामाजिक उत्थान और धर्म की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी प्रदान करता है।

बच्चों की उपस्थिति, ठहराव, नामांकन व गुणवत्ता को लेकर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आज

कौशाम्बी। ब्लॉक संसाधन केंद्र चायल द्वारा विकास खंड के समस्त ग्राम प्रधान, स्थानीय प्राधिकारी निकाय के सदस्यों का ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन दिनांक शनिवार को बीआरसी प्रांगण में खंड शिक्षा अधिकारी हिना सिद्दीकी की अगुवाई में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में सकारात्मक वृद्धि सामुदायिक सहभागिता अभिभावकों एवं ग्राम पंचायत के विद्यालय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय सहभागिता संबंधित चर्चा की जाएगी।

पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर सदन की बैठक स्थगित, हुई शोक सभा

लोकमित्र ब्यूरो

कौशाम्बी। जिला पंचायत के रत्नावली सभागार में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को जिला पंचायत के सदन की बैठक का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर की अध्यक्षता में होना था। जिसमें बतौर अतिथि सांसद पुष्पेंद्र सरोज में उपस्थित हुए। लेकिन अचानक पूर्व प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह के निधन की सूचना पर राजकीय शोक होने पर सदन की बैठक स्थगित करते हुए शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई। शोक सभा में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कमलेश सिंह, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव, जिला पंचायत सदस्य सोनी चौधरी सहित तमाम सदस्यगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी आयोजित शोक सभा में मौजूद रहें।

बिहार में संस्कृत प्रवक्ता बन परिवार का नाम रोशन किया आशुतोष

लोकमित्र ब्यूरो

पश्चिम शरीरा, कौशाम्बी। पश्चिम शरीरा कस्बा निवासी अशुतोष मिश्रा का बिहार में संस्कृत प्रवक्ता के पद पर चयन हुआ है। इनकी सफलता से परिवार व परिचितों में खुशी है। आशुतोष मिश्र की हाईस्कूल व इंटर की पढ़ाई कस्बे के जिला पंचायत इंटर कॉलेज से हुई है। इन्होंने दोनों परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसी बीच इनके पिता बसंतलाल मिश्र की निधन हो गया। पिता की मौत के बाद आशुतोष थोड़ा प्रभावित हुए लेकिन इन्होंने पढ़ाई जारी रखा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक व परास्नात करने के बाद बुदेलखंड विश्वविद्यालय से संस्कृत में बीएड व एमएड किया। बीते साल इन्होंने बिहार प्रांत से प्रवक्ता के पद के लिए निकली भर्ती में आवेदन किया। इसके बाद हुई परीक्षाओं के परिणाम बृहस्पतिवार की शाम को घोषित किए गए। इस इसमें आशुतोष का प्रवक्ता के पद पर चयन हो गया। जानकारी होते ही परिवार व परिचितों में खुशी है। बतादें कि तीन भाई में आशुतोष सब से छोटे हैं। इनके बड़े भाई अजीत मिश्र किसान है। वहीं मंझले भाई आनंद मिश्र बिजली विभाग में काम करते हैं। छोटी बहन स्नात की पढ़ाई कर रही हैं। इनके चाचा पवन कुमार मिश्र पूर्व प्रधान हैं।

समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में मनाई गई महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती

लोकमित्र ब्यूरो

कौशाम्बी। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय मंझनपुर में महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती मनाई गई। जिसकी अध्यक्षता पार्टी जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव ने किया तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की आकस्मिक निधन पर पार्टी कार्यालय में 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति है। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मानसिंह पटेल, भोलानाथ सरोज, प्रदीप चौधरी, रोहित यादव, आफ्ताब शेख, लवलेश, प्रधान भारत सिंह लोधी, अंचल पटेल, पप्पू यादव, राजू पटेल, नवनीत यादव, हंसराज सरोज, राम सुरेमन सरोज, राम लखन, संजय सरोज, नथन लोधी, प्रदीप यादव, मनोज पाल, विनोद, संजय, नथनलाल, शिवसागर यादव आदि मौजूद रहें।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेसियों ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि

लोकमित्र ब्यूरो

कौशाम्बी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज कांग्रेसियों ने उनहें जिला अल्पसंख्यक चेयरमैन सरवर आलम के सिन्होरी स्थित कार्यालय पर कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दिया। कार्यक्रम में शामिल वरिष्ठ नेता मो शाहिद सिद्दीकी ने कहा की मनमोहन सिंह का कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा, उनके द्वारा देश के लिए किये गए काम हमेशा देश के लोगों के बीच उनकी या को जीवित रखेगी। प्रदेश प्रवक्ता तमजीद अहमद ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश को हमेशा गंभीर संकटों से उबारा, उनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित रहा और उनसे देश ही नहीं पूरा विश्व प्रेरणा लेता रहेगा। जिला चेयरमैन सरवर आलम ने कहा कि मनमोहन सिंह को देश और देश के अंतिम पंक्ति मे बैठा हुआ व्यक्ति भी हमेशा याद रखेगा। इस मौके पर मुख्य रूप से वरिस्ठ नेता मो शहीद सिद्दीकी, जिला चेयरमैन सरवर आलम, अमित साहू, नदीम अहमद, वसीम तुर्क, नरेश पासी, सबील अहमद, वीरेंद्र प्रजापति, शाहनवाज अख्तर, अदनान अहमद, मोहम्मद रजा, तनवीर अहमद, बच्चे भाई, रामसागर, विपिन सहित कई साथी मौजूद रहे।

कलेक्ट्रेट पंहुचकर ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी द्वारा किए गए कार्यो की मिलकर की सराहना

लोकमित्र ब्यूरो

कौशाम्बी। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देशन में जनपद की ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल, अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे-पल्स पोलियो अभियान, टी0बी0 उन्मूलन कार्यक्रम, फैमिली आई0डी0, फार्मर रजिस्ट्री, गोल्डेन कार्ड, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, कन्या सुमंगला योजना, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, स्वयं सहायता समूह एवं पीएम विश्वकर्मा योजना सहित आदि विभिन्न योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाकर जनपदवासियों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिस पर जनपद के ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी के कार्यों से खुश होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष पहुँचकर जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए उनके द्वारा जनपद में कराये जा रहें कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। ग्राम प्रधानों द्वारा कहा गया कि आप द्वारा आम-जनमानस की समस्याओं को सुनते हुए उसका त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। आज हम सब लोग अपने आपको गौरन्वित महसूस कर रहें हैं, कि हमें आप जैसे जिलाधिकारी मिलें हैं, यदि आप जैसे अधिकारी इस जिले में रहेंगे तो जनपद का तेजी से विकास होगा। सरकार द्वारा संचालित येजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने एवं पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाये जाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान हैं। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप लोगों का इसी तरह का सहयोग बना रहेंगा, तो जनपद का जरूर विकास होगा। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जनपद के सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाया जायेंगा, कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं होने पायेंगा।

पुलिस अधीक्षक ने सुनी जनशिकायत

कौशाम्बी। पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की गयी। इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण

संक्षिप्त खबरें

सेवानिवृत्ति शिक्षक के निधन पर शोक-संवेदना



रखहा प्रतापगढ़। राजकुमारी इंटर कॉलेज दिलीपपुर के शिक्षक शिवकुमार शर्मा का 74 वर्ष की अवस्था में शुक्रवार को सुबह निधन हो गया । उनके निधन की खबर पाते ही आसपास के लोगों ने शोक व्यक्त करते हुये अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है ।बाबा बेलखरनाथ धाम के श्रीनाथपुर गांव के निवासी शिवकुमार शर्मा दिलीपपुर इंटर कॉलेज के गणित शिक्षक रहते हुये विद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये छात्रों में लोकप्रिय रहे । वर्ष 2011 में वह विद्यालय से सेवानिवृत्त हुये थे। तब से घर पर ही रह रहे थे तथा दो वर्ष से न्यूरो संबंधित बीमारी से पीड़ित थे । परिवार में पत्नी ज्ञाना देवी के अलावा बेटे प्रदीप कुमार शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा व संदीप कुमार शर्मा तथा दो बेटियां गीता देवी व अमृता शर्मा थी ।उनके निधन की खबर पाते ही आसपास की लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है । भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश त्रिपाठी, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अंशुमान सिंह, श्रीनाथपुर के ग्राम प्रधान कुलवंत शर्मा उर्फ काजू, प्रधान बबलू सिंह, बृजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व प्रधान रिंकू सिंह, के के शर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक शमशेर सिंह, अधिवक्ता नीरज राय, वीरेन्द्र शर्मा, सुनील त्रिपाठी, आशिक अली, चन्द्र भान शर्मा, चुम्बक नाथ पांडेय, सुरेश चन्द्र त्रिपाठी, मिथुन पान्डेय सहित अनेक लोगों ने गहरा शोक व्यक्ति किया है ।

सफाई कर्मचारी संघ का चुनाव 5 जनवरी को

प्रतापगढ़। जनपद के सफाई कर्मचारियों का चुनावध् अधिवेशन 5 जनवरी को प्रातः 10 बजे से एस आर टावर रूपापुर, निकट- विकास भवन, दिन-रविवार को होगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ जनपद शाखा के जिला अध्यक्ष मिथिलेश सिंह ने दी। बताते चलें कि जनपद के सफाई कर्मचारियों का 2 वर्ष के चुनाव का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। 5 तारीख को 2 वर्षीय चुनाव की तिथि रखी गई है, जिसमें सभी ब्लॉक के पदाधिकारी व सफाई कर्मचारी को चुनाव में आने की पूर्ण संभावना है। सफाई कर्मचारियों का ऐतिहासिक चुनाव होता है, जिसमें कई बार बीएल पटेल जिला अध्यक्ष बने हैं । देखना यह है कि इस बार सातवीं बार जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारियों का कौन बनता है।

राष्ट्र रक्षा हेतु जोरावर व फ्तेह सिंह के बलिदान नहीं भुला सकता देश- लव सिंह गहलौत

रानीगंज प्रतापगढ़। सिक्ख गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और पांच वर्षीय फ्तेह सिंह के द्वारा सनातन धर्म, मातृभूमि व राष्ट्र रक्षा के लिए दिए गए बलिदान को कभी भी देश वासी भुला नहीं सकते हैं। उनके बलिदान से हमेशा आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र व सनातन धर्म, मातृभूमि रक्षा करने की प्रेणना मिलती रहेगी।उक्त बातें समाजसेवी व प्रबंधक लव सिंह गहलौत एडवोकेट ने के पी सिंह हाई स्कूल कसेरूआ चौवनगढ़ में वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार और उनके पुत्रों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हुए कही।विद्यालय के सभी सम्मानित अध्यापक व बच्चों ने बलिदानी जोरावर सिंह, फ्तेह सिंह व अन्य दोनों भाइयों के चित्र पर श्रध्दा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर सहायक अध्यापक रामआसरे मिश्र, एपी सिंह, विपिन पाल, आकाश श्रीवास्तव, सुमन सिंह, लखन पुष्पाकर व सभी बच्चे मौजूद रहे।

संत जेवियर्स स्कूल में तीन दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता आयोजित

प्रतापगढ़। संत जेवियर्स स्कूल रंजीतपुर चिलबिला मे तीन दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन संस्थान के प्रबंधक संजीव सिंह,राजेश खंडेलवाल प्रिंसपल, संतोष द्विवेदी,मनोज पाण्डेय की देख रेख में चल रहा है। इसमें विधार्थी अपने शारीरिक प्रदर्शन करते नजर आए। बच्चो का मानना है कि खेल से शारिरिक एवं मानसिक का विकाश भी होता है। विज्ञान चिकित्सा,आदि के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया मे भी सम्मान अवसर मिलते है, बस खिलाड़ियों को मार्गदर्शन के साथ साथ निरन्तर अभ्यास की भी जरूरत होनी चाहिए। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिका किरण मिश्रा, आकृति पांडे, विनीत सिंह,स्वाति यादव,दिशा सिंह,नीतू शर्मा, शिखा सिंह,सोनम सिंह,अपर्णा पांडे, शिखा चतुर्वेदी,हंसराज सिंह,प्रदीप यादव,प्रियम श्रीवास्तव,किशन सिंह,आशीष यादव, विनय शुक्ला,अम्बुज खान र्स आदि उपस्थित रहे।

अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

कुण्डा,प्रतापगढ़। बाघराय पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान क्षेत्रान्तर्गत अंकित मेडिकल स्टोर रामगढ़ बनोही से 1 किलो 320 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया तथा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में दिनाँक 26.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार थाना बाघराय के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, चेकिंग के दौरान मुखबिर की महत्वपूर्ण सूचना पर कि अंकित मेडिकल स्टोर रामगढ़ बनोही में एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर में अवैध रूप से गांजा बेच रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री जिलेदार पाल मय हमराह उ0नि0 लालजी राम, आरक्षी सत्य प्रकाश, आरक्षी राजेन्द्र तिवारी, आरक्षी रणजीत कुमार के द्वारा मुखबिर को साथ लेकर रामगढ़ बनोही में अंकित मेडिकल स्टोर से 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध गांजा कुल वजन 01 किलो 320 ग्राम बरामद किया गया । बरामद अवैध गांजा के संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0स0- 401ध्24 धारा 8ध्20 एनडीपीएस एक्ट बनाम संतोष मिश्रा पुत्र प्रेम नारायण मिश्रा निवासी ग्राम कर्माजीत पट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

जिलाधिकारी ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा कर दिये आवश्यक दिशा निर्देश

लोकमित्र ब्यूरो

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कैम्प कार्यालय सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में नियमित टीकाकरण की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि बच्चों का नियमित टीकाकरण किया जाये, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। आशाओं के भुगतान के समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि आसपुर देवसरा में भुगतान की कार्यवाही लम्बित है जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि आशाओं का भुगतान समय से किया जाये। समीक्षा में पाया गया कि आईएफए सिरप को बच्चों तक नही पहुँचाया जा रहा है जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये लालगंज एवं मानधाता के प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि आशाओं के माध्यम से आईएफए सिरप का वितरण कराया जाये अन्यथा की स्थिति में वेतन रोकने की कार्यवाही की सुनिश्चित की जायेगी। आईएफए सिरप वितरण में प्रतापगढ़ सदर, कुण्डा, गौरा, लक्ष्मणपुर, अर्बन का प्रतिशत कम पाये जाने पर सुधार लाने के निर्देश दिये गये। अन्तरा एवं छाया स्टाक में प्रगति खराब पाये जाने पर फार्मासिस्ट का वेतन रोकने के निर्देश दिये गये। जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि जननी सुरक्षा योजना का संचालन पूर्ण गुणवत्ता और मानक के अनुरूप करें और जननी सुरक्षा योजना का भुगतान शत् प्रतिशत किया जाये, जिन स्वास्थ्य केन्द्रों पर जननी सुरक्षा योजना का भुगतान पेन्डिंग है उसका तत्काल निस्तारण करवाते हुये भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। एनसीडी स्क्रीनिंग रिपोर्ट की समीक्षा में पाया गया कि ए0एन0एम0 द्वारा लापरवाही बरती जा रही है जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि एएनएम द्वारा कार्य कराया जाये यदि लापरवाही करती है तो कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आयुष्मान कार्ड की समीक्षा में प्रगति अच्छी न पाये जाने पर जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएचओ को लगवाकर कार्य में तेजी लाये। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि एआरसी का ग्रुप बनाकर प्रतिदिन की रिपोर्ट मंगवायी जाये। जिलाधिकारी ने बैठक में स्वास्थ्य कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों व अन्य सम्बन्धित को निर्देश दिया गया कि प्रगति के आंकड़ों को पोर्टल पर समय से अंकित करें इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाये। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न वित्तीय मदों में प्राप्त धनराशि की समीक्षा कर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि किसी भी मद में पैसा लम्बित न रखे समय से उसका उपयोग कर लिया जाये।

इसी प्रकार बैठक में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, आभा आई0डी0, परिवार कल्याण कार्यक्रम, आरसीएच पोर्टल, प्रसव, एफ्आरयू, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यूपी हेल्थ डैशबोर्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर चर्चा की। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य सेवाओं तथा जनता से जुड़ी योजनाओं का बेहतर तरीके से संचालन करें, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी अपने-अपने कार्यो एवं दायित्वों के प्रति सजग रहे, दी गयी जिम्मेदारियों का शत् प्रतिशत निर्वहन करें, लापरवाही कदापि न बरते। बैठक के दौरान एचएमआईएस डाटा के विभिन्न संकेतकों आधार पर यूपी हेल्थ डेस्क बोर्ड की रैंकिंग राज्य स्तर से निकाली जाती है जनपद प्रतापगढ़ की रैंक 44 है जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाबागंज प्रथम स्थान, सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र बाबा बेलखरनाथ धाम द्वितीय स्थान एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संग्रामगढ़ तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिये जिलाधिकारी ने सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 ए0एन0 प्रसाद सहित सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, अधिशासी अधिकारी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

नाबालिग से दुष्कर्म का वांछित गिरफ्तार, गया जेल

सगरा सुंदरपुर प्रतापगढ़। लीलापुर थाना के उप निरीक्षक अमरेश यादव ने दुष्कर्म के आरोप में वांछित चल रहे अंकित कुमार पुत्र आनंद कुमार शुक्ला निवासी खरवहिया खीरी सेमरा जनपद खीरी को शुक्रवार की सुबह हंडौर तिराहे के पास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामलें में लीलापुर एसओ अरुण सिंह ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही थी। उस पर दुष्कर्म का आरोप था, पॉस्को की भी धारा बढ़ाई गई है। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही तरुण चेतना का उद्देश्य- नसीम अंसारी

सांस्कृतिक उत्सव में बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

लोकमित्र ब्यूरो

पट्टी प्रतापगढ़। तरुण चेतना द्वारा संचालित बाल अधिकार परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बहुता में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नुक्कड़ नाटक का बच्चों द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने गीत व नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति करते हुए बाल विवाह एवं बाल श्रम जैसे कुप्रथाओं को जड़ से खत्म करने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में बाल कलाकार के रूप में पचास से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें चेतना गीत, नुक्कड़ नाटक, सामूहिक नृत्य तथा प्रहसन नाटक का मंचन करके ÷पढ़ने लिखने की उम्र है- बाल विवाह जुर्म है÷ आदि नारों से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इसी क्रम में बहुता के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित वाहिद अंसारी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करता है। इस अवसर पर संस्था के निदेशक नसीम अंसारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही तरुण चेतना का मुख्य उद्देश्य है। हमारी संस्था का संकल्प है किसी भी बच्चे के साथ बाल अपराध नहीं होने देंगे यह तभी संभव है जब हम सब बाल विवाह बाल श्रम जैसे कुप्रथाओं के प्रति जागरूक होंगे। उन्होंने आह्वान किया कि आइए हम सब बाल विवाह व बाल श्रम जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने का संकल्प लें। अंत में प्रतिभागी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए संस्था द्वारा दीवार घड़ी एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन रिसर्च ऑफिसर श्याम शंकर शुक्ला ने किया जिसमें बाल अधिकार परियोजना समन्वयक अच्छेलाल बिन्द, हकीम अंसारी, शकुंतला, शहीद अहमद, नाजरीन, मंजू गुप्ता, संगीता, अभिषेक, मुजम्मिल, हुस्नारा, कलावती, छाया, उमेश गौतम, बदरुन्निशा आदि लोग उपस्थित रहे।

मैजिक की टक्कर से बाईक सवार लेखपाल जख्मी

पट्टी प्रतापगढ़। तहसील मुख्यालय जा रहे बाईक सवार लेखपाल को मैजिक चालक ने जोरदार टक्कर मार दिया। इससे उसे गंभीर चोटें आई गई। उसकी हालत गंभीर होने के कारण स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।पट्टी तहसील क्षेत्र के बेहटा गांव निवासी महेंद्र पांडे जो की पट्टी तहसील में लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं। शुक्रवार को दिन में 1 बजे के आसपास वह तहसील मुख्यालय आ रहे थे। अभी वह तरदहा पावर हाउस के पास पहुंचे थे कि मैजिक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दिया। जिससे वह मौके पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में आसपास के लोग उन्हें इलाज के लिए सीएचसी पट्टी ले गए। जहां से डॉक्टरो ने प्राथमिक उपचार कर हालत गंभीर होने के चलते समुचित उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

जिलाधिकारी ने वीवीपैट वेयरहाउस का किया निरीक्षण

लोकमित्र ब्यूरो

प्रतापगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी संजीव रंजन ने अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) त्रिभुवन विश्वकर्मा के साथ पूरेकेशवराय स्थित वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गोदाम में रखी गयी वीवीपैट मशीनों का अवलोकन किया और जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होने निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें। उन्होने वीवीपैट वेयरहाउस में रखी अन्यत्र वस्तुओं को हटाने के निर्देश दिया और सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया गया कि वीवीपैट वेयरहाउस की निगरानी मुस्तैदी के साथ करते रहे। जिलाधिकारी ने अपने समक्ष वीवीपैट वेयरहाउस में सील लॉक कराया। इस दौरान उपजिलाधिकारी जितेन्द्र पाल व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह के निधन पर दी श्रद्धांजलि

लोकमित्र ब्यूरो

प्रतापगढ़। जिला कांग्रेस कार्यालय पर महान अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष डॉ नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में उनके चित्र पर माल्यार्पण करके एवं 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ नीरज त्रिपाठी ने कहा कि आज हम ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए शोक सभा कर रहे हैं जिनके राज में रुपया 30 का दिहाड़ी मजदूर 300 की मजदूरी तक पहुंचा। जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में था और देश का 47 टन सोना गिरवी था तब भी हमारे देश पर मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। कॉलेज के लेक्चर से लेकर आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर बेदाग तय किया। नगर अध्यक्ष इरफान अली ने कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्व के जाने से जो रिक्तता देश की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति में हुई है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। पी.सी.सी सदस्य डॉ.प्रशांत देव शुक्ला ने कहा कि हम जनपद के कांग्रेस जन अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार जनों को सहनशीलता प्रदान करें । श्रद्धांजलि सभा मे वेदान्त तिवारी,कांग्रेस सेवादल के जिला अध्यक्ष महेन्द्र शुक्ला, प्रदीप द्विवेदी,कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मकरंद शुक्ला, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सरोज कश्यप, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नफीस खान, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष शुभम मिश्रा, अरबाज आलम,राम रतन तिवारी, रानी देवी, अभय किशोर त्रिपाठी,चन्द्रनाथ शुक्ला, अवधराज यादव,मुन्ना यादव,सलमान खान, बेलाल अहमद,प्रेम नाथ शुक्ला,सुधीर तिवारी,सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, अब्दुल रहमान, विश्वास सिंह,श्याम शंकर तिवारी, अश्वनी उपाध्याय, शहजाद अहमद,मो. इदरीसी, संदीप सिंह,रामधन यादव, दिनेश तिवारी, अजीत शुक्ला,रवि प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे।

दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को दो मिनट मौन रख कर दी गई श्रद्धांजलि

लोकमित्र ब्यूरो

बिहार प्रतापगढ़। विकास खंड बिहार परिसर में सुबह विकासखंड कार्यालय पहुंचे कर्मचारियों ने एडीओ आईएसबी सुरेंद्रनाथ के नेतृत्व में दो मिनट का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किया। बताते चलें कि भारत राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री जोकि कांग्रेस शासन काल के 2004 से 2014 तक लगातार दो पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे थे।जो कि अर्थशास्त्र के विद्वान,बेहद जानकार थे। ज्ञात हो कि विकास खंड बिहार परिसर में दिन गुरुवार को सायं आखिरी सांस लेने वाले पूर्व प्रधान मंत्री की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। देने इस दौरान बीटी अशोक कुमार,सफाई कर्मचारी,राम आसरे,विपिन कुमार स्वच्छताग्रही संघ के जिलाध्यक्ष प्रशांत तिवारी सोहगौरा समेत अन्य कर्मचारी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

किसानों को माइक्रोइरीगेशन योजना की दी गयी जानकारी

प्रतापगढ़। ''पर ड्राप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन योजना वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत एक दिवसीय कृषकों का प्रशिक्षण ग्राम पृथ्वीगंज बाजार विकास खण्ड शिवगढ़ में जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार शर्मा एवं कम्पनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ जिसमें विकास खण्ड शिवगढ़ के किसान सम्मिलित हुये। किसानों को ''पर ड्राप मोर क्रॉप''-माइक्रोइरीगेशन योजना में मिलने वाले अनुदान एवं खेती में सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुये कम पानी एवं कम लागत में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों की आय को दोगुना करने की जानकारी प्रदान की गयी। कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित किसानों को ड्रिप सिंचाई पद्धति, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर एवं लार्ज वाल्यूम (रैनगन) का प्रयोग करते हुये किन-किन फसलों की बुआई करना चाहिये तथा जैव उर्वरक एवं जैव रसायन का घोल बनाकर वेन्चुरी के माध्यम से प्रयोग करने की विधि भी बतायी गयी। गोष्ठी में विनय कुमार सिंह योजना प्रभारी, वीरेन्द्र नारायण लाल एवं कृषक हरीराम आदि उपस्थित रहे।

पर्यावरण ज्ञान परीक्षा के सफल प्रतिभागियों का हुआ सम्मान

सुखद भविष्य के लिए अभी से बचाएं पर्यावरण- अजय क्रांतिकारी

लोकमित्र ब्यूरो

प्रतापगढ़। पर्यावरण सेना द्वारा आज गौरा ब्लॉक के पीएस इंटर कॉलेज रहेटुआ परसरामपुर प्रांगण में पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से पर्यावरण ज्ञान परीक्षा (मौखिक) का आयोजन करके लोगों को पर्यावरण संरक्षण एवं हरित जीवन अपनाने हेतु प्रेरित किया गया।कॉलेज के लगभग एक सौ प्रतिभागियों ने पर्यावरण ज्ञान परीक्षा में भाग लिया और पर्यावरण से जुड़े सवालों का जवाब दिया।पर्यावरण सेना प्रमुख अजय क्रांतिकारी ने विद्यार्थियों से बात-चीत माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति व्यवहारिक तरीकों जागरूक किया, जिससे विद्यार्थियों का मनोरंजन के साथ ही ज्ञानवर्धन हुआ। परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले तीन विद्यार्थी अनूप सरोज,दीपक कुमार और वीरेन यादव को मेडल और प्रमाण पत्र देकर बाकी शेष विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पर्यावरण सेना प्रमुख अजय क्रांतिकारी ने कहा कि पीढ़ियों की सफलता प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन पर निर्भर है।हमारे द्वारा प्रकृति से लगातार छेड़छाड़ संतुलित पर्यावरण के लिए खतरा है।उन्होंने कहा कि सुखद भविष्य के लिए अभी से पर्यावरण को बचाने का कार्य करना चाहिए।उन्होंने विद्यार्थियों से जल की सुरक्षा,ऊर्जा को बचत,कचरा प्रबंधन,प्लास्टिक का त्याग एवं वृक्षारोपण के साथ ही पेड़ों की सुरक्षा का पंच प्रण के बारे में जागरूक किया।पर्यावरण सेना प्रमुख अजय क्रांतिकारी ने सभी को वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्बन उत्सर्जन को रोकने के साथ ही पेड़ों को बचाने के लिए संकल्प दिलाया।कार्यक्रम का संयोजन पर्यावरण सेना के गौरा ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप प्रजापति ने किया।

इस मौके पर कॉलेज के प्रबंधक संजय यादव,प्रधानाचार्य प्रदीप प्रजापति,कमलेश कुमार,हरिकेश यादव, श्वेता,लक्ष्मी,अंकिता,काजल, आदर्श,अभिषेक, अनुज,धर्मेंद्र,अभय कुमार एवं नमन कुमार तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

भाभी से मारपीट के आरोप ने पट्टीदारों पर केस दर्ज

सैनी, कौशाम्बी। कड़ा धाम थाना क्षेत्र के एक गांव में जमीनी विवाद को लेकर पट्टीदारों ने भाभी के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्यवाही में जुट गई है।कड़ा धाम थाना क्षेत्र के बारा हवेली खालसा निवासी सुनीता देवी पत्नी राम प्रकाश ने कड़ा धाम पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि पट्टीदारों से बंटवारे को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है, सुमन देवी का आरोप है कि उसका देवर जबरन दिवाल उठा रहा है जिसका विरोध करने पर देवर, देवरानी आदि ने गाली गलौच करते हुए मारपीट कर जख्मी कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर कार्यवाही में जुट गई है।

चोर ने बेटी के घर गए व्यक्ति की बाइक किया पार

चायल, कौशाम्बी। संदीपन घाट थानाक्षेत्र के रसूलाबाद कोइलहा गांव में गुरुवार की रात बेटी के घर गये एक व्यक्ति की बाइक चोर ने पार कर दी। सुबह बाइक वहां ना देख व्यक्ति के होश उड़ गए। उसने बाइक की काफी खोजबीन की। सुराग न लगने से निराश होकर उसने थाने जाकर घटना की तहरीर दी। तहरीर पाकर पुलिस चोर के सुराग में जुट गई है।

करारी कोतवाली क्षेत्र के अड़हरा गांव निवासी रमेश चंद्र पुत्र मेवालाल मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। उसके अनुसार वह गुरुवार को संदीपन घाट थानाक्षेत्र के रसूलाबाद कोइलहा गांव निवासी अपनी बेटी पूनम पत्नी मनोज कुमार के घर हालचाल लेने के लिए गया था। बेटी के रोकने पर वह अपनी बाइक को घर के बाहर एक किनारे खड़ी करके सोने के लिए चला गया। इसी दौरान किसी ने उसकी बाइक पार कर दी। सुबह पर वहां बाइक न देख उसके होश उड़ गए। उसने बाइक की काफी खोजबीन की। कोई सुराग न लगने से निराश होकर भुक्तभोगी ने थाने जाकर घटना की तहरीर दी। तहरीर पाकर पुलिस चोर के सुराग में जुट गई है।

घर से बाजार जाने के लिए निकला किशोर लापता

चायल, कौशाम्बी। संदीपन घाट थानाक्षेत्र के गोलकइया पुर मजरा रसूलाबाद कोइलहा गांव निवासी धनराज पुत्र भारत लाल मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। उसके मुताबिक उसका 15 वर्षीय पुत्र राज बुधवार की दोपहर घर से निकल कर बाजार की ओर गया था। इसी दौरान वह लापता हो गया।देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने तमाम संभावित ठिकानों पर उसकी तलाश की। कहीं सुराग न लगने से निराश होकर उसने थाने जाकर किशोर के लापता होने की तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस किशोर की तलाश में जुट गई है।

चोरों ने ट्रांसफार्मर तोड़कर तांबा और तेल किया पार

तिल्हापुर मोड़, कौशाम्बी। सराय अकिल कोतवाली क्षेत्र के अमवा गांव में गुरुवार की रात चोरों ने ट्रांसफार्मर को फाउंडेशन से गिराकर उसका तांबा और तेल निकाल लिया। सुबह जानकारी होने पर लाइनमैन ने घटना की सूचना अवर अभियंता को दी। अवर अभियंता ने थाने जाकर घटना की तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।विद्युत उपकेंद्र तिल्हापुर मोड़ क्षेत्र के अमवा गांव में ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति के लिए विभाग ने नेवादा इमलीगांव मार्ग पर 250 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया है।वह ट्रांसफार्मर गांव के दो सौ मीटर दूर फाउंडेशन पर रखा हुआ था। गुरुवार की रात विद्युत आपूर्ति कटने के दौरान चोरों ने ट्रांसफार्मर की तार को काटकर उसे फाउंडेशन से नीचे गिरा दिया और उसे तोड़कर उसमें से तांबा और तेल निकाल लिया। सुबह ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर को फाउंडेशन के बगल में क्षतिग्रस्त अवस्था मे पड़ा देखा। उन्होंने मामले की सूचना लाइनमैन गणेश कुमार को दी। लाइनमैन ने मामले की जानकारी अवर अभियंता जैनुद्दीन अंसारी को दी। जानकारी लेने के बाद अवर अभियंता ने थाने जाकर घटना की तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

युवक ने किशोर के साथ किया अप्राकृतिक दुराचार का प्रयास

चायल, कौशाम्बी। चरवा थानाक्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की शाम बाग की ओर गये किशोर के साथ एक युवक ने अप्राकृतिक दुराचार का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने किशोर की पिटाई भी की।साथ ही कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। किशोर ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई।पीड़ित ने पिता के साथ थाने जाकर युवक के खिलाफ मामले की तहरीर दी। तहरीर पाकर पुलिस शिकायत की जांच में जुट गई है।चरवा क्षेत्र के एक गांव का व्यक्ति किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। उसने बताया कि गुरुवार की सुबह उसका 15 वर्षीय पुत्र बाग की ओर घूमने गया था। आरोप है कि इसी दौरान गांव का ही एक युवक वहां पहुंचा और उसको पटक कर उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार का प्रयास करने लगा। विरोध करने पर उसने किशोर की पिटाई कर दी और साथ ही कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग निकला। किशोर ने घर पहुंचकर परिजनों को रोते हुए आपबीती सुनायी।उसकी बातें सुनकर उनके होश उड़ गए। पीड़ित ने पिता के साथ थाने जाकर आरोपी युवक के खिलाफ मामले की तहरीर दी। तहरीर पाकर पुलिस शिकायत की जांच में जुट गई है।

दबंगों ने झगड़े में बीच-बचाव करने पर युवक को पीटा

चरवा, कौशाम्बी। चरवा थानाक्षेत्र के मलाक नागर गांव में गुरुवार की शाम दो पक्षों के बीच हो रहे झगड़े में बीच-बचाव करना एक युवक को मंहगा पड़ गया।एक पक्ष के दबंग ने साथी संग युवक को जमकर पीट दिया। पिटाई से उसको काफी चोटें आई।शोर सुनकर वहां पहुंचे लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। घायल ने नानी के साथ थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ मामले की तहरीर दी। तहरीर पाकर पुलिस शिकायत की जांच में जुट गई है।

चरवा क्षेत्र के मलाक नागर गांव की शिवपती पत्नी स्व. सरजू प्रसाद के अनुसार उसका नाती आकाश पटेल उसका हालचाल जानने के लिए ननिहाल आया है। गुरुवार की शाम को वह बाजार की ओर चाय पीने के लिए गया था।उसने वहां देखा कि दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं।यह देख वह मौके पर जाकर मामला शांत कराने के लिए बीच-बचाव करने लगा। बीच-बचाव करने पर एक पक्ष का दबंग उसके साथ गाली-गलौच करने लगा। आरोप है कि गाली का विरोध करने पर उसने साथियों संग उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से आकाश को काफी चोटें आई।शोर सुनकर वहां पहुंचे लोगों ने उसे पिटने से बचाया। घायल ने नानी के साथ थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ घटना की तहरीर दी। तहरीर पाकर पुलिस शिकायत की जांच में जुट गई है।

फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप का तहसील अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण

लोकमित्र ब्यूरो

सिराथू, कौशाम्बी। किसानों के लाभ के लिए कृषि व राजस्व विभाग द्वारा किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी के लिए गांव गांव कैंप का आयोजन किया जा रहा है । शुक्रवार को एसडीएम , तहसीलदार सहित तहसील के अन्य अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण कर फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने के कार्य का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को किसानों से समन्वय कर अधिक से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने के निर्देश दिए। तहसीलदार सिराथू अनंत राम अग्रवाल ने मोइनुद्दीन पुर बेला , सेलरहा पश्चिम, मलाल पिंजरी रामपुर धमावा, बडनपुर कादीपुर सहित कई गांव में फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और कैंप में उपस्थित किसानों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग अपनी फार्मर रजिस्ट्री आईडी जरूर बनवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ पायें। उन्होंने बताया कि कृषि एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा राजस्व गांवों में कैंप लगाकर किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को फसली ऋण एवं फसल बीमा क्षतिपूर्ति तथा आपदा राहत प्राप्त करने में सुगमता होगी साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों हेतु बार-बार भौतिक सत्यापन से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। अधिकारियों ने सभी किसानों से नजदीकी जन सेवा केंद्र व राजस्व गांव में आयोजित होने वाले कैंप में उपस्थित होकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करा लेने की अपील की है। भ्रमण के दौरान तहसीलदार अनंत राम अग्रवाल , नायब तहसीलदार विनय कुमार सिंह , नायब तहसीलदार अतुल कुमार , खंड विकास अधिकारी संजय गुप्ता , प्रदीप सिंह , जीतलाल , लेखपाल रवि विश्वकर्मा , सुनील श्रीवास्तव , अचल सिंह सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे। वहीं सिराथू तहसील क्षेत्र के चक चमरू पुर में नायब तहसीलदार अंकिता पाठक ने फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप का स्थलीय निरीक्षण कर जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर सिराथू में हुई शोक सभा

लोकमित्र ब्यूरो

सिराथू, कौशाम्बी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह के निधन पर जगह जगह शोकसभा का आयोजन किया गया। सिराथू तहसील के सामने दर्जनों समाजसेवियों ने शोक सभा का आयोजन कर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि दी। और उनके निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। इस दौरान सत्येंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि डा मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे , 2004 से 2014 तक देश के दो बार प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जनता को आर्थिक तंगी से बाहर निकाला , विनोद कसेरा ने कहा कि भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे , उन्होंने देश के विकास में मुख्यधारा में काम किया था । करन सिंह यादव ने कहा कि उनकी प्रसिद्धि देश सहित में थी , श्याम मूर्ति तिवारी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देश के गवर्नर सहित वित्त मंत्री व प्रधानमंत्री पद पर रहकर हमेश ईमानदारी व सादगी से काम किया। हसमत अली ने कहा कि उनके निधन से देश को गहरी छती पहुंची है। इस मौके पर हसमत अली, सत्येंद्र प्रताप सिंह, करन सिंह, विनोद कसेरा, आनंद सिंह, श्याम मूर्ति तिवारी, नथन लाल, दिनेश कुमार, राम मिलन, दानिश अली, शनि कुमार, वीरेंद्र दूबे, तस्लीम, ओम प्रकाश, राजीव पटेल, रूपचन्द्र सहित दर्जनों लोग मौजूद रहें।

असली सोना, चांदी के सिक्के, टिकिया दिखाकर नकली आभूषण देकर ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय तीन ठगों को पुलिस ने दबोचा

लोकमित्र ब्यूरो

कौशाम्बी। आगामी महाकुम्भ-2025 के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज मे होने वाले महाकुम्भ मेले के आयोजन को सकुशल सम्पन्न कराने एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज के निर्देशन में 25 दिसम्बर, 2024 से चलाये जा रहे विभिन्न चेकिंग अभियानों के अन्तर्गत ऑपरेशन इण्टरसेप्ट रैण्डम व सरप्राइज चेकिंग आपरेशन, ऑपरेशन चक्रव्यूह जनपद व मेला क्षेत्र के प्रवेश निकास के समस्त मार्गों पर चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष संदीपनघाट विजेन्द्र सिंह व एसओजी प्रभारी सिद्धार्थ सिंह मय टीम के द्वारा असली सोना व चांदी धातु के सिक्के, टिकिया को दिखाकर मेले मे आये श्रद्धालुओ से छल कर उन्हे नकली सोने के आभूषण देकर ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय 03 ठगों को 27 दिसम्बर, 2024 समय 09.00 बजे ग्राम काजीपुर पानी टंकी के सामने थाना संदीपनघाट जनपद कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से पीली धातु की लरी वजन 2 किलो 376 ग्राम व 106 ग्राम 2 किलो 482 ग्राम व पीली धातु की एक टिकिया, सफेद धातु का 1905 का बना एक सिक्का, 24053 रूपये व तीन अदद फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना संदीपनघाट पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

राष्ट्रीय कराते प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश एवं झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा

▶▶ **शिक्षक कृष्ण कुमार शर्मा के बेटे शाश्वत ने फिर से पाया स्वर्ण पदक**

लोकमित्र ब्यूरो

कौशाम्बी। छठवीं आल इंडिया कराते चैंपियनशिप में बालिका एवं बालक वर्ग की प्रतियोगिता हुई इसमें देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 300 खिलाड़ियों ने जूनियर, सब जूनियर,और कैडेट वर्ग में प्रतिभाग किया। यह प्रतियोगिता कानपुर के नेहरू नगर में स्थित राजकीय अंध विद्यालय में आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक अपने नामकर पहला स्थान बनाया, वहीं झारखंड के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलते हुए कौशाम्बी टीम के शाश्वत शर्मा,हर्षित सोनकर और देवांशी कुशवाहा ने स्वर्ण पदक,देवांश ने रजत पदक और मानव सोनकर और अनुज ने कांस्य पदक जीतकर अपने जनपद का नाम देश में रोशन किया। इस प्रतियोगिता में कराते इंडिया ऑर्गनाइजेशन,उत्तर प्रदेश कराते एसोसिएशन और कानपुर कराते एसोसिएशन के निर्णायक मण्डल ने बारीकी से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को परखते हुए अपना निर्णय दिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन विजय कुमार ने किया,इस अवसर पर मुख्य अतिथि संजीवनी,डॉ लता अग्रवाल,अतुल सोनकर आदि लोग उपस्थित रहें। खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन से उनके परिवार में हर्ष की लहर हैं।

पत्रकार को पितृ शोक पर सांत्वना देने पहुंचे कांग्रेसी, की शोकसभा

लोकमित्र ब्यूरो

कौशाम्बी। एक हिन्दी दैनिक अखबार के ब्यूरो प्रमुख बृजेश गौतम पप्पू भाई के पिताजी के देहांत होने पर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष गौरव पांडे प्रदेश सचिव के राजेश साहनी, उपाध्यक्ष आशीष कुमार, पप्पू मिश्रा साथ तो पहुंचे मंझनपुर मुख्यालय कहां की आज हम सबको है। बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसे क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती अपने समय में एक नेक इंसान और एकता की मिसाल से उन्हें ने सारी जीवन एकता को कायम करने में लगा दिया पैसे से राजस्व विभाग में कानून को के पद पर तैनात्र एक सफल नेतृत्व का परिचय भी दिया था। सफल नेतृत्व का परिचय भी दिया था।

उनके आवास मंझनपुर साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव पांडे नेतृत्व में पूरी की पहुंची। शोक सभा सभा जहां प्रदेश सचिव राजेश साहनी जिला उपाध्यक्ष आशीष कुमार पप्पू मिश्रा, वरिष्ठ नेता राम बहादुर त्रिपाठी, राजेंद्र त्रिपाठी, अलकमा उस्मानी, फरमान अहमद, महासचिव का कौशलेश द्विवेदी, राम सूरत रैदास, अशोक द्विवेदी, आशीष द्विवेदी, बालेन्द्र यादव, शाहरुख, सचिन पांडे, चरवा अध्यक्ष निक्की पांडे मौजूद रहें।

ठंड से बचाव के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को वितरित की टोपी

लोकमित्र ब्यूरो

सिराथू, कौशाम्बी। जनपद में ठंड, सर्दी व गलन का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे भी ठंड के प्रकोप में है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ रहे बच्चों के कानों से भी ठंड शरीर के अंदर न प्रवेश करें इसके लिए सहायक अध्यापक धनंजय साहू व टीएससीटी जिला प्रवक्ता व एआरपी प्रभाकर मिश्रा ने शुक्रवार को विकास खंड कड़ा के सैनी में आंगनबाड़ी केंद्र में अध्ययनरत सभी छात्र एवं छात्राओं को टोपी का वितरण कर उन्हें ठंड से बचाने का प्रयास किया है। एआरपी प्रभाकर मिश्र ने बताया कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो ठंड से कांपते रहते है बच्चों को ठंड न लगे इसलिए टोपी का वितरण किया गया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका मौजूद रहीं।

▶▶ **श्रीराम और भरत मिलन का प्रसंग सुन भक्त विभोर**

अजुहा, कौशाम्बी। विकास खंड कड़ा के भैरावा में स्थित श्री ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में चल रही श्री विष्णु महायज्ञ कथा के पांचवें दिन कथा वाचक आचार्य कल्लू दूबे ने मौजूद श्रोताओं को रावण वध करने के बाद भगवान श्रीराम के अयोध्या पहुंचने और भरत से मिलाप की भावपूर्ण कथा विस्तार से सुनाई। कथा श्रवण कर भक्त भाव विभोर हो गए। इस दौरान आचार्य कल्लू दूबे ने निष्काम भाव से भक्ति करने पर जोर दिया। इस मौके पर आचार्य कल्लू दूबे , शिवराम मिश्रा , गोपीलाल मौर्य सहित ग्रामीण मौजूद रहें।

वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल

लोकमित्र ब्यूरो

शाहजहांपुर। शाहजहांपुर के जलालाबाद के 40 वर्षीय राजे अपनी पत्नी नन्ही देवी के साथ दवा लेने जलालाबाद से शाहजहांपुर जा रहे थे, तभी बरेंडा के पास किसी अज्ञात बाहन उनको टक्कर मार कर भाग गया। टककर से दोनों लोग जमीन पर गिर गए गिरने से महिला की सर में चोट आ गयी कॉल पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के ईएमटी राजेश ने महिला को मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर मे भर्ती कराया जहाँ उनकी स्थिति सही बनी हुयी हैं।

दो वारण्टी आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

लोकमित्र ब्यूरो

कौशाम्बी। थाना संदीपनघाट पुलिस उपनिरीक्षक शिव शंकर पाण्डेय मय हमराह पुलिस बल द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित वारण्टी किशन लाल पासी निवासी सोखदा लोहरा थाना संदीपनघाट को गिरफ्तार किया गया। थाना पिपरी पुलिस उपनिरीक्षक अजीत सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा वारण्टी मुन्नू निवासी कस्बा चायल थाना पिपरी को गिरफ्तार किया गया।

बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्यवाही की गयी

कौशाम्बी। थाना मंझनपुर पुलिस उपनिरीक्षक जयन्त गुप्ता मय हमराह पुलिस बल द्वारा पॉक्सो एक्ट से संबन्धित बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्यवाही के पश्चात न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया।

अवैध शराब के साथ दो गिरफ्तार

कौशाम्बी। थाना कड़ाधाम पुलिस महिला उपनिरीक्षक निधि वर्मा मय हमराह पुलिस बल द्वारा फूलमती निवासी इस्माइलपुर थाना कड़ाधाम को 18 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना कड़ाधाम पुलिस उपनिरीक्षक शुभम सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा कमलेश कुमारी निवासी स्माइलपुर थाना कड़ाधाम को 20 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

तिपहिया वाहन चालकों की मनमानी से हो सकता है बड़ा हादसा

लोकमित्र ब्यूरो

बेनीराम कटरा, कौशाम्बी। कटरा पुलिस चौकी के सामने से तिपहिया वाहन चालकों की मनमानी चलती रहती है। वही पुलिस मौन बनी रहती है। गौरतलब हो कि इन दिनों पुलिस चौकी चौराहे पर तिपहिया वाहन चालक अधिकतर नजदीक गाँव के रहने के कारण दिनों दिन मनोबल बढ़ने के कारण जहाँ एक ओर अक्सर चौराहे पर सवारी बिठाने की ललक मे वाहन को आडा तिरछा ऐक बैक बिना सोचे समझे इनकी परंपरा सी साबित जान पड़ती है तो दूसरी ओर सवारी को पीछे इंगल पर लटका कर जंगल राज कायम कर रहे हैं और तो और इसी पुलिस चौकी के सामने से अक्सर बिना नंबर पेलेट के ओवर लोड बालू लदे वाहनो का भी आवागमन बने रहने आम बात साबित कर रही है कि वर्तमान सरकार को जंगल राज कायम करने मे कोई कसर नही छोड़ रहे हैं तथा वही जिम्मेदार लोग सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं इसी तरह के नजारा जनपद के अनय थाने एवं पुलिस चौकी क्षेत्र में बिना नंबर पेलेटो के डंफर वाहन बिना रोक टोक के फराटा भरना आम बात साबित हो रही है एवं दुखद घटना को अंजाम देकर एवं ओवर लोड मे कामयाबी मिलती रहती है वही जिम्मेदार से संबंधित विभाग के कानों में जू तक नहीं रेगती हैं।

सम्पादकीय

सरकारी आंकड़े ही संदिग्ध होते गए

पिकेटी का सुझाव है कि भारत को जीडीपी-टैक्स अनुपात में सुधार कर अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा करना चाहिए। उसका निवेश मुफ्त स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने में किया जाना चाहिए। यही विकसित देश बनने का रास्ता है।बढ़ती आर्थिक गैर-बराबरी पर राजधानी में एक गंभीर चर्चा हुई। इसमें दो नजरिए उभर कर सामने आए। एक नजरिये की नुमानंदगी भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने की।उन्होंने कहा कि न्यायपूर्ण आर्थिक विकास को मापने का पैमाना आमदनी की गैर-बराबरी कम करना नहीं, बल्कि गरीबी घटाना है।उन्होंने दावा किया कि पूंजी पर टैक्स लगाने से निवेश नहीं बढ़ेगा, बल्कि पूंजी का पलायन शुरू हो जाएगा। उनका यह दावा भी दिलचस्प है कि समानता थोपने से सूक्ष्म एवं लघु व्यापार को अधिक क्षति पहुंचती है।ऐसी कोशिश को नागेश्वरन ने सीमा लगाने का अत्याचार बताया और कहा कि ऐसा करने पर छोटे कारोबारी छोटे ही रह जाएंगे।%गैर-बराबरी, आर्थिक वृद्धि एवं समावेशन' विषय पर हुई इस चर्चा में दूसरा पक्ष विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी रख चुके थे।पिकेटी ने अपनी चिर-परिचित राय रखी कि भारत को जरूरत जीडीपी-टैक्स अनुपात को सुधारने की है।उनका सुझाव है कि भारत को सबसे धनी एक फीसदी लोगों पर दो फीसदी धन कर लगाना चाहिए जाए और आय कर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए।इससे इकट्ठा अतिरिक्त संसाधनों का निवेश मुफ्त स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने में किया जाना चाहिए।यही विकसित देश बनने का रास्ता है। मगर नागेश्वरन की बात से साफ है कि भारत सरकार इस नजरिए से बिल्कुल सहमत नहीं है।बहरहाल, चूंकि उन्होंने न्यायपूर्ण विकास को मापने का पैमाना गरीबों की संख्या में गिरावट को बताया, तो यह मुद्दा उठेगा कि आखिर गरीबी को मापने की कसौटी क्या हो?भारत सरकार ने सामान्यत~ मान्य कसौटियों को ताक पर रखते हुए जो पैमाना अपनाया है, उसे इस क्षेत्र के विशेषज्ञ स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।सबसे पहले तो सरकारी आंकड़े ही संदिग्ध होते गए हैं। उसे ठीक करने की जरूरत है। फिर बेहतर होगा, सरकार प्रति दिन प्रति व्यक्ति कैलोरी की उपलब्धता के पुराने पैमाने को आधार बनाए। उस पर देखा जाए, तो असल में गरीबों की संख्या बढ़ी है।फिर भी क्या नागेश्वरन कहने की स्थिति में हैं कि जिस सरकार के वे सलाहकार हैं, उसकी नीतियों से गरीबी में ह्रास हुआ है?

आर्थिक मोर्चे पर सफलता की कुंजी थे मनमोहन सिंह

मोदी सरकार के लिए भी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का रास्ता खोला

अशोक भाटिया

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। 92 वर्षीय डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में देश को कई ऐतिहासिक सुधार और योजनाए दीं, जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है।डॉ. मनमोहन सिंह को उनकी आर्थिक सुधारवादी सोच और कल्याणकारी नीतियों के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में देश ने कई ऐसे कानून और नीतियां अपनाईं, जिन्होंने लाखों नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया।मनमोहन सिंह को 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जाना जाता है साथ ही मनमोहन सिंह का नाम शीर्ष अर्थशास्त्रियों की फेहरिस्त में सम्मान से लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर वह नहीं तो 1991-92 में भारत आर्थिक रूप से अपंग हो गया होता। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव मिलकर भारत की आर्थिक दिशा ही बदल दी।आज दुनिया भर के देशों की भारतीय बाजार पर नजरें हैं। हर विकसित देश को भारत का %खुला बाजार% निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है। बाजार को खुला छोड़ने के लिए पहला कदम आज से ठीक 33 साल से पहले उठाया गया था। दरअसल, बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आज ही के दिन यानी 24 जुलाई 1991 में अपना पहला बजट संसद में पेश किया था।भारत के इतिहास में मनमोहन सिंह के पहले बजट को अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बजट माना जाता है। मनमोहन सिंह ने इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव कर भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया था। एक तरह से 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने देश से लाइसेंस राज को खत्म करने का ऐलान कर दिया था। जबकि यह सरकार कुछ महीने पहले ही बनी थी। 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने थे।दरअसल, मनमोहन सिंह के पहले बजट ने देश का आर्थिक माहौल बदलना शुरू कर दिया। क्योंकि बजट में मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की राह पर चलने का ऐलान कर दिया था। पिछले 33 वर्षों में भारतीय इकोनॉमी को इसी राह पर मजबूत कामयाबी मिली है, और अब 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात होने लगी है।आज भारतीय खजाना विदेशी मुद्रा भंडार से भरा हुआ है। तीन जुलाई, 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 611 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन 30 से पहले 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्तमंत्री बने थे, तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 5.80 अरब डॉलर का था। जिससे सिर्फ दो हफ्तों तक ही आयात किया जा सकता था। अर्थव्यवस्था के लिए यह सबसे कठिन दौर था। साल 1991 में भारत का भुगतान संतुलन इतना बिगड़ा कि देश को सोना गिरवी रखना पड़ गया था। लेकिन इस संकट से उबरने के लिए बजट में भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए गए थे। इस कदम से केंद्र सरकार को चंद महीनों में ही इकोनॉमी के मोर्चे पर पहली सफलता मिली, जब दिसंबर-1991 में सरकार विदेशों में गिरवी रखा सोना छुड़वाने में कामयाब रही।साल 1991 में जब आर्थिक चुनौतियां थीं, तब देश को सोने ने साथ दिया था। वैसे पिछले 33 वर्षों में सोने ने अपनी चमक खूब बिखेरी है। 1991 में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 3466 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। 33 साल के बाद आज सोना लगभग 78 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है।साल 1991 में देश में प्रति व्यक्ति आय 538 रुपये महीने थी, जो 2024 में बढ़कर 14000 रुपये महीने हो गया है। पिछले 33 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में करीब साढ़े 27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। उदारीकरण की पहल को शेयर बाजार ने भी सलाम किया है। उदारीकरण से पहले 25 जुलाई 1990 को सेंसेक्स महज 1000 अंक का था, जिसे साल 1991 में मनमोहन सिंह की वित्त-नीति से पंख लग गए। दिसंबर-1991 में सेंसेक्स 1908 अंक तक पहुंच गया। इस तरह से साल 1991 में सेंसेक्स कुल 881 अंक बढ़ा था। आज मोदी सरकार के राज में सेंसेक्स 79000 के आसपास है। पिछले 30 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मार्च 1991 में कुल बैंकों की संख्या 272 थी, जो 2021 में घटकर 100 के आसपास हो गई। इसमें ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटकर 43 हो गई। वर्तमान में तमाम बैंकों के विलय के बाद सरकारी क्षेत्र के केवल 12 बैंक रह गए हैं। मोदी सरकार सरकार इसमें भी कम करने की बात कर रही है।स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, भारतीय रिजर्व बैंक (ऋद्धइ) के गवर्नर, देश के वित्त मंत्री से लेकर 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने तक देश की अर्थव्यवस्था और तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 2004 से 2014 के बीच उनकी सरकार ने 5 ऐसे बड़े फैसले किए थे, जिसने देश के लोगों की तकदीर बदली, साथ ही देश की इकोनॉमी में भी तेजी लाने का काम किया। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ काम ऐसे किये जिसे जनता आज भी याद रखती है ।अगर मनमोहन सिंह की सरकार के सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पूछा जाए, तो वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) कानून का पास कराया जाना था। इस एक कानून ने देश में पलायन की समस्या पर रोक लगाने में अहम भूमिका अदा की। इतना ही नहीं, इस कानून की वजह से गांव, गरीब और अकुशल लोगों के लिए 100 दिन का गारंटीड रोजगार मिलना सुनिश्चित हुआ।इस कानून ने 2008 की मंदी में देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बचाए रखने का काम किया।मनमोहन सिंह की सरकार में सूचना का अधिकार पारित किया गया। इस एक कानून ने इकोनॉमी में ट्रांसपरेंसी लाने का बड़ा काम किया। इससे सरकार की जवाबदेही और उसके पारदर्शिता सुनिश्चित हुई, जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक अच्छा कदम साबित हुआ।मनमोहन सिंह की सरकार में एक और बड़ा काम 'भोजन के अधिकार' का हुआ। इसके तहत देश के गरीब लोगों को रियायती दर पर भोजन देने का प्रावधान किया गया। इसका फायदा ये हुआ कि देश की एक बड़ी आबादी भूख की चिंता करके देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकी। आज देश में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है, वह इसी कानून की बदौलत है। इस कानून ने कोविड के दौरान देश के गरीब लोगों की बहुत मदद की। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश की अंतरिक्ष (स्पेस) इकोनॉमी को पावर बूस्ट मिला था। उसी दौर में देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा और मंगल पर भेजे। इस एक कदम ने भारत को ये ताकत दी कि वह पारग्रही स्पेस मिशन भेजने में भी सक्षम है। मनमोहन सिंह की सरकार के समय में ही भारत के अंतरिक्ष मानव मिशन की रूपरेखा को अमलीजामा पहनाया गया।मनमोहन सिंह की सरकार ने देश की इकोनॉमी, युवाओं और भविष्य की जरूरत को समझते हुए स्किल डेवलपमेंट पर काम किया। उन्हीं के कार्यकाल में स्किल डेवलपमेंट मिशन की नींव पड़ी, जो आज के समय में कौशल विकास मंत्रालय का रूप ले चुकी है। इकोनॉमी की ग्रोथ की लिहाज से उनकी सरकार का ये कदम काफी अहम था, क्योंकि ये देश की बढ़ती इकोनॉमी के लिए स्किल्ड वर्क फोर्स को तैयार करने का कदम था।आज मोदी सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा किये कामों से बहुत सहायता मिली है । आज भारत की विदेश नीति को पूरी दुनिया में सराहा जाता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जिस सफल विदेश नीति का संचालन कर रहे हैं, उसका आधार देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने ही तैयार किया था। देश की विदेश नीति के लिए कुछ घटनाएं परिवर्तनकारी रहीं, जिनमें साल 1991 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश में आर्थिक उदारीकरण की घटना है, जिसने देश की विदेश नीति को नया आकार दिया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पोखरण में परमाणु परीक्षण ऐसी घटना थी, जिसने देश की विदेश नीति के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव किया। मनमोहन सिंह की विशेषज्ञता के क्षेत्र वित्त और अर्थशास्त्र रहे, लेकिन विदेश नीति में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा, जिस पर कम बात होती है।साल 2004 में जब डॉ. मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली तो विदेश नीति पर उनका विशेष फोकस रहा। पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद से भारत की विदेश नीति जिस दिशा में आगे बढ़ी थी, मनमोहन सिंह ने भी उसे उसी दिशा में जारी रखा और भारत को एक जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में स्थापित किया। यही वजह रही कि भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ। साथ ही मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) से क्लीन-चिट मिली। भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इससे न सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली, बल्कि इसके जरिए भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का रास्ता भी खुला, जो आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा के प्रयत्न से ऊंचाइयों पर जा चुका है।**वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार ,लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार**

सरोकार

नदी जोड़ो अभियान, एक सदी का सपना..

भूपेन्द्र गुप्ता

नदी जोड़ो अभियान आज चर्चा का विषय है। इसका श्रेय सभी पार्टियों लेने की कोशिश भी करती हैं लेकिन इन परियोजनाओं का इतिहास 100साल से भी अधिक पुराना है।इस इतिहास को जानकर यह समझा जा सकता है कि सपनों के फलीभूत होने में सैकड़ों साल की तपस्या शामिल होती है ।इसमें कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं है,बल्कि सरकारों के निरंतर और सकारात्मक प्रयास हैं।हालांकि गुलाम भारत मे 1900 के दशक में एक अंग्रेज इंजीनियर आर्थर कॉटन ने भारत की नदियों को जोडने की कल्पना की थी ।उसका उद्देश्य था कि नदियों के अतिरिक्त जल से बड़ी-बड़ी नहरें बनाकर जल मार्गों की वृद्धि की जा सकती है जिससे ब्रिटिश सरकार को व्यापारिक सुविधा मिलेगी तथा दक्षिण भारत के तथा उड़ीसा के सूखे से निपटा जा सकेगा और वहां पर अतिरिक्त जल भेज कर उत्पादन में वृद्धि भी की जा सकेगी ।किंतु इसमें आने वाले खर्च को देखकर ब्रिटिश हुकूमत भी आगे नहीं बढ़ी और यह ठंडे बस्ते में चली गई।देश आजाद हुआ और राष्ट्र निर्माण की योजनायें बननी शुरू हुईं।गरीबी संसाधनों के अभाव और तकनीशियनों की कमी से प्रथमिकतायें आगे बढ़ती गईं।आजादी के लगभग 23 साल बाद जब इंदिरा जी की सरकार में डा के एल राव जो कि बांध बनाने वाले इंजीनियर थे,सिंचाई मंत्री बने तब उन्होंने आर्थर काटन के इस सपने से धूल झाड़ी और इंदिरा जी के सामने रखा।कांग्रेस ने 1970 में इस योजना को नये दृष्टिकोण से जीवित किया। डा. के एल राव की सोच थी कि जो हिमालयीन नदियां हैं उनमें ग्लेशियरों के पिघलने के कारण गर्मियों में अतिरिक्त जल होता है और बाढ़ आती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं और उनमें बरसाती मौसम में बाढ़ आती है अत~ हिमालयीन नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो सूखे के मौसम में जल की उपलब्धता बनी रह सकती है इसे इंटर-वेसिन रिवर लिंकिंग कहा गया। इंदिरा गांधी ने 1980 में इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए एनडीआरडी की रिपोर्ट तैयार करवाई ।इसकी वित्तीय व्यवस्था बनाने के लिए शुरुआत की गई और उन्होंने 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया यह नदी जोड़ो अभियान का पहला कदम था।इसके अंतर्गत इंटर-वेसिन नदियों को जोडने की योजनाओं पर कार्य शुरू हुआ ।कध्धयन हुए रिपोर्टें तैयार हुईं।जब 1999 में एनडीए की सरकार आई और अटल बिहारी बाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसे उलटकर योजना के पूरे स्वरूप को ही बदल दिया और इंटर-बेसिन परियोजनाओं को इंट्रा-वेसिन परियोजनाओं में बदल दिया किंतु 2003 तक यह विचार स्वरूप लेता इसके पहले ही 2002 में सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में पीआईएल लग गई ।आगामी चुनाव में बाजपेयी सरकार उलट गई और 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का गठन हुआ। तब इस परियोजना को फिर वास्तविक स्वरूप यानि इंटर-बेसिन योजना के रूप में जीवित किया गया तथा सरकार ने इस पर व्यापक अध्ययन करवाया ।साल 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला दिया कि नदियों के इंटरलिंकिंग का फैसला नीतिगत है और इसे सरकारें ही करें ।तब इस योजना के लिए 2012 से गति प्रदान

की गई विभिन्न राज्यों के जल बंटवारे के आपसी समझौते और विवादों के निपटारे, पर्यावरणीय जोखिम एवं इकोसिस्टम को पहुंचने वाले नुकसानों के अध्ययन करते-करते और सुलझाते-सुलझाते 2021 में केन बेतवा योजना को कैबिनेट की स्वीकृति मिली जिसका भूमि पूजन वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इंटर बेसिन नदी जोड़ो परियोजना मूलत आर्थर कॉटन का सपना था जिसे डॉक्टर केएल राव ने आगे बढ़ाया और इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे संस्थागत स्वरूप प्रदान कर राष्ट्रीय जल विकास अथॉरिटी का निर्माण किया और इस अथॉरिटी ने ही इस कल्पना को जमीन पर उतारने की शुरुआत की ।

संसाधन जुटाये, अध्ययन करवाया और यह योजना लगभग 54 साल बाद अब आकार ले रही है ।आज देश में विकास को एक निरंतर अवधारणा के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसका श्रेय अकेली एनडीए सरकार को देना आर्थर कॉटन के सपने के साथ भी धोखा होगा और डा. के एल राव तथा इंदिरा गांधी की संकल्पना के साथ भी बेईमानी होगी । विकास की योजनाओं की निरंतरता के लिए जिन-जिन लोगों ने काम किया है सभी सरकारों को श्रेय दें इसमें इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेई, मनमोहन सिंह एवं नरेंद्र मोदी सभी शामिल हैं ।सपनों के जमीन पर उतरने की यही सच्चाई है।

राशिफल

मेष	आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज व्यापार में रुकी हुई योजनाओं को शुरू करने से आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। जॉब कर रहे लोगों को आज दिए गए काम को समय पर पूरा करना होगा, नहीं तो सीनियर से डांट भी खानी पड़ सकती है। लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे आज एक-दूसरे को और अधिक जानने का मौका मिलेगा।
वृष	आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है । आज आपके व्यापार में लाभ बना रहेगा। नवविवाहित दंपत्ति के बीच आज मीठी नोक-झोक होगी, इससे रिश्तों में और मिठास आयेगा। आज पैसों के लेन-देन में सावधानी बरते। नौकरी कर रहे लोगों को आज अपना काम पूरा करने के लिए थोडा अधिक मेहनत करने की जरुरत है।
मिथुन	आज का दिन आपके लिये अच्छे परिणाम लाने वाला होगा । विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए है, लेकिन पढाई में और मेहनत करने की जरुरत है। आज घरवालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा । आपके आय के नए स्त्रोत बनेंगे, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा ।
कर्क	आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको घर के बड़ो से कुछ प्रेरणा मिलोगी। आज आप जो भी काम करेंगे, वो सफल होगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा । रिश्तेदार आज आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुझाव देगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढेगी । बडे-बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे, लोग आपकी वाह-वाही करेंगें।
सिंह	आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है । आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके आस-पास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से साझेदारी करने पर विचार करेंगे। आज आपको उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होने वाला है।
कन्या	आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। आज बेवजह की उलझन से दूर होकर आप किसी मंदिर पर अपना कुछ समय बिताएंगे। आज यात्रा पर भी जाने के योग बन रहे हैं, यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। आप परिवार के किसी काम में व्यस्त हो सकते हैं। छोटे उद्यमियों के लिये दिन ठीक रहेगा।
तुला	आज आपका दिन उल्लास से भरा रहने वाला है। बिजनेस के किसी काम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आपका काम अच्छे से पूरा होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में... आज कुछ नयापन आ सकता है। इस राशि के बच्चों को उनके शिक्षकों से तारीफ मिलेगी । बड़े-बुजुर्ग अपने किसी बचपन के दोस्त से मिल सकते हैं.. यादों को लेकर आपस में चर्चा करेंगे ।
वश्चिक	आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा। आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों की मदद मिलेगी। साथ ही लेन-देन के मामलों में.. आपको सावधानी बरतने की जरुरत है। करियर में भी आपको गुरुजन का मार्गदर्शन मिलने से आसानी होगी.. आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज आपका कॉन्फिडेंस ही आपके काम को पूरा करने में मदद करेगा।
धनु	आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया की दौड़ भाग भरी जिंदगी में कहीं खो गए हैं, तो अपने लिए वक्त निकालेंगे और अपने व्यक्तित्व का आकलन करेंगे। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार सबको प्रभावित करेगा।
मकर	आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बना रहेगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहने से खुशियाँ बढ़ेगी। आज सेहत के लिहाज से आप चुस्त-दुरूस्त रहेंगे। विद्यार्थियों को लक्ष्य पाने के लिए शिक्षकों का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। आज आपके काम करने की कला से लोग प्रभावित होंगे।
कुम्भ	आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। ऑफिस मे सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जूनियर आपसे काम सिखाना चाहेंगे। लवमेट के साथ रिश्तों में सुधार आयेगा । आज आपको कामों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। आपका ख़ास काम करीबी दोस्त की सहायता से पूरा हो जायेगा।
मीन	आज का आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। आज काम व पारिवारिक रिश्तों के बीच समंजास्य बनाये रखेंगे। आज किसी काम को पूरा करने के लिए नये तरीकों पर विचार करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। नए वाहन का सुख मिलने के योग हैं। आज जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलने से आपको ख़ुशी होगी।

समसामायिक

आजाद भारत के इतिहास में बतौर कलंक निश्चित ही दर्ज रहेगी

यथा राजा तथा प्रजा, हम हिंदुओं का शाश्वत सूत्र वाक्य है। तभी जैसा मोदी राज वैसे ही संसद, संविधान, कोर्ट-कचहरी, विपक्ष, मीडिया आदि उन तमाम संस्थाओं का आज व्यवहार है, जिससे देश, कौम, नस्ल, धर्म, सभ्यता की वह शर्म है जो आजाद भारत के इतिहास में बतौर कलंक निश्चित ही दर्ज रहेगी।ईमानदारी से सोचें, सन् 2014 में निर्वाचित संसद के काम से लेकर इस सप्ताह की संसदीय घटनाक्रम में ऐसा तनिक भी कुछ है जैसा कांग्रेस, विपक्ष या वाजपेयी राज में था?तब की संसद कैसी थी, कैसे चलती थी और वही अब मोदी राज की संसद का क्या अनुभव है?जाहिर है जैसा प्रधानमंत्री, वैसा राज और वैसे ही बाकी सब। जैसा मोदी राज है वैसा विपक्ष है। और दोनों में इतनी भी समझ नहीं कि संसद और उसका परिसर पूरे भारत, पूरे देश के प्रतिनिधित्व का विशेषाधिकारपूर्ण गरिमामय स्थान है।जैसे लाल किले के बादशाह का दरबार ए खास या दरबार ए आम हुआ करता था।उस स्थान पर यदि पानीपत के मैदान वाली लड़ाई की शत्रुता में लाठियां (तख्तियां, भीड़) लेकर सांसद लड़े और उसके फैसले में चांदनी चौक का कोतवाल जाचंकर्ता हो तो वह कौम के लिए शर्म, कलंक, डूब मरने वाली क्या स्थिति नहीं है?ऊपर से हुजूर (आज के नरेंद्र मोदी), उनके वजीर खुद ही संसद की तौहीन व अपमान के लिए कोतवाल को बुलाकर उसके कान में फुसफुसा कर कहें यह मेरा विरोधी है, इस पर चार्जशीट बनाओ और कचहरी से जेल में बंद करवा दो।सोचें, संसद और उसके सांसद कानून बनाने वालों के लिए उसी की व्यवस्था में, कानूननिर्माताओं की जगह में सांसदों के व्यवहार का जांतकर्ता, निर्णयकर्ता एक कोतवाल! लंदन की संसद, वेस्टमिनिस्टर या दुनिया के किसी भी सभ्य लोकतंत्र में यह नजारा कभी देखने को नहीं मिला (और न मिलेगा) कि सांसदों की भीड़ में धक्कामुक्की हुई, तो प्रधानमंत्री के सांसद तुरंत बगल की कोतवाली जा कर एफआईआर कराएं!दुनिया वीडियो पर यह नौटंकी देखे कि सिर पर एक चिपी, फिर पट्टी, फिर पूरा सिर मानो ऑपरेट हुआ हो जैसा बड़ा पट्टा दिखला नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कोतवाल द्वारा ताउम्र कैद की तमाम धाराओं में जांच!सोचें, लाल किले के किस मुगल बादशाह या नेहरू से ले कर डॉ. मनमोहन सिंह के राज में ऐसा हुआ?खुद सत्तापक्ष अपनी ही विधायिका के सांसदों के झगड़े, धक्कामुक्की की कोतवाल के यहां रिपोर्ट दर्ज कराते हुए! यदि निर्वाचित सरकार, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की एक संसद की प्रक्रिया को भी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चलवा पाए, विपक्ष के शोर-गतिरोध और प्रर्दशन का समाधान बातचीत से नहीं निकाल पाए तो यह किस बात का प्रमाण है?मोदी सरकार द्वारा चरित्र, बुद्धि और अपना कलंकित इतिहास बनाने का! तब संसद, संसदीय प्रक्रिया, नियमावली, स्पीकर, सभापति, उप सभापति, संसद नेता और प्रतिपक्ष नेता, संसदीय परिसर के कारिंदों आदि सबका क्या अर्थ है?उफ! बुद्धि, दिमाग, बेशर्मी और अहंकार। मुझे बहुत झटका लगा जब सुना कि धक्कामुक्की हुई और नेता प्रतिपक्ष को टारगेट बना कर सरकार के सांसदों ने कोतवाल के यहां जा कर शिकायत दर्ज कराई!क्या पतन है नेहरू राज से मोदी राज का! कल्पना करें ऐसा ही वाकया यदि वाजपेयी-आडवाणी के राज में हुआ होता?पहली बात वे अपनी संसद में ऐसी नौबत नहीं आने देते कि पचास-पचपन साल के विधायिकी अनुभवी वाले सांसदों के मुंह से यह शिकायत सुनाई दे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता! उनके माइक बंद हो जाते हैं!उनके मुद्दे, नोटिस, बहस की मांग नहीं मानी जाती आदि, आदि। दूसरी बात, वाजेपयी और आडवाणी दोनों नेता विपक्ष को बुलाकर मंत्रणा, मान मनौव्वल, मनाने या उनकी मांग मानने के लिए हमेशा तत्पर हुआ करते थे।मुझे ध्यान है कि वाजपेयी राज में संसद भवन में सावरकर की तस्वीर लगी तो पूरे विपक्ष का जबरदस्त गुस्सा था, मगर बात का बतगंड़ नहीं हुआ जो अंबेडकर के मौजूदा बवाल में हुआ है।वाजपेयी याकि भाजपा राज की संसद ने सावरकर की तस्वीर लगाई तो लगाई।यह नहीं हुआ कि विपक्ष की आपत्ति पर भाजपा के सांसदों ने सावरकर के प्रति कांग्रेस सरकारों की उपेक्षा की तख्तियां ले कर तब की नेता विपक्ष सोनिया गांधी का रास्ता रोकने का हंगामा किया।और यह तो कल्पना ही नहीं संभव जो सत्ता पक्ष के सांसद को चोट लगे तो आडवाणी अपने सांसदों से कोतवाली जा कर शिकायत कराएं कि सोनिया गांधी ने धक्का दिया और हमारा बुजुर्ग सांसद घायल हुआ। एफआईआर दर्ज करो तथा सोनिया गांधी को तलब करो!सो, यथा राजा तथा भाजपा। यथा राजा तथा सरकार। यथा राजा तथा संसद।

देश मे आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में दुनिया में सशक्त नेतृत्व के धनी थे डॉ. मनमोहन सिंह- प्रमोद तिवारी

कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्मृति को किया नमन

लोकमित्र ब्यूरो

लालगंज, प्रतापगढ़। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी तथा क्षेत्रीय विधायक एवं कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। जिले की रामपुर खास की विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस विधानमण्डल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने नई दिल्ली में स्वयं तथा राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी की ओर से डॉ. मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी तथा रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा है कि पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ. मनमोहन सिंह ने देश के प्रथम अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री के रूप में बुद्धिमत्ता और निष्ठा तथा दूरदर्शिता के साथ देश की अतुलनीय सेवा की है। नेताद्वय ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में डॉ. मनमोहन सिंह ने देशवासियों को भोजन का अधिकार और मनरेगा के साथ सूचना का अधिकार तथा किसानों की कर्जमाफी का अविस्मरणीय साहसिक कदम उठाया। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी तथा सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा है कि डॉ. मनमोहन सिंह दुनिया के महान चुनिंदा अर्थशास्त्रियों में एक थे। नेताद्वय ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में देश को एक नई दिशा प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी स्वर्णिम सफलता का इतिहास रचा। उपनेता प्रमोद तिवारी एवं विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि वर्ष 1991 में जब एशिया के साथ भारत भी वैश्विक पटल पर आर्थिक संकट से गुजर रहा था उस समय आर्थिक क्रान्ति के सेनापति के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत को अर्थजगत में अंधकार से बाहर निकालकर दुनिया की पांच महाशक्तियों में एक बनाने का सशक्त कदम साकार बनाया। उन्होनें कहा कि देश के सर्वोत्तम सफल वित्तमंत्री के रूप में उन्होनें उस दौर में देश की सेवा की जब देश का सोना तक गिरवी रखने की नौबत आ गयी थी। प्रमोद तिवारी एवं आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि ईमानदारी उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। नेताद्वय ने कहा कि देश को डॉ. मनमोहन सिंह के ईमानदार नेतृत्व में आर्थिक सुधारों की नई क्रांति की सफलता सदैव अविस्मरणीय रहेगी। नई दिल्ली में विधायक आराधना मिश्रा मोना के द्वारा डॉ. मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करने की जानकारी के साथ नेताद्वय का बयान यहां मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से निर्गत किया गया है।

दुष्कर्म का वांछित गिरफ्तार

लीलापुर,प्रतापगढ़। दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री अरुण सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अमरेश यादव मय हमराह, हे0का0 अजय प्रजापति द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत धारा 137(2), 87(2), 352, 64 बीएनएस व 5जे (पप) ध्6 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र आनन्द कुमार निवासी खरवहिया नं0 02 खीरी सेमरा जनपद खीरी को थानाक्षेत्र लीलापुर के हंडौर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियोग उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 5जे(प)ध्6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

प्रधान की सूझबूझ से परिजनों से बिछड़ी मनोरोगी सकुशल पहुंची घर, भर आयीं आंखे

लोकमित्र ब्यूरो

लालगंज, प्रतापगढ़। मनोरोगी महिला को प्रधान ने सूझबूझ से ग्रामीणों के आक्रोश से बचाते हुए उसे सुरक्षित परिजनो के साथ घर भेजवाने का सराहनीय कदम उठाया। लालगंज कोतवाली के जगन्नाथपुर गांव मे गुरूवार की रात करीब आठ बजे सूनसान जगह पर एक महिला को संदिग्ध परिस्थितियों मे ग्रामीण देख डर गये। ग्रामीणों ने महिला के बच्चा चोर होने की शंका परेशान कर गयी। शंकित ग्रामीणों ने महिला को घेर लिया। तब तक सूचना पाकर गांव की प्रधान शांती देवी व प्रधान प्रतिनिधि अरूणेश सिंह वहां पहुंच गये। ग्रामीणों से घिरी महिला ने बातचीत में प्रधान को अपना नाम नीता अवस्थी बताते हुए गोण्डा जिले की निवासिनी बताया। महिला भयभीत होने के कारण ज्यादा बोलने की स्थिति मे नही थी। प्रधान की सूचना पर डायल एक सौ बारह पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला को रात में अपने साथ ले जाने में असमर्थता जतायी। एम्बुलेंस वाहन भी पहुंचा पर महिला के साथ किसी अभिवावक को न देख वह भी मनाही करने लगा। तब प्रधान ने सूझबूझ का परिचय देते हुए महिला को घर ले जाना मुनासिब समझा। रात में प्रधान ने महिला को भोजन करवाया और पूछताछ के जरिए उसके परिवार के एक सदस्य का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। प्रधान ने मोबाइल नंबर पर महिला की फोटो भेजी तो उसकी जानकारी महिला के चाचा गोण्डा जिले के मछहुआ कटरा निवासी केशवराम के नाम पर हुई। केशवराम ने फोन पर महिला के मानसिक रोगी होने की जानकारी दी। उन्होने यह भी बताया कि मनोरोग के कारण डेढ साल पहले महिला घर से अचानक लापता हो गयी थी। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर गोण्डा में गुमशुदगी का केस भी दर्ज है। भोर में करीब तीन बजे महिला के चाचा केशवराम व भतीजे हर्षित व अनुराग निजी वाहन से जगन्नाथपुर गांव पहुंचे। गुमशुदा परिवार की महिला को देख परिजनों की आंखे भर आयीं। परिजन प्रधान का धन्यवाद जताते हुए उसे अपने साथ ले गये।

प्रोजेक्ट अलंकार में संस्कृत विद्यालयों के चयन पर खुशी का माहौल

शिवशंकर त्रिपाठी व देवेन्द्र त्रिपाठी को नोडल अधिकारी किया गया नामित

लोकमित्र ब्यूरो

लालगंज, प्रतापगढ़। जिले के माध्यमिक संस्कृत विद्यालयो के जीर्णोद्धार के लिए शासन द्वारा प्रोजेक्ट अलंकार में विद्यालयो का चयन होने से शुक्रवार को खुशी का माहौल देखा गया। शासन द्वारा इसके लिए लालगंज क्षेत्र के तेरह विद्यालयों के लिए मठहा पूरे नोती स्थित श्री सरस्वती संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवशंकर त्रिपाठी तथा सगरा सुंदरपुर स्थित श्रीकृष्ण रामानुज संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूरे ब्रम्हचारी के प्रभारी प्रधानाचार्य देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी को बारह विद्यालयो का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा के द्वारा जारी परिपत्र मे इन विद्यालयों के जीर्णोद्धार मरम्मत व पुनर्निर्माण के लिए शासन द्वारा प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष चालीस प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त किये जाने की जानकारी दी गयी। इस योजना से लालगंज क्षेत्र के पराकुश संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूरे नोती, मठहा, इन्द्राणी शंकर विद्या निकेतन कटरा बलीपुर, श्रीकृष्ण संस्कृत माध्यमिक विद्यालय रानीगंज कैथौला, श्रीबेनीमाधव संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्रीछत्रपाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजातारा, श्रीराजगुरू सांगवेद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर बेलहा, श्रीधर्मप्राण कोठीवाल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीकांतगंज व श्रीगौरीशंकर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटनी तथा श्रीरामकृपाल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूरे मुरली अमावां के चयन होने से क्षेत्रीय संस्कृत शिक्षकों व छात्रों में प्रसन्नता का माहौल देखा गया।

डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में प्रमोद तिवारी के सियासी रसूख से बेल्हावासियों को विकास की सौगातों की ताजा हुई भावुक स्मृतियां

राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री के प्रगाढ़ रिश्तों से बढ़ा था बेल्हा का सियासी रसूख

लोकमित्र ब्यूरो

लालगंज, प्रतापगढ़। यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह का कार्यकाल प्रतापगढ़ के लिए भी सौगातों की सुखद अनुभूति को अविस्मरणीय बनाए हुए है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी तत्कालीन यूपीए सरकार मे सत्तारूढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं मे शुमार रहे। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी के प्रयास से डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल मे प्रतापगढ़ को लखनऊ-वाराणसी वाया प्रतापगढ़ का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बडी सौगात बेल्हावासियों के लिए सदैव यादगार

रहेगा। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के अनुरोध पर डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग को रायबरेली से वाया प्रतापगढ़-जौनपुर-वाराणसी के लिए स्वीकृति प्रदान की। अमेठी-ऊंचाहार वृहद रेल लाइन परियोजना को भी प्रतापगढ़ के रामपुर खास से वाया अठेहा की भी डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में सांसद प्रमोद तिवारी के प्रयास से जिले को एक नई रेल लाइन परियोजना का मार्ग प्रशस्त कर गया। कांग्रेसीगढ़ रामपुर खास समेत जिले के कई हिस्सों में राष्ट्रीयकृत भारतीय स्टेट बैंक की कई शाखाओं की भी सौगात डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल की स्वर्णिम यादें संजोये हैं। केन्द्रीय सड़क निधि से कई हाइवे सड़क परियोजना का रामपुर खास में बिछा जाल भी प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह का कार्यकाल शुक्रवार को खास चर्चा लिए यादों को संजोये नजर आया। रामपुरखास के साथ प्रतापगढ़ के सियासी कद को भी डॉ. मनमोहन सिंह ने सदैव तवज्जो दी। संसद में भारत सरकार की सर्वोच्च वित्त मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अस्वस्थता के चलते डॉ. मनमोहन सिंह ने त्याग पत्र दिया। उस समय उन्होनें राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी के लम्बे संसदीय अनुभव को तवज्जो देते हुए अपनी जगह वित्त मंत्रालय की समिति में प्रमोद के नाम का प्रस्ताव कर प्रतापगढ़ के सियासी कद को ऊंचाईयां प्रदान की। वहीं प्रमोद तिवारी के साथ डॉ. मनमोहन सिंह अपने निजी पारिवारिक रिश्ते की मिठास का भी प्रतापगढ़ खासकर रामपुर खास को एहसास कराते रहे। डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में क्षेत्रीय विधायक एवं प्रमोद तिवारी की सुपुत्री आराधना मिश्रा मोना राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक की भारत सरकार द्वारा निदेशक नामित हुई। वहीं मनरेगा को लेकर डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में बीते वर्ष 2004 में भारत सरकार की ड्राफ्टिंग कमेटी मे भी रामपुर संग्रामगढ़ की ब्लाक प्रमुख के रूप में प्रमोद तिवारी के सियासी कद का लाभ आराधना मिश्रा मोना को यूपी से सदस्य के ओहदे के रूप में भी प्रतापगढ़ के रसूख को चमक दे गया था। डॉ. मनमोहन सिंह के आकस्मिक निधन पर शुक्रवार को रामपुर खास में राजनैतिक तथा आर्थिक व विकास के क्षेत्र में मिले मान-सम्मान की भावुक चर्चा का माहौल देखा गया।

बीट आरक्षी के सर्तकता से 4 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

लोकमित्र ब्यूरो

अन्तू,जेठवारा,प्रतापगढ़। आरक्षी अवधेश यादव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर, 3 गैगस्टर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना अन्तू के आरक्षी अवधेश यादव को प्रशस्ति-पत्र, नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु दिये गये निर्देश।गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्तगण हत्या, हत्या का प्रयास, गोवध निवारण अधिनियम जैसे गम्भीर अपराध में संलिप्त हैं।इसी क्रम में थाना अन्तू के बहादुर आरक्षी अवधेश यादव के सहयोग से आज दिनांक 27.12.2024 को थाना अन्तू पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 650ध्24 धारा 2ध्3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना अन्तू में 03 वांछित अभियुक्तगण 01. अमरदेव यादव पुत्र रामसुमेर यादव उम्र 50 वर्ष, गैंग के सदस्य 02. प्रदीप यादव पुत्र सदाशिव यादव उम्र 24 वर्ष, 03. मोहित यादव उर्फ विजय कुमार यादव पुत्र जगदेव यादव उर्फ नन्हे उम्र 19 वर्ष निवासीगण शुकुलपुर राजापुर रैनिया थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र अन्तू के नन्दलालपुर मोड़ के पास ग्राम राजापुर रैनिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।थाना जेठवारा के उ0नि0 वारिज मय हमराह हे0का0 राज सिंह, हे0का0 दीपक सरोज, , का0 कुलदीप कुमार ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा।इसी क्रम में थाना जेठवारा के उ0नि0 वारिज मय हमराह हे0का0 राज सिंह, हे0का0 दीपक सरोज, का0 कुलदीप कुमार ने आज दिनांक 27.12.2024 को मु0अ0सं0 322ध्24 धारा 2ध्3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना जेठवारा में 01 वांछित अभियुक्तगण अमित विश्वकर्मा पुत्र शिवकुमार विश्वकर्मा निवासी ग्राम सराय नाहर राय थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

देश व धर्म के लिए वीर साहिजादों का बलिदान अनुकरणीय- सरदार कुलदीप

वीर सपूतों की स्मृति में वीर बाल दिवस पर आरएसएस की संगोष्ठी आयोजित

लोकमित्र ब्यूरो

प्रतापगढ़। नगर स्थित संघ कार्यालय केशव कुंज में गुरुवार सांध्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आयोजकत्व में गुरु गोविन्द सिंह के वीर सपूतों की स्मृति में वीर बाल दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया । कार्यक्रम का शुभारंभ वीर सपूतों के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार कुलदीप सिंह ने कहा कि वीर साहिजादो का बलिदान व्यक्तिगत या परिवार के लिए नहीं था ,बल्कि उनका बलिदान देश और धर्म के लिए था। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद इतिहास लेखन में हुई त्रुटियों की ओर इशारा करते हुए इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि भारत के इतिहास में सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरुगोबिंद के पुत्रों को आखिर

क्यों विस्मृत कर दिया गया।आज पूरे देश में गुरु पुत्रों बाबा अजीत सिंह,जुझार सिंह,जोरावर सिंह एवं फत्ह सिंह का बलिदान शहीदी दिवस एवं वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र रक्षा एवं धर्म रक्षा के लिए गुरु तेगबहादुर सिंह और गुरुपुत्रों का बलिदान सभी के लिए अनुकरणीय है। समाज के सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिये। विभाग संघचालक रमेश ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया के इतिहास में इतनी अल्पायु में देश धर्म के लिए बलिदान होने वाले सपूतों में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फत्ह सिंह का नाम अग्रणी है। देश के स्वाभिमान को विराट करने में केशधारी हिंदुओं अर्थात सरदारों की बड़ी भूमिका रही है। विधर्मी शक्तियां जब जब प्रबल हुई उनका सामना करने के लिए सिख समाज प्रथम पंक्ति में खड़ा रहा। संघ के जिला कार्यवाह हेमंत ने कहा कि यह दिन सिख इतिहास और भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। जिन्होंने नन्ही सी उम्र में धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिये। इस दौरान गुरुद्वारा नानकशाही के प्रधान सरदार मंजीत सिंह छाबड़ा,गुरुद्वारा नानकशाही के उपप्रधान सरदार मंजीत सिंह गोविन्द,गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सदस्य सरदार कुलदीप सिंह सैंटी,सरदार गुरुसेवक सिंह, सरदार जगमीत सिंह, विभाग संघचालक रमेश ,विभाग कार्यवाह हरीश,जिला कार्यवाह हेमन्त, इतिहास संकलन समिति के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर पीयूषकांत शर्मा,पतंजलि योग पीठ जिला योग प्रमुख वंदना आदि ने अपने विचार प्रकट किये। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंजीत सिंह छाबड़ा व संचालन जिला कार्यवाह हेमंत ने किया। इस मौके पर जिला प्रचारक प्रवीण,विभाग प्रचारक प्रवेश विहिप के जिलाध्यक्ष नागेंद्र ,प्रांत घुमंतू संयोजक शशिभाल,विभाग धर्मजागरण प्रमुख विनोद, गिरिजाशंकर,जिला संघचालक चिंतामणि,सेवाभारती के विभाग अध्यक्ष विनोद सिंह,सक्षम के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह,जिला कार्यवाहिका प्रिया त्रिपाठी, दिव्या मिश्रा,शिवशंकर, अवधेश, प्रभा शंकर ,राजेश त्रिपाठी, सत्यम ओझा,दीपेश जैन,नगर संघचालक राजनरायन,सह नगर संघचालक विजय पटेल, सुमित, अर्पित,नगर प्रचारक विवेकानंद, अंकित, सर्वोत्तम,विनोद त्रिपाठी, चंदन , बिपिन,नगर कार्यवाह शिव सोनी,रवीश,सतीश,अभय सिंह, रवि ,अजय ओझा,अल्केश, रामचंद्र,अनुराग,आलोक गर्ग, वेद, रविन्द्र कौर, राजिंदर,गुंजा कौर, सतनाम कौर, महिंदर कौर यजत,रमेश पटेल आदि मौजूद रहे।

शिविर के समापन पर बोले राजा भइया

सभी के आशीर्वाद के असली हकदार हैं कार्यकर्ता

लोकमित्र ब्यूरो

कुंडा प्रतापगढ़। योगीराज देवरहवा बाबा चैरिटेबल वेलफेयर ट्रस्ट व राजा भइया यूथ ब्रिगेड के संयोजन में आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर के द्वितीय चरण में बिहार विकास खंड में आयोजित किए गए नेत्र शिविर का समापन कार्यक्रम शुक्रवार को कुंडा नगर के बजरंग महाविद्यालय में आयोजित किया गया। समापन कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया ने कहा कि मानव जीवन का उद्देश्य गरीबों व असहाय लोगों की सेवा होनी चाहिए। यही मनुष्य के जीवन का महान कार्य होता है। नेत्र ज्योति पुनर्प्रदान करना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। शिविर के समापन के अवसर पर सभी नेत्र रोगियों को ऑपरेशन के बाद दवा, चश्मा व कंबल के वितरण के बाद उन्हें उनके घर भिजवाया गया। बता दे कि नेत्र शिविर में ऐसे भी लोगों की आंखों को रोशनी दिया जाता है राजा भइया की ओर से जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, उनके घर से नेत्र शिविर से ले जाने वाले भी लोग नहीं आते हैं।

उन्हें प्रतिनिधि हरि ओम शंकर श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजा भइया के कार्यकर्ता अपने निजी वाहन से घर तक सम्मान के साथ भेजने का कार्य करते हैं।इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबागंज विधायक विनोद सरोज, प्रतिनिधि हरि ओम शंकर श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप पटेल, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर कैलाश नाथ ओझा, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुंडा शिव कुमार तिवारी भगवन,पूर्व प्रमुख कुंडा वर्तमान जिला पंचायत सदस्य बबलू सिंह बछरौली, पूर्व प्रमुख बाबागंज हितेश प्रताप सिंह पंकज, पूर्व प्रमुख विहार प्रफुल्ल सिंह डब्बू, कुंवर मुन्नू सिंह रायगढ़, लवलेश तिवारी बऊवा, प्रधान पवन सिंह, पूर्व प्रधान रमेश तिवारी जिला पंचायत सदस्य विनोद पटेल, लवलेश तिवारी बऊवा प्रधान जहानाबाद, सज्जन शुक्ला, कुंडा प्रमुख संतोष सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष हीरागंज ग्राम प्रधान उतरार विनोद यादव, विवेक प्रताप सिंह कुंडा, बब्बन सिंह कुंडा, अतुल सिंह राणा, संजय सिंह बछरौली, आजाद सिंह परसीपुर, अवधेश सिंह डेरवा, मोहित तिवारी, गोटू सेठ डेरवा, समाजसेवी नीतीश पांडेय राज पटना, सुमित तिवारी फूलमती, अनिल तिवारी गुरुजी, रूपेंद्र शुक्ला राजापुर समेत आदि मौजूद रहे।

पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही

अन्तू,प्रतापगढ़। पुलिस द्वारा हत्या, हत्या का प्रयास, गोवध निवारण अधि0 जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 04 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की है।उक्त अभियोगों से संबंधित 01 अभियुक्त जेल में निरुद्ध हैं, 03 को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया है।अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है । अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैश के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अंतू आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में दिनांक 26.12.2024 को जनपद स्तर पर सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैगलीडर व सदस्य (गैंग लीडर) 01. अमरदेव यादव पुत्र रामसुमेर यादव उम्र 50 वर्ष व गैंग के सदस्य 02. प्रदीप यादव पुत्र सदाशिव यादव उम्र 24 वर्ष, 03. कमलदेव यादव पुत्र रामसुमेर यादव उम्र 46 वर्ष, 04. मोहित यादव उर्फ विजय कुमार यादव पुत्र जगदेव यादव उर्फ नन्हे उम्र 19 वर्ष निवासीगण शुकुलपुर राजापुर रैनिया थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग ब्लॉक गौरा का गठन

लोकमित्र ब्यूरो

सुवंशा (प्रतापगढ़)। फतनपुर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (प्राथमिक संवर्ग) की ब्लॉक गौरा इकाई के पुनर्गठन एवं विस्तार सम्बन्धी एक बैठक प्राथमिक विद्यालय फतनपुर के प्रांगण में वरिष्ठ शिक्षक अनीश हैदर रिजवी की अध्यक्षता में हुई।

बैठक के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष अशोक राय और विशिष्ट अतिथि जिला महामंत्री जय प्रकाश पाण्डेय रहे। संचालन निवर्तमान अध्यक्ष विनोद शर्मा ने किया। बैठक में विस्तार से चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से ब्लॉक गौरा इकाई का

पुनर्गठन और विस्तार किया गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा जिलाध्यक्ष अशोक राय ने की। घोषणा के पश्चात जिला महामंत्री जय प्रकाश पाण्डेय द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर उन्हें शिक्षक/शिक्षिकाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर उनके त्वरित निराकरण कराने की सीख दी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (प्राथमिक संवर्ग) का सूत्र वाक्य राष्ट्रहित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक, शिक्षक हित में समाज है। हम शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ-साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन करके राष्ट्र की उन्नति में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करने वाले लोग हैं। साथ ही शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव संघर्ष करते रहते हैं। नवीन कार्यकारिणी में संरक्षक अनीश हैदर रिजवी, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मराज मौर्य, महामंत्री विद्याशंकर, संगठन मंत्री डा.विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष श्याम शंकर निर्वाचित हुए।

अत्तानगर ने जीता क्रिकेट दुर्गी टूर्नामेंट का फाइनल

खेमीपुर प्रतापगढ़। कुंडा 2001 क्रिकेट क्लब दुर्गी टूर्नामेंट का फाइनल मैच बुधवार को बरई बनाम अत्ता नगर के बीच खेला गया। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करती हुई अत्ता नगर की टीम 10 ओवर मे 53 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में बरई की टीम महज 30 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह अत्तानगर की टीम इस मैच को आसानी से जीत लिया। इस मैच में मैन ऑफ द मैच अशरफ घोशी मैन ऑफ द सीरीज मोहम्मद कैफ अत्तानगर टीम के कैप्टन, सैयद अमीर और मोहम्मद तौहीद गयासुद्दीन मोहम्मद नूरानी कैफ फारुकी मोहम्मद अकलीम मोहम्मद जिलानी मोहम्मद अशरफ शादान फारुकी ने अत्तनगर टीम से मैच खेला। इस मौके पर मोहम्मद आदिल मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद अयान मोहम्मद अरमान मोहम्मद सकलेन (गजाली)सक्रिय सदस्य जनसत्ता दल आदि मौजूद रहे।

ब्रिटिशकाल की ईंटों पर खड़ी होगी अमृत स्टेशन की इमारत

▶▶प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर नई बिल्डिंग निर्माण में हो रहा पुरानी ईंटों का इस्तेमाल

▶▶अमृत भारत स्टेशन में चयनित है मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन

लोकमित्र ब्यूरो

प्रतापगढ़। ब्रिटिशकाल में बनी इमारतें इस बात की गवाह हैं कि उनकी मजबूती और तकनीकी बेजोड़ थी। अगर ऐसा न होता तो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना स्टेशन के तहत बन रहे नए भवन में पुरानी ईंटों का इस्तेमाल न किया जाता है। जी हां, यह बात सोलह आने सच है। इस बात से बिल्डिंग बनवा रहे जेई और रेलवे के कार्य निरीक्षक भी सहमत नजर आए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी ईंटों का प्रयोग फाउंडेशन के लिए ही किया जा रहा है। जेई का तर्क था कि अगर ईंट पुरानी लग रही है तो उनका मसाला और मजदूरी भी जा रही है।

जिसका पैसा रेलवे उनको नहीं देगी। यह बात उसने इतने दावे के साथ कही जैसे सभी को इसकी जानकारी हो। हालांकि पुरानी ईंटों के इस्तेमाल को लेकर लोग आरोप लगा रहे हैं। यहां का रेल प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है।

जिसके दूसरे ही मायने निकाले जा रहे हैं।रेल मंत्रालय ने मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का चयन अमृत भारत स्टेशन योजना में चयनित किया है। इसके अंतर्गत नई स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण होना है। जिसमें यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं रहेंगी। पहले फेज में आरपीएफ थाने से लेकर गार्ड बॉक्स रूम तक का एरिया लिया गया। इसकी जद में आने वाली पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया है। जिसको ब्रिटिश पीरियड की कहा जा रहा है। उसके स्थान पर नई बिल्डिंग तैयार हो रही है। जिसमें पुरानी बिल्डिंग से निकली ईंटों का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि पिलर के फाउंडेशन में अधिक प्रयोग किया गया।

अंग्रेजों के समय का है स्टेशन

दावा किया जा रहा है कि प्रतापगढ़ स्टेशन और प्लेटफॉर्म एक की इमारतें अंग्रेजों के समय की हैं। जिसमें टिकट घर भी शामिल हैं। रिटायर रेल कर्मी लाल मोहम्मद और आरबी मिश्रा का कहना है कि उस समय स्टेशन पर भाप का इंजन चलता था। दो गाड़ी चलती थी।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

भवन बनवा रहे जेई सुमित का कहना है कि पुरानी ईंटों का इस्तेमाल फाउंडेशन में किया गया है। जो जरूरत पड़ने पर निकाला भी जा सकता है। इसके बदले में रेता, बालू सीमेंट और मजदूरी का जो इस्टीमेट है। वो रेलवे से नहीं लिया जा रहा। ईंटों के बारे रेल के अफसरों को भी पता है। इससे मजबूती भी मिलेगी। कार्य निरीक्षक (आईओडब्लू) बलराम भी सुमित से इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने बताया कि पुरानी ईंटों के इस्तेमाल की जानकारी उन्हें है। कोई गलत नहीं हो रहा है।

स्टेशन के ही एक जिम्मेदार ने फैलाई है ईंट की अफवाह

बिल्डिंग में पुरानी ईंटों के इस्तेमाल की जानकारी स्थानीय रेल प्रशासन के ओहदेदार ने ही फैलाई है। उसने आरपीएफ थाने पर जाकर इस बारे में बताया। आरपीएफ वालों ने जब लिखित में मांगा तो वह बैक फुट पर आ गया। उसने इसका वीडियो बनाया और फोटो भी लिया है।

बिजली के बकाया बिल में भारी छूट, विद्युत उपभोक्ता उठाए योजना का लाभ- उपखण्ड अधिकारी

लोकमित्र ब्यूरो

जेठवारा-प्रतापगढ़- बिजली बिल बकायेदारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक खास योजना शुरू की है। जिसका नाम है वन टाइम सेटलमेंट योजना। इस योजना के अंतर्गत बिजली के बिल के बकायेदार उपभोक्ताओं को अधिभार यानी सरचार्ज में छूट दी जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों को चुकाने में बड़ी राहत मिलेगी। जिले के जेठवारा विद्युत उपकेंद्र के उपखंड अधिकारी व जेई मुकेश कुमार साहनी ने जानकारी दी कि ह्वज्ञस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी विद्युत उपकेंद्र या सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिल की मूल राशि का 30 प्रतिशत अग्रिम रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। यह योजना न केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, बल्कि वाणिज्यिक, निजी संस्थान और औद्योगिक इकाइयों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना ÷पहले आओ, पहले पाओ÷ के आधार पर लागू की गई है। पहले चरण में पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक छूट का लाभ मिलेगा। जैसे-जैसे चरण आगे बढ़ते जाएंगे, छूट की दर कम होती जाएगी। इसलिए, उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वह जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं और पहले चरण का अधिकतम लाभ उठाएं। जिस किसी भी विद्युत उपभोकता को बिजली बिल से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो वह अपना बिजली का बिल और मीटर का 3 मिनट का वीडियो और मीटर पेपर लेकर उपखंड अधिकारी व जेई मुकेश कुमार साहनी और बड़े बाबू से मिल कर अपना बिजली का बिल संशोधन कराकर जल्द से जल्द जमा कराने का कष्ट करें। यह सम्पूर्ण जानकारी जेठवारा विद्युत उपकेंद्र के उपखंड अधिकारी एवं जेई मुकेश कुमार साहनी ने दी।

निबंध प्रतियोगिता में फाएजा ने दूसरा स्थान हासिल करके किया नाम रोशन

▶▶विजयी प्रतिभागी छात्रा को 3000 रुपए का चेक व प्रमाण पत्र देकर सदर विधायक ने किया सम्मानित

लोकमित्र ब्यूरो

कुंडा प्रतापगढ़। सरजू प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज की कक्षा 11 की विज्ञान वर्ग की छात्रा फाएजा बानो ने जीआईसी कॉलेज में आयोजित जनपद स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल करके अपनी बुद्धि व कौशल का परचम लहराते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई के जन्म शताब्दी वर्ष में जीवनी से संबंधित निबंध लेखन में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में जनपद के समस्त विद्यालय की छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर चयनित प्रतिभागी फाएजा बानो को सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य तथा जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा ने □3000 धनराशि की चेक व प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया तथा छात्रा का हौसला अफजाई करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। एसपी इंटरमीडिएट कॉलेज कुंडा के प्रधानाचार्य राधेश्याम दुबे ने जनपद में निबंध प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल करने पर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की है। यह कुंडा कोतवाली क्षेत्र के बरई गांव निवासी इजहार अहमद शेख की बेटी है। बेटी की इस उपलब्धि से बरई गांव में खुशी की लहर है। इस मौके पर सदर विधायक राजेन्द्र कुमार मौर्य, जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा, नोडल राजकीय डिग्री कालेज के प्राचार्य, सह विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य राधेश्याम दुबे समेत शिक्षक-शिक्षिकाएं व अन्य अधिकारी तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे।

गरीबों की निस्वार्थ भाव से सेवा, परमात्मा की सेवा है - विनोद सरोज

▶▶राजा भइया के मार्गदर्शन में डॉक्टर दिवाकर तिवारी ने किया सेवा भाव

लोकमित्र ब्यूरो

कुंडा प्रतापगढ़। बाबागंज विकासखंड के लखपेड़ा में बुधवार को वृहद पैमाने पर आयोजित समाज सेवा का 7वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सावित्री मेमोरीयल हॉस्पिटल के प्रांगण में संपन्न हुआ। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष डॉ हरिशंकर तिवारी और व्यवस्थापक जनसत्ता दल के पदाधिकारी डॉ दिवाकर तिवारी के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ शिविर, उच्च गुणवत्ता युक्त आधुनिक आँखों के चश्मे और आधुनिक स्टिक छड़ी तथा बेहतर क्वालिटी के कंबल आदि के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रत्येक वर्ग के दूर दूर से आए हजारों की संख्या में अत्यंत गरीब,असहाय,दीन हीन लोगों को ठंड से बचाव हेतु कंबल का निःशुल्क वितरण हुआ। कंबल पाकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे।जरूरत मंदो की आँखों की जाँच के बाद श्रेष्ठ लेंस युक्त चश्मे का वितरण किया गया। साथ ही साथ स्वास्थ्य की पूरी जाँच करके आवश्यक दवाओं का भी वितरण किया गया। बताते चले कि यह कार्यक्रम पुण्यतिथि के रूप में पिछले 7 वर्षो सेअनवरत आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान एक बड़े वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु नीव पूजन का कार्यक्रम भी रखा गया था। प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत एक बड़े कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। जिसमे प्रदेश के अलग अलग जनपदों से चर्चित और ख्याति प्राप्त कवियों व कवित्रियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।सम्मेलन ने अपने आगाज से शमा बांध दिया, देशभक्ति और कुंडा में कुण्डी लगाने वाले विरोधियों के मुँह पर तमाचे की चर्चा जोरों पर रही।जनसत्ता दल के प्रदेश अध्यक्ष बाबागंज विधायक विनोद सरोज ने अपने वक्तव्य में कहा कि गरीबों की निस्वार्थ भाव से सेवा परमात्मा की सेवा है। हम इस कार्यक्रम की तहेदिल से सराहना करते हैं। इस दौरान कुंडा उपजिलाधिकारी भरत राम यादव ने दीप प्रज्ज्वलित करके माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। भरत राम ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे समाज के अंतिम लोगों तक सुविधाओं का लाभ पहुँच सके।

इस दौरान जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव डॉ कैलाश नाथ ओझा ने कहा कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजा भइया जी को आना था लेकिन दिल्ली में व्यस्ततम कार्यक्रम की वजह से वो नहीं आ पाए। एस डी एम भरत राम,डॉ के एन ओझा,विधायक विनोद सरोज, पूर्व प्रमुख पंकज सिंह और जिलापंचायत प्रतिनिधि कुलदीप पटेल द्वारा सभी सभी कवियों का माल्यार्पण करके स्वागत तथा प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्रम भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम सुबह 12 बजे से प्रारम्भ होकर शाम 5 बजे तक चलता रहा। इस दौरान जनसत्ता दल के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों और समाज के प्रबुद्ध बुद्धजीवियों द्वारा भी कंबल का वितरण किया गया।कार्यक्रम में अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा सभी ने इस कार्य की भूरि भूरि प्रसंशा की।इस दौरान पूर्व प्रमुख हितेश प्रताप सिंह पंकज , प्रमुख बाबागंज पति राम यश सरोज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भानु प्रताप सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक कुंडा डॉ राजीव त्रिपाठी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक बाबागंज डॉ सौरभ सिंह ,डॉ विनय द्विवेदी,छोटे लाल यादव, प्रधान संघ अध्यक्ष बाबागंज ओमानन्द द्विवेद, प्रधान पप्पू द्विवेदी, जिला पंचायत सदस्य दिलीप पाण्डेय, प्रधान अर्जुन अतेरु आनंद देव पाण्डेय,मनोज सिंह, हर्षवर्धन सिंह , प्रधान पंकज यादव,शुभम तिवारी सौरभ मिश्रा, व्यापार मंडल अध्यक्ष हीरागंज प्रधान उतरार विनोद यादव, आलोक त्रिपाठी गुरु जी , वरिष्ठ पत्रकार रूपेंद्र शुक्ला सहित आदि मौजूद रहे।

कुंभ मेला श्रद्धालुओं के स्वागत को रोटरी क्लब तैयार

▶▶नगर के प्रमुख चौराहे पर लगाए गए दिशा बोर्ड

▶▶बोर्ड पर जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर

लोकमित्र ब्यूरो

प्रतापगढ़। कुंभ मेला में जाने और वापस आने वाले नागरिकों के स्वागत और उनकी सेवा करने की तैयारी में जुटे रोटरी क्लब प्रतापगढ़ सेंट्रल ने शहर के प्रमुख चौराहों पर वेलकम बोर्ड लगवा रहा है। भीड़ में किसी को कोई दिक्कत आती है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर मदद मांग सकता है। क्लब के बोर्ड पर हेल्प लाइन नंबर लिखा है। बोर्ड सोनावा, महुली रोड, श्रीराम बालिका इंटर कालेज, सुखपाल नगर तथा सीताराम धाम के निकट जोगापुर में लगाया गया है। इस बारे में क्लब के अध्यक्ष अश्विनी केसरवानी ने बताया कि बोर्ड लगवाने का उद्देश्य जिस भी दिशा से लोग आएं रोटरी परिवार उनका स्वागत एवं सहायता करने को तत्पर रहेगा। रो. डॉ. शिव मूर्ति लाल मौर्य, रो.डॉ.आलोक सक्सेना,रो. सरदार करमजीत सिंह रो. संदीप प्रकाश खरे, रो. डॉ घनश्याम अग्रवाल, रो.डॉ.प्रीति पाण्डेय, रो. उमेश प्रताप सिंह,रो. शरद केसरवानी रो. अख्तर मसूद शर्फुद्दीन का सहयोग रहा है।

दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन

▶▶खेल से बढ़ता है भाईचारा और होता है शारीरिक विकास - रोशनलाल उमरवैश्य

लोकमित्र ब्यूरो

प्रतापगढ़। माई भारत नेहरू युवा केंद्र के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन राजकीय आईटीआई में हुआ। प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़, कुश्ती आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।विजेताओ को समापन के अवसर परे समाजसेवी रोशनलाल उमरवैश्य ने पुरस्कृत करते हुए कहा कि गांव की छुपी प्रतिभाओं को माई भारत नेहरू युवा केंद्र के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता कराकर युवाओं के शारीरिक विकास और जिले स्तर पर खेलने का मौका मिल रहा है। यह प्रतिभागी ब्लॉक स्तर से होकर जिले में जब खेलेंगे तो वहां भी अपना परचम लहरा कर प्रदेश व देश का नाम रोशन करेंगे। खेलों से आपसी भाईचारा भी बढ़ता है और शारीरिक विकास भी होता है। अध्यक्षता कर रहे आईटीआई के प्राचार्य आलोक कुमार ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा विभिन्न खेलों की जो प्रतियोगिता कराई गई वह जिले के युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी और यह बच्चे एक दिन जिले का नाम रोशन करेंगे।

नेहरू युवा केंद्र के लेखाकार विनय मिश्रा ने अतिथियों का आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि विजई प्रतिभागियों को दो-तीन जनवरी को स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन में सहभागिता करने का मौका मिलेगा।आज वालीवाल फाइनल मैच पूरे ईश्वर नाथ और मीरा भवन की टीम के बीच खेला गया जिसमें पूरे इश्वर नाथ विजयी रही।इस दौरान लेखाकार विनय मिश्रा,कार्यक्रम के संयोजक कर्मराज सिंह, मंजीत केन्द्र के प्रशिक्षक विश्वजीत सिंह ने किया, छोटे सिंह अगई,श्याम नरायण पटेल, अशोक कुमार शुक्ला,सिधार्त सिंह, आदि मौजूद रहे।

रंगदारी नही देने पर पीटने एवं दुकान में तोड़फोड़ की रिपोर्ट दर्ज

लोकमित्र ब्यूरो

कुंडा प्रतापगढ़। बाघराय थानाक्षेत्र के बोधराम का पुरवा सिया गांव निवासी राकेश कुमार जायसवाल ने पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि सात सितम्बर को करीब ढाई बजे जब वह दुकान पर बैठा था, तभी अवनीश कुमार उसकी इलेक्ट्रानिक दुकान में घुस गया। उससे रंगदारी मांगने लगा, पैसा देने से मना करने पर गालियां देते हुए मारपीट करने लगा। विरोध करने और पुलिस को सूचना देने की बात कही तो दुकान में रखे सामान में तोड़फोड़ करने लगा। आसपास के लोग दौड़े तो वह जान से मारने की धमकी देते चला गया। पीड़ित राकेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने अवनीश दुबे निवासी ठकुरैनी का पुरवा उमरा पटटी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।

क्रिसेंट मॉडल स्कूल में वार्षिक खेलकूद समारोह का शुभारंभ

लोकमित्र ब्यूरो

खैमीपुर प्रतापगढ़। कुंडा कस्बे के गांधी नगर में स्थित क्रिसेंट मॉडल स्कूल वार्षिक खेलकूद समारोह का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यअतिथि कुंडा चेयरमैन प्रतिनिधि शिव कुमार त्रिपाठी भगवन ने फीता काट कर खेलों का शुभारंभ किया। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मथुरा प्रसाद धुरिया उपस्थित थे। एक सप्ताह तक चलने वाली खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर विद्यार्थियों द्वारा मशाल जला कर शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम प्रतियोगिता बच्चो में हॉट एयर बैलून आसमान में उड़ाया जिसको देखकर बच्चे काफी उत्साहित हुए और खूब तालिया बजाई।

प्रथम दिन जूनियर बच्चो के खेल हुए जिसमें रेस, बैलून रेस, फिलिंग बकेट, पास द बाल आदि खेल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिव कुमार त्रिपाठी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद असद ने आए हुए अतिथि और बच्चो का अभिवादन किया।

पुलिस ने मेले के मद्देनजर स्टेशन की चेकिंग कर देखी हकीकत

▶▶आरपीएफ और सिविल पुलिस की ज्वाइंट टीम मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर घूमी

लोकमित्र ब्यूरो

प्रतापगढ़। महाकुंभ मेले की तैयारी के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल और कोतवाली पुलिस की टीम ने संयुक्त निरीक्षण कर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर प्लेटफार्म, गेट और परिसर का जायजा लिया। मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। पुलिस फोर्स ने स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की सूची देखी। बिजली, पानी के साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम को परखा। भीड़ के आने और जाने के लिए मुख्य गेट, दिव्यांग गेट और पुल का स्थलीय निरीक्षण कर चाक चौबंद व्यवस्था की सूची तैयार की गई। इस दौरान कोतवाल अर्जुन, एएसई सीपी डूबे समेत कई पुलिस कर्मी मौजूद थे।

दुकान में नकब लगाकर नकदी एवं सामान संग हजारों की चोरी

लोकमित्र ब्यूरो

कुंडा प्रतापगढ़। हथिगवां थाना क्षेत्र के चरण मिश्र का पुरवा बिसहिया गांव निवासी शिवशंकर मिश्रा भदरी चौराहे पर किराने की दुकान चलाते हैं। गुरुवार को रात करीब आठ बजे वह दुकान बंद करके घर चला गया। रात में चोर दुकान का ताला तोड़कर भीतर घुसे। दुकान में रखे 15 हजार रुपये नकदी, दाल, चीनी और किराने के अन्य कीमती सामान समेत हजारों का सामान समेट ले गए। घटना की जानकारी सुबह दुकान पहुंचने पर हुई तो यूपी 112 को फोन किया। पुलिस पहुंची तो पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही। पीड़ित शिवशंकर मिश्रा ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है।

रॉयल हाई पब्लिक स्कूल में साप्ताहिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

लोकमित्र ब्यूरो

खैमीपुर प्रतापगढ़। शुक्रवार को रॉयल हाई पब्लिक स्कूल कुंडा में साप्ताहिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ उप जिलाधिकारी कुंडा भरत राम यादव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कबूतर उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खेलों तथा रंगारंग प्रस्तुति के द्वारा आए हुए अतिथियों का मन मोह लिया। विशिष्ट अतिथि क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों ने खेल महोत्सव के पहले दिन ऊंची कूद, लंबी कूद ,खो खो ,100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, सांस्कृतिक प्रोग्राम आदि प्रस्तुत किया। अन्य अतिथियों में प्रधानाचार्य भागवत इंटर कॉलेज मनोज कुमार गुप्ता और लेक्चर टीपी कॉलेज अंकित मल्होत्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रबंधक रंजीत जैसवाल और प्रधानाचार्य डॉ आमिर वसीम द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया।

मुख्य अतिथि ने बताया कि खेलों के द्वारा ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है तथा खेल आज हमारे जीवन का मुख्य आधार है। खेलों के द्वारा ही लोग अपनी अलग पहचान बना रहे है। इस दौरान विद्यालय के साथ प्रबंधक सौरभ जयसवाल समन्वयक सुधा जायसवाल तथा निर्णायक की भूमिका में सागर सारस्वत,जफर आलम ,अभय यादव ,शकील अहमद और विद्यालय की पीटीआई मैडम श्रीमती विनीता सिंह , विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं , अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

9452526750, 9839665450,8565970115
दैनिक लोकमित्र
121, विवेक नगर प्रतापगढ़
सम्मन प्रकाशन दर 1000 रू0 एक नाम तक अतिरिक्त प्रति व्यक्ति 10.00 रूपया पैनल विज्ञापन 5 से.मी. प्रति कालम 500/–प्रतिमाह
प्रथम पृष्ठ पर 100% अतिरिक्त
E-mail-lokmitra2005@gmail.com
प्रकाशक,मुद्रक एवं स्वत्वाधिकारी संतोष भगवन द्वारा रामा मुद्रणालय, विवेक नगर, प्रतापगढ़ से मुद्रित एवं लोकमित्र कार्यालय पल्टन बाजार प्रतापगढ़ से प्रकाशित
8738029050 सम्पादकः संतोष भगवन

ईवीएम व वीवीपैट वेयरहाउस का किया औचक निरीक्षण

लोकमित्र ब्यूरो

चित्रकूट - जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने शुक्रवार को राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ ईवीएम व वीवीपैट वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी तथा निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि ईवीएम व वीवीपैट वेयरहाउस की सीसीटीवी कैमरों का संचालन लगातार होते रहना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा में लगे पुलिस बल को निर्देश दिया कि मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे तथा इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए।इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश चंद्र निगम, वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह, कौंग्रेस जिलाध्यक्ष कुशल सिंह पटेल, अपना दल जिलाध्यक्ष रामसिया सिंह, बसपा विधानसभा अध्यक्ष सोनपाल वर्मा, आप जिलाध्यक्ष संतोषी लाल शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी एवं निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

चार माह से नहीं चल रहा किशोर का पता

चित्रकूट- बिहार के समस्तीपुर जिले के सरांयरंजन थाने के हरलोचनपुर गांव के निवासी दिलीप कुमार शाह ने बताया कि उनका 14 वर्षीय बेटा आदित्य कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वह बीती 20 अगस्त को खजुराहों से समस्तीपुर की यात्रा करते समय डभौरा रेलवे स्टेशन के आसपास से गायब हो गया था। जिसे अंतिम बार मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट मानिकपुर जीआरपी थाने में दर्ज कराई थी। इसके बावजूद अब तक कोई जानकारी नहीं हो सकी है। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर पुत्र का पता लगवाने की गुहार लगाई है।

नवनियुक्त मंडल प्रभारी और जिला प्रभारियों का हुआ स्वागत

लोकमित्र ब्यूरो

चित्रकूट - बहुजन समाज पार्टी ने चित्रकूट के मान सिंह कुशवाहा को चित्रकूट धाम मंडल बांदा का मंडल प्रभारी बनाया है। साथ ही रावेन्द्र कुमार वर्मा एवं प्रेमनारायण वर्मा को बसपा का जिला प्रभारी बनाया गया है।

जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार बसपा कार्यालय आने पर कार्यकर्ताओं नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया।बसपा जिलाध्यक्ष अधिवक्ता शिवबाबू वर्मा ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर देश की अधिकतर पार्टियां बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धन बल के सहारे अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करते हुए चुनाव मैदान में उतरती हैं। वर्ष 2023-24 में इनको मिले अकूत धन से साबित होता है कि यह पार्टियां गरीब एवं किसानों का शोषण करके धन्ना सेठों की समर्थक हमेशा रहीं है। मीडिया के अनुसार वर्ष 2023-24 में भाजपा को पहले, बीआरएस को दूसरे व कौंग्रेस को तीसरे नंबर पर करोड़ों-अरबों रुपये का चंदा मिला है। जबकि बहुजन समाज पार्टी ही ऐसा दल है, जो अपने गरीब कार्यकर्ताओं के खून-पसीने पर निर्भर रहता है। साथ ही अपने जमीनी कार्यकर्ताओं, बहुजन समाज एवं सर्वजन समाज के लोगों के हितों की चिंता बसपा मुखिया करतीं हैं। इसी क्रम में पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता मान सिंह कुशवाहा को मंडल प्रभारी, रावेन्द्र कुमार वर्मा एवं प्रेमनारायण वर्मा को जिला प्रभारी बनाया गया है।

देशी शराब की दुकान में दो लाख की नगदी चोरी

● पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जाँच में जुटी

लोकमित्र ब्यूरो

मानिकपुर, चित्रकूट- तहसील मुख्यालय के रेलवे स्टेशन के पास स्थित देशी शराब की दुकान में चोरों ने दरवाजा तोड़ कर लाखों का कैश पार कर दिया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।प्राप्त जानकारी के अनुसार मानिकपुर तहसील के रेलवे स्टेशन के पास स्थित शराब की दुकान में शुक्रवार की सुबह अज्ञात चोरों ने दुकान के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़ कर दुकान के दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को डिस्कनेक्ट कर अंदर रखे दो लाख रूपये नगदी व शराब की बोतले लेकर भाग गए। बाद में जब सेल्समैन अवध बिहारी दुकान पहुचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक फहीद अली, प्रभारी निरीक्षक दुर्विजय सिंह व फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल में लगे सीसीटीवी की जांच की। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।

लोढ़वारा में समाजसेवियों ने किया कम्बल वितरण

लोकमित्र ब्यूरो

चित्रकूट - सदर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोढ़वारा में ठंड के दृष्टिगत गरीब असहायों व निराश्रित लोगों को गर्म कपड़े, कम्बल व खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही उन्हें खान-पान में सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई।भजनाआश्रम प्रबंधक रामऔतार यादव एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी केशव प्रसाद यादव द्वारा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के नजदीकी जनपदों में ठंड के दृष्टिगत गरीब असहायों व निराश्रित लोगों को गर्म कपड़े, कम्बल व खाद्य पदार्थ का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद की ग्राम पंचायत लोढ़वारा में अधिवक्ता अमित यादव के नेतृत्व में ग्राम प्रधान हरिमोहन सिंह यादव के सहयोग से गरीब असहाय एवं निराश्रित लोगों को गर्म कपड़े, कम्बल व खाद्य पदार्थ का वितरण किया गया। साथ ही खान-पान में सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई। गर्म कपड़े, कम्बल व खाद्य पदार्थ पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कुान देखने को मिली। इस मौके पर रामऔतार यादव, रामसहाय यादव, आशीष यादव, हनुमान प्रसाद यादव, राहुल यादव, रोहित यादव, महेश यादव, धनराज, घनश्याम, अभिजय, रतिमोहन, चदंन, सत्यम यादव, दीपक आदि मौजूद रहे।

आशा बहूओं ने अपनी विभिन्न को मांगों के लिये सौपा ज्ञापन

लोकमित्र ब्यूरो

बहरिया । विकास खंड बहरिया क्षेत्र के मैलहा में स्थित सीएचसी में कार्यरत सभी आशा बहुओं ने अपने पुरानी विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक करते हुये संघ की अध्यक्ष संगीता सिंह के नेतृत्व में दर्जनों आशा बहुओं के साथ अपनी पुरानी मांगों मातृत्व लाभ, मानदेय, आने जाने का भत्ता, टीकाकरणों का उचित मानदेय आदि समस्याओं के सम्बंध में मुख्यमंत्री के लिये ज्ञापन सीएचसी अधीक्षक डा0 अभिमन्यु सिंह को सौपा । उक्त अवसर पर निशा देवी,कुसुम देवी, अनिका देवी, मनोरमा विश्वकर्मा, कलावती देवी, प्रीति मिश्रा, विमला, राधादेवी, मन्जू, सुशीला देवी, किरन, पिन्की, शशि श्रीवास्तव आदि आशा बहुएं मौजूद रही ।

विद्यार्थियों ने संस्कृत भाषा संभाषण कौशल का कार्यशाला में किया प्रदर्शन

चित्रकूट ब्यूरो-महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आयोजित दस दिवसीय संस्कृत संभाषण कार्यशाला के समापन अवसर पर शुक्रवार को सहभागी विद्यार्थियों ने संस्कृत भाषा संभाषण कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान कुलगुरु प्रो भरत मिश्रा ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी बांटे।कुलगुरु प्रो भरत मिश्र कहा कि संस्कृत भाषा में ही भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा सुरक्षित है और अब विज्ञान के नवीनतम अनुसंधानो में भी संस्कृत महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्थापित हो रही है। उन्होंने अपेक्षा की कि संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत और संस्कृति की इसी प्रकार सेवा निरंतर होती रहेगी और विश्वविद्यालय इस कार्य को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार देगा। कार्यशाला संयोजक और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉ कमलेश थापक ने कहा कि इस कार्यशाला की श्रृंखला में विभिन्न सत्रों का आयोजन चित्रकूट के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। आइक्यूएसी सेल के संयोजक प्रो डीपी राय ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से संस्कृत और संस्कृति के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाने का प्रयास किया गया है।

कला संकाय के अधिष्ठाता प्रो नंदलाल मिश्रा ने संस्कृत कविताओं के द्वारा संस्कृत के महत्व और इस प्रकार की कार्यशाला के प्रभाव पर प्रकाश डाला।इस मौके पर संस्कृत विभाग की शिक्षिका डॉ प्रज्ञा मिश्रा, प्रशिक्षक युवराज मिश्र, डॉ तुषारकांत शास्त्री, सुरेंद्र कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे।

निर्मल गंगा के संकल्प को साकार कर रहा नमामि गंगे मिशन

लोकमित्र ब्यूरो

महाकुम्भ नगर। महाकुम्भ 2025 को न केवल आध्यात्मिकता का महापर्व, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का आदर्श प्रतीक बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन ने अनूठी और व्यापक योजनाओं को लागू किया है।

गंगा की पवित्रता और सतत प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, प्रयागराज में वर्तमान में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) संचालित हो रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 340 एमएलडी है। महाकुम्भ 2025 की विशेष तैयारियों को सशक्त बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन की ओर से तीन नई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनके अंतर्गत सलोरी में 43 एमएलडी, रसूलाबाद में 90 एमएलडी और नैनी में 50 एमएलडी क्षमता के अतिरिक्त एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य महाकुम्भ के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त गंगा जल उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि गंगा की अविरलता और निर्मलता को दीर्घकालिक रूप से सुनिश्चित करना भी है। गंगा और यमुना नदियों की निर्मलता और स्वच्छता को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयागराज में अद्वितीय प्रयास किए जा रहे हैं।

कभी 81 नालों से प्रदूषित होने वाली इन नदियों की कहानी अब बदल रही है। नमामि गंगे मिशन और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से, इन नालों को स्वच्छता की धारा में परिवर्तित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्तमान में, 81 में से 37 नालों को पूरी तरह टैप कर उनका उपचार किया जा चुका है, जिससे इन नदियों में प्रदूषण का प्रवाह रुक गया है।

इसके अलावा, 5 नालों को सूखा या अप्रभावी पाया गया है, जिन्हें किसी प्रकार के उपचार की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, महाकुम्भ 2025 की तैयारियों के तहत, राज्य सरकार ने अपने बजट में 17 नालों को टैप करने का दायित्व लिया है और इसके लिए आवश्यक संसाधन व प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा रही है। शेष 22 नालों को टैप करने का कार्य नमामि गंगे मिशन (एनएमसीजी) के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। महाकुम्भ 2025 को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन द्वारा शुरू की गई दूरदर्शी योजनाओं का उद्देश्य गंगा और यमुना नदियों की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखना है, ताकि नदियों की पवित्रता के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी संरक्षित किया जा सके।गंगा और यमुना को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, योजनाबद्ध अवसंरचना और समाज की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है कि गंगा और यमुना की पवित्रता आने वाली पीढ़ियों तक अक्षुण्ण बनी रहे।

मिशन की यह पहलें केवल महाकुम्भ को सफल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य प्रयागराज की सीवरेज अवसंरचना को दीर्घकालिक रूप से मजबूत करना भी है।

महाकुंभ में बिना परमिशन न चल पाएंगे भंडारे

प्रयागराज। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुम्भ-2025 में संचालित किए जाने वाले भण्डारों की अनुमति कलेक्ट्रेट प्रयागराज स्थित नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय से निर्गत की जायेगी।

भण्डारों के आयोजन किए जाने हेतु यात्रियों के ठहराव स्थल (होल्डिंग एरिया) का चिन्हांकन किया गया है। भण्डारों के आयोजन हेतु आवेदन पत्र 05 जनवरी से पूर्व नगर मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नगर मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के कार्यालय अथवा संजय कुमार सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोबाईल संख्या-8840587851 व अरविन्द कुमार तिवारी, कार्यालस सहायक मो0 सं0-7007246156 पर भी प्राप्त की जा सकती है।

ज्ञातव्य हो कि भण्डारे के आयोजन के पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपरिहार्य है। बिना अनुमति के भण्डारे का आयोजन नहीं किया जायेगा।

जनकवि कैलाश गौतम सम्मान से सम्मानित हुए दिनेश रघुवंशी

प्रयागराज। कैलाश गौतम सृजन संस्थान की ओर से शुक्रवार को हिन्दुस्तानी एकेडमी में जनकवि कैलाश गौतम राष्ट्रीय काव्य कुम्भ समारोह-2024 का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति समित गोपाल, समारोह के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि मेयर गणेश केसरवानी, कमांडेंट मनोज गौतम व अपर पुलिस आयुक्त संदीप वर्मा ने जनकवि कैलाश गौतम सम्मान से फरीदाबाद के दिनेश रघुवंशी को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न, शॉल व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देकर दो मिनट का मौन रखा गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि जनकवि की रचनाओं ने सदैव ही समाज को नई दिशा दी और हर एक को अटूट संघर्ष की प्रेरणा देने का कार्य किया। मेयर ने कहा कि उन्होंने अपनी कविताओं से प्रयागराज को कविता के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया।

अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि मानवीय संवेदनाएं और उनकी भावनाओं का सर्वोत्तम चित्रण जनकवि की रचनाओं में है। संस्थान के अध्यक्ष डॉ. श्लेष गौतम ने संचालन और अनुराग अरोरा व मनीष घोष ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

आरएसएस ने वीर बाल दिवस पर आयोजित की गोष्ठी

लोकमित्र ब्यूरो

मौरजापुर। सनातन की ही देन है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अस्तित्व में है और हम शांति से रह रहे हैं अन्यथा पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जहां से सनातनी मिटे वहां अशांति ही अशांति है। यह उद्गार हैं हरदीप सिंह खुराना के जो मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित गोष्ठी में व्यक्त किए।

गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों के बलिदान की मार्मिक कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जो समाज अपने पुरखों के बलिदान को भूल जाए वह नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि गुरु परम्परा में गुरु गोविंद सिंह ऐसे महापुरुष रहे जिनको बलिदानी पिता और बलिदानी पुत्र होने, दोनों का गौरव प्राप्त हुआ।

उन्होंने समाज का आवाहन किया कि अपनी संतानों को बाल्यावस्था से ही ऐसे संस्कार दें कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करें तथा राष्ट्रधर्म को समझें। उन्होंने जोर देकर कहा कि कायरता से हम लम्बी आयु तो पा सकते हैं, धन भी अर्जित कर सकते हैं किन्तु जीवन तभी सार्थक और अनुकरणीय होता है जब हम राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं।

सनातन के लिए गुरुओं के संघर्ष गाथा को सुनते समय सभी श्रोताओं की आंखें डबडबा गई कि कितने बलिदान के फल स्वरूप आज सनातनता बची है और पूरा विश्व इसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता तिलकधारी एडवोकेट ने तथा संचालन लखन अग्रवाल ने किया।

गोष्ठी में सोनू दीक्षित, भूपेंद्र सिंह, विमलेश अग्रहरी सहित बड़ी संख्या में समाज के हर वर्ग के लोग उपस्थित रहे।

मनमोहन सिंह ईमानदारी, सत्य और निष्ठा के प्रतीक थे-जितेन्द्र चौबे

▸▸ मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गयी

लोकमित्र ब्यूरो

मौरजापुर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो ईमानदारी, सेवा परायणता, सादगी के आदर्श पुरुष थे उनकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। यह बातें किसान कॉंग्रेस के प्रदेश महामन्त्री जितेन्द्र चौबे ने कॉंग्रेस द्वारा आयोजित शोक सभा में कही।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विधि कुमार सिंह ने कहा कि जो जमाना कर ना सका वो करने वाले के कद का ये अंदाज था कि वो था तो आसमान मगर सर झुका के चलता था। उन्होंने आगे कहा कि कुशल अर्थशास्त्री, दूरदर्शी नेता और विनम्र व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने देश की प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में अतुलनीय योगदान

दिया, उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।

श्रद्धांजलि देने वालों में अशोक मिश्रा, सरफराज अहमद, संतोष दुबे, जिला उपाध्यक्ष कमलेश दुबे,मनोज चौरसिया, संदीप मिश्रा, जिला महामंत्री मनीष दुबे, वरिष्ठ कांग्रेसी नवीन मिश्रा , रामशृंगार दुबे अविनाश मिश्रा,जिलाध्यक्ष सेवा दल सैयद मुमताज, रत्नेश मिश्रा, विनोद गुप्ता आदि प्रमुख लोग रहे। सभा का समापन दो मिनट के मौन के साथ हुआ।

ग्रुप ए के फाइनल मैच में रायबरेली ने फतेहपुर को तीन विकेट से हराया

चित्रकूट ब्यूरो- नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म स्मृति पर आयोजित अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट के 22वें सुभाष चैलेंज कप 2024-25 में शुक्रवार को ग्रुप ए का फाइनल मैच रायबरेली और फतेहपुर के बीच खेला गया। जिसमें रायबरेली ने फतेहपुर को तीन विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर फतेहपुर ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए फतेहपुर की टीम ने निर्धारित 25 ओवरों में 10 विकेट खोकर 145 रन बनाए। जिसमें अफसर खान के 28 रन और मोहित के 42 रन शामिल रहे। रायबरेली के गेंदबाज सुधांशु ने दो व चार विकेट लिए। 146 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रायबरेली की टीम ने 24 ओवर में ही 149 रन बना कर लक्ष्य हासिल कर लिया। जिसमें सुधांशु के 63 और आदित्य के 18 रन शामिल रहे। फतेहपुर के गेंदबाज मनीष ने दो व वरुण ने तीन विकेट लिए। रायबरेली ने फतेहपुर को तीन विकेट से कराकर इस मुकाबले को अपने नाम किया।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वत्वाधिकारी संतोष भगवन द्वारा रामा मुद्राणालय विवेक नगर, प्रतापगढ़ से मुद्रित व लोकमित्र कार्यालय आजाद नगर(निकट बड़ा शिवाला), मंझनपुर कौशाम्बी से प्रकाशित
सम्पादकः कृष्णानन्द त्रिपाठी

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगायी गई ग्राम चौपाल

»महिलाओं और पुरूषों को किया गया जागरूक

लोकमित्र ब्यूरो

रायबरेली। ग्रामीणों को उनके ही दरवाजे पर समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक जीतेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा ग्राम अतरथरिया थाना सलोन जनपद रायबरेली में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में उपस्थित ग्राम प्रधान बीडीसी सदस्य व हल्का प्रभारी उपनिरीक्षक देवेश चौधरी महिला उपनिरीक्षक वर्षा रानी के द्वारा ग्राम की महिलाओं और पुरूषों को जागरूक किया गया। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र

प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जन समस्याओं को हल करने के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है इस चौपाल के द्वारा लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं को तत्काल निराकरण कर हल किया जाएगा जिससे मामले न्यायालय में ना जा सके और लोगों को राहत मिल सके। ग्राम में सुरक्षा समिति का गठन कराया गया ग्राम अपराध रजिस्टर व हिस्ट्रीशीटर, लाइसेंस धारकों की चौकिंग की गई तथा ग्रामवासियों की समस्या सुनी गई और समस्या का समाधान किया गया। चौपाल में हेल्पलाइन नंबर 181,1090,1930,112,102,108 की जानकारी दी गई तथा सरकार द्वारा संचालित महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने सभी कोतवाली प्रभारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक गांव में चौपाल लगाकर जन समस्याओं को तत्काल हल किया जाए। इस अवसर पर उपनिरीक्षक देवेश चौधरी, ग्राम प्रधान ,बीडीसी सदस्य उपस्थित रहे।

प्रा.वि.फरीदगढ मे ग्राम प्रधान एवं सचिव के सहयोग से बच्चों को बैठने के लिए दिया गया फर्नीचर

लोकमित्र ब्यूरो

सलोन रायबरेली। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु तमाम सुविधाएं महिया कराई जा रही है। इसी कड़ी में सलोन क्षेत्र के आदर्श प्राथमिक विद्यालय फरीद गढ़ में खंड विकास अधिकारी शशि कुमार तिवारी के निर्देश पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मनीष श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान नीलम मौर्य तथा प्रधान प्रतिनिधि अरविंद मौर्य के प्रयास से विद्यालय में अध्यनरत बच्चों को बैठने के लिए 15 सेट डेस्क और बेंच उपलब्ध कराया गया। एसएमसी अध्यक्ष सविता पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र तथा अभिभावक उमानाथ, शमशेर, इंदल, अनवर लाल सहित लोगों ने बच्चों के लिए उपलब्ध कराए गए फर्नीचर की जमकर सराहना की। प्रधान प्रतिनिधि अरविंद

मौर्य ने कहा कि हमारी प्राथमिकता में अच्छे विद्यालय और पढ़ने वाले बच्चों को टिकाऊ शिक्षा उपलब्ध कराकर उनका भविष्य संवारना है जो सरकार की मंशा भी है।विद्यालय के प्रधानाध्यापक एस.एस पाण्डेय ने कहा कि विद्यालय के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों जैसी सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा दिया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की सहायक शिक्षिका एकता श्रीवास्तव एवं धन्यवाद सुमन शिक्षा मित्र के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सदस्य महादेव एवं समाजसेवी अनिल सिंह तथा विद्यालय की रसोईया किरण एवं कलावती सहित अभिभावक उपस्थित रहे।

बैसवारा पीजी कालेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए शोध पत्र

लोकमित्र ब्यूरो

लालगंज रायबरेली। बैसवारा महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ0 रमेश चंद्र यादव ने बी. एम. एल. मुंजाल विश्वविद्यालय, गुड़गांव, हरियाणा में 49 वी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा 22 दिसंबर से 24 दिसंबर, 2024 को आयोजित तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र प्रस्तुत किए। ''इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की रिसर्च कमेटी दो के अंतर्गत डॉ. यादव ने रिसेंट चेंजेज इन फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया - ए सोशियोलॉजिकल स्टडी'' विषयक शोध पत्र प्रस्तुत किया। अपने शोध

पत्र में डॉ. रमेश चंद्र यादव ने भारतीय परिवारों पर औद्योगीकरण, शहरीकरण, भूमंडलीकरण एवं नई तकनीकियों के विकास के प्रभाव का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया। इस विषय पर चर्चा ने कॉन्फ्रेंस में उपस्थित शोधकर्ताओ एवं विषय विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। इस शानदार उपलब्धि पर महाविद्यालय की प्राचार्य, प्रोफेसर शीला श्रीवास्तव एवं महाविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकों ने इस उपलब्धि पर बधाई दी एवं हर्ष भी व्यक्त किया। प्रबंधक लाल देवेंद्र बहादुर सिंह ने कहा की कॉन्फ्रेंस में महाविद्यालय के शिक्षक की सहभागिता से निश्चित रूप से देश एवं विदेश से पधारे समाजशास्त्रियों के मध्य महाविद्यालय की ही नहीं बल्कि जनपद एवं प्रदेश की पहचान को उज्जवल करता है।

पूर्व प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह के निधन से कांग्रेसियों में शोक की लहर, आयोजित की गई "श्रद्धांजलि सभा"

लोकमित्र ब्यूरो

रायबरेली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, महान अर्थशास्त्री एवं रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर डा.मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेसजनों में शोक की लहर, पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में ''श्रद्धांजलि सभा'' का आयोजन कर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेसजनों ने दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कांग्रेस कार्यवाहक जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि डा.मनमोहन सिंह जी का जाना देश की एक बड़ी क्षति है, प्रधानमंत्री के रुप में उनके कार्यकाल के 10 वर्ष देश की तरक्की और आर्थिक प्रगति के लिए हमेशा याद रखें जाएंगे।कांग्रेस कार्यवाहक जिला प्रवक्ता महताब

आलम ने श्रद्धांजलि सभा की जानकारी देते हुए बताया कि जब पूरा विश्व 2007 से 2009 की आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, तब प्रख्यात अर्थशास्त्री और देश के प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह जी की सफल नीति और मार्ग दर्शन से उस समय देश को प्रगति की राह में आगे बढ़ाया और विश्व की आर्थिक मंदी का असर देश में देखने को नहीं मिला, पूर्व प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह जी की सादगी उनकी दूरदर्शिता और देश सेवा को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा।श्रद्धांजलि देने वालों में वी.के.शुक्ला, विजयशंकर अग्निहोत्री, निर्मल शुक्ला, ओ.पी.श्रीवास्तव, रोहित सिंह, राजकुमार दीक्षित, शिवानंद मौर्या, अजीत सिंह, नौशाद हुसैन खतीब, शशिकांत पाण्डेय, अनवार खान, अजय सिंह, मनोज तिवारी, आर.के.सिंह, लक्ष्मी सिन्हा, सुधीर सिंह, आशीष द्विवेदी, सूर्य कुमार बाजपेई, सर्वोत्तम मिश्रा, मनोज मिश्रा, अनिल मिश्रा, अभय सिंह, हाफिज रियाज, अभय त्रिवेदी, मो.अशरफ खान, प्रमोद बाजपेई, अरूण यादव, ज्योति प्रसाद पासी, शम्भूशरण पाल, कल्याणचन्द्र श्रीवास्तव, रमाकांत सिंह, अखिलेश अवस्थी, दिनेश त्रिवेदी, सौरभ शुक्ला, अमित मिश्रा, महेश्वर सिंह, पोलू खान, मदन सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता व नेता गण उपस्थित रहें।

समाजसेवी भाजपा नेता दिलीप गुप्ता के निधन पर आयोजित हुई शोक सभा, लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि

लोकमित्र ब्यूरो

लालगंज रायबरेली। भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे और नाम चीन समाजसेवी होटल व्यवसायी दिलीप गुप्ता के निधन पर ब्लॉक सभागार में शोकसभा का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि मूल रूप से सेवन पुर निवासी और खीरों के होटल व्यवसाई भाजपा नेता दिलीप कुमार गुप्ता की बांदा जिले के कोरमा गांव के पास मंगलवार की रात लगभग नौ बजे चित्रकूट दर्शन करने जाते समय मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई थी। शुक्रवार को भाजपा की ओर से ब्लाक सभागार में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष शिवराम सिंह के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिसमें कार्यकर्ताओं

और समाज के लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शोक व्यक्त किया। शोक सभा में लोग दिलीप गुप्ता के बाबत विचार व्यक्त करते-करते रोने लगे।इस मौके पर भाजपा नेता सुशील शुक्ला और मंडल अध्यक्ष शिवराम सिंह ने कहा कि सरलता, सहजता, दया की सजीव मूर्ति दिलीप गुप्ता के असमय निधन से क्षेत्र को भारी क्षति पहुंची है जिसकी भरपाई करना असंभव है। संचालन कर रहे भाजपा नेता अशोक सिंह ने बताया कि दिलीप गुप्ता मंगलवार की शाम लगभग सात बजे घर से चित्रकूट के लिए कार द्वारा निकले थे। वहीं पर सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया।दिलीप गुप्ता आरएसएस के भी स्वयंसेवक थे। पार्टी के प्रति भी हमेशा तन मन धन से समर्पित रहते थे। लोकसभा के अंत में सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिलीप गुप्ता की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए परमपिता से प्रार्थना की। शोकसभा को भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह, वीरेंद्र सिंह ,कृष्ण जीवन तिवारी, भागवत किशोर सिंह, राम कुमार मिश्रा , कालिका पंडित,संतोष पासवान आदि ने भी संबोधित किया। इस शोकसभा में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह, सुशील शुक्ला, मण्डल अध्यक्ष खीरों शिवराम सिंह, सेमरी मण्डल के अध्यक्ष कालिका पण्डित, सताँव के मण्डल अध्यक्ष शिवसागर तिवारी, भाजपा नेता कृष्ण जीवन तिवारी, रामकुमार मिश्रा, सन्तोष पासवान, प्रेम पाण्डेय, भगवत किशोर, शिवराज वर्मा , आकाश , रामबाबू गुप्ताआदि सहित काफी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।

राशन कार्ड धारक करवा लें ई-केवाईसी नहीं तो राशन से होगें वंचित

लोकमित्र ब्यूरो

महराजगंज रायबरेली। राशन कार्ड में दर्ज सभी यूनिटों की ई-केवाईसी पिछले कई महीनों से चल रही है। जिसमें 65 प्रतिशत लोगों की ई-केवाईसी हो चुकी है। और इसके बाद भी करीब 35 फीसदी राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है। अब इनको 31 दिसम्बर तक का समय दिया गया है। जितनी यूनिटों की ई-केवाईसी नहीं होगी, उनका राशन मिलना जनवरी से बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि, पूर्ति निरीक्षक महराजगंज एवं शिवगढ़ अविनाश चंद्र पांडेय और अमित सिंह यादव ने बताया कि, राशन कार्ड धारक कार्ड में दर्ज सभी यूनिटों की ई-केवाईसी अपनी कोटे की दुकान

पर जाकर करा लें। राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों (यूनिट) की ई-केवाईसी कराने का निर्देश शासन ने दिया। महराजगंज में पिछले कई महीने से ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। जिसमें लगभग 65 प्रतिशत ई-केवाईसी हो चुकी है और इसके बाद भी अब तक राशन कार्ड में दर्ज करीब 35 प्रतिशत यूनिटों की ई-केवाईसी अब तक नहीं कराई गई है। जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, उनका राशन मिलना जनवरी महीने से बंद हो जाएगा। पूर्ति निरीक्षक अविनाश कुमार पांडेय और अमित सिंह यादव ने बताया कि, राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी की जा रही है। कोटे की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि, 31 दिसम्बर तक का समय दिया गया है। इसके बाद कार्ड में दर्ज जितनी यूनिट की ई-केवाईसी नहीं होगी, उनका राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए समय से सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करा लें। आपको यह भी बता दें कि, राशन कार्ड में अगर कोई फर्जी यूनिट जुड़ी है तो ई-केवाईसी के माध्यम से उसको ट्रेस कर हटा दिया जाएगा।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एनएसपीएस त्रिपुला में दीं गई श्रद्धांजलि

लोकमित्र ब्यूरो

रायबरेली। न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुला में प्रधानाचार्य शिवलखन प्रजापति ने शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को नमन करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन कर श्रद्धांजलि दी।

प्रधानाचार्य ने बच्चों को बताया कि डॉ मनमोहन सिंह हमारे देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हे भारतवर्ष की करेंसी पर हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त था। पं. जवाहर लाल नेहरू के बाद वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्हे पांच वर्षो का कार्यकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद लगातार दूसरी बार भी पदभार ग्रहण करने का मौका मिला, वह भारत के वित्तमंत्री भी रहे और इस कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गये आर्थिक सुधारों के लिए उन्हें हमेसा याद किया जाएगा। डॉ साहब भारतीय रिजर्व बैंक के 15 वें गवर्नर भी रहे, इस दौरान उनकी पहचान एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में रही। पद्म विभूषण से सम्मानित मनमोहन सिंह जी का पूरा जीवन देश के लिए समर्पित रहा है। राष्ट्र के विकास में उनके अहम् योगदान के के लिए भारत सरकार ने उनके निधन पर सात दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस अवसर पर उप-प्रधानाचार्य मो. फैजान खान, पिंकी जायसवाल, राकेश अवस्थी, रामू, शेलेन्द्र, बी एस त्रिवेदी, शशी कनौजिया, आशुतोष त्रिवेदी, आदित्य सोलंकी,अजयराज सिंह, सुभी सिंह , धर्मेन्द्र शुक्ला, सहित समस्त शिक्षक/शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

राइजिंग चाइल्ड स्कूल में वीर बाल दिवस मनाया गया

लोकमित्र ब्यूरो

रायबरेली। शहर के राइजिंग चाइल्ड स्कूल में वीर बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुरु सिंह सभा के पूर्व धार्मिक मंत्री सरदार सुरेन्द्र सिंह मोंगा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

विद्यालय के प्रबंधक अरविन्द श्रीवास्तव, एडवोकेट ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया तथा प्रधानाचार्या सीमा श्रीवास्तव ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अत्याचार करने वालों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए चाहे वह जिस वर्ग का हो। मुख्य अतिथि सरदार सुरेन्द्र सिंह मोंगा ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु गोबिंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके परिवार की शहादत को सभी श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। वीर

बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, उन्होंने कहा, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सिखों के दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और उनके छोटे भाई बाबा फतेह सिंह की बहादुरी को सम्मानित करना है। यह निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है जो अत्यंत सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सरदार त्रिलोचन सिंह छाबड़ा ने कहा कि निरंकुश शासक के सामने गुरू गोविंद सिंह के साहिबजादों ने झुकने से मना कर दिया और साहस के साथ अत्याचारी का सामना किया, जो सभी के लिए गर्व का विषय होना चाहिए।

सेवादल ने मनाई सुनील श्रीवास्तव की पुण्यतिथि

लोकमित्र ब्यूरो

रायबरेली। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह की शोक व पुष्पांजलि सभा के उपरांत जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा स्वर्गीय सुनील कुमार श्रीवास्तव की सेवा दल कार्यालय में पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जिला मुख्य संगठक कांग्रेस कल्याण श्रीवास्तव ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा की स्वर्गीय सुनील कांग्रेस के जुझारू और ईमानदार कार्यकर्ता रहे, अखिल भारतीय सेवा दल कोऑर्डिनेटर एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के इंचार्ज रहे इसके पूर्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अतिरिक्त मुख्य संगठक के पद पर कार्य किया साथ ही साथ सांसद कार्यालय रायबरेली की जिम्मेदारी की निभाते रहे। पुष्पांजलि के समय जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज तिवारी, विजय शंकर अग्निहोत्री, फ्हद हसन, अनीता श्रीवास, राम सुमेर यादव ,अभय त्रिवेदी ,राजकुमार दीक्षित ,आशीष द्विवेदी, रोहित सिंह, मनोज त्रिवेदी, अभय सिंह, मीसम नकवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

डॉ0 अम्बेडकर का अपमान संसद में किया जाना निन्दनीय है

अयोध्या । बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी का अमित शाह केन्द्रीय गृहमंत्री ने न केवल भारत के महानतम नेताओं में से एक अद्वितीय विरासत का अपमान किया है और जो उन्हें संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रेरणता के रूप में मानते व पूजते हैं एवं सवैधानिक पदाधिकारी द्वारा इस तरह के बयान बेहद आपत्तिजनक एवं अपमानजनक और हमारे गणमंत्र की नींव को कमजोर करने का एक खतरनाक प्रयास डॉ0 अम्बेडकर समानता न्याय और संविधान में निहित लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के प्रतीक हैं उनके नाम को कलंकित करने का कोई भी प्रयास इन मूल्यों का अपमान है और हमारे देश की सामाजिक से द्भाव के लिये ठीक नहीं है। डॉ0 अम्बेडकर का अपमान संसद में किया जाना निन्दनीय है हम और हमारी पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं और पाटी पदाधिकारी एवं कार्यकता उक्त सम्बोधित बात पर काफी नाराज हैं। अमित शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी से समाज में काफी रोष पैदा हो रहा है यदि अमित शाह द्वारा बाबा साहब का अपमान नहीं किया गया तो उन्हें चाहिये कि वह सार्वजनिक रूप से डॉ0 अम्बेडकर अनुयायियों के समक्ष अपनी बात रखें जिससे यह भी पता हो कि अमित शाह की टिप्पणी गलत है अथवा अपमान करने का कोई भी इरादा नहीं था। जिस प्रकार देश में विपक्षी पार्टी कांग्रेस और सपा जो आज डॉ0 अम्बेडकर के नाम राजनीति कर रही है और दिखा रहीं है कि वह डॉ0 अम्बेडकर का कितना सम्मान करती हैं जबकि सपा-कांग्रेस के कार्यकाल में बाबा साहब के जीवित होंने पर भी कांग्रेस ने सदैव अपमान करती रही है वहीं हाल सपा के शासनकाल में भी रहा है।इस मौके पर मस्तराम प्रदेश संगठन महामंत्री, दिनेश कोरी जिला संगठन मंत्री, सुरेश कुमार कोरी, संदीप कोरी जिला उपाध्यक्ष, मिथिलेश प्रताप करी, मालती गुड़िया निशा सरिता कमलेश अनीता राम कुमारी तारावती आदि लोग मौजूद रहे।

भू माफिया के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का हल्ला बोल

लोकमित्र ब्यूरो

महराजगंज रायबरेली। भारतीय किसान यूनियन आराजनैतिक ब्लॉक इकाई महराजगंज और शिवगढ़ ईकाई के पदाधिकारियों द्वारा एसडीम महराजगंज को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम के मौजूद न होने पर नायब तहसीलदार सफीकुद्दीन को सौंपा।

दिए गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने भू माफ्याओं द्वारा क्षेत्र में सरकारी सुरक्षित जमीनों पर लगातार अवैध कब्जे का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया और बताया की भूमाफ्याओं द्वारा शिवगढ़ और महराजगंज क्षेत्र में तालाब और चारागाह सहित आदि सुरक्षित जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, साथ ही कब्जा हो चुकी सुरक्षित जमीनों से कब्जा हटवाया जाए। जैसी आमजनों से जुड़ी समस्याओं को रखा।

इस मौके पर दीपू

चौधरी, जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह ब्लॉक अध्यक्ष महराजगंज लवकुश महिला ब्लॉक अध्यक्ष नसरीन और महामंत्री मंजू आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

युवक की हत्या में चार नामजद एवं तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मानधाता प्रतापगढ़। बुधवार को शाम युवक मो समीम की हत्या में चार नामजद सहित तीन अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस टीमें बदमाशों की तलाश में दविश दे रही हैं। आज दोपहर बाद में शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचने पर कोहराम मच गया।शव घर पहुचने पर गांव तथा पडोस के लोगों की भीड इकट्ठा हो गई ।लोगों में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। लोगों का कहना है कि बीस साल पहले पिता की हत्या का बेटे ने बदला लिया। मृतक खुद भी बदमाश प्रवृति का था। मानधाता थाने में कई मुकदमें दर्ज है ।जो अभी तक न्यायालय में विचाराधीन हैं। कोई मरने पर अफसोस जता रहा है। जितने मुह उतनी बातें कर रहा है।मृतक का अंतिम संस्कार शाम छह बजे गांव के ही कबरिस्तान किया जाएगा।मृतक के घर पर जेठवारा, मानधाता, देल्हूपुर की पुलिस तैनात रही।एस ओ मानधाता सुभाष यादव ने बताया कि मृतक के मामा साबित अली की तहरीर पर चार नामजद सहित तीन अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है ।जल्द से जल्द मुल्जिमों को गिरफ्तार करके कार्यवाई की जाएगी।

जमीनी विवाद में मारपीट, छह लोग घायल

कुंडा प्रतापगढ़। हथिगवां थाना क्षेत्र के मिश्र दयालपुर गांव में जमीन को लेकर दो पक्ष में विवाद हुआ तो एक पक्ष हमलावर हो गया। इससे मारपीट में 64 वर्षीय हरिश्चन्द सरोज, उसकी 62 वर्षीय पत्नी लल्ली देवी, 18 वर्षीय पुत्री शालू 23 वर्षीय बेटा पदुम सरोज, 21 वर्षीय बेटा प्रदीप सरोज घायल हो गया। जबकि दूसरे पक्ष से कल्लू सरोज की 18 वर्षीय बेटी पूनम सरोज घायल हो गई। परिजनों ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया और मामले को लेकर दोनों पक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच करके कार्रवाई की बात कही है।

राजा भइया से मिला पीड़ित, कहा कि जांच के नाम पर पुलिस कर रही परेशान

कुंडा प्रतापगढ़। राज भवन बेंती में आयोजित जनता दरबार में शुक्रवार को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया से मानिकपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव निवासी शिवलाल पटेल ने मिलकर बताया कि मानिकपुर पुलिस जांच के नाम पर परेशान कर रही है। 10 जुलाई को उसकी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर खेत से घर लौट रही थी। गांव के समीप पानी भरे गड्ढे के पास पहुंचने पर पैर फिसला तो डूबने से तीनों की मौत हो गई थी। पत्नी के मायकेवालों ने न्यायालय के जरिए दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामले की विवेचना सीओ कुंडा कर रहे हैं। पीड़ित ने मामले में गांव के 13 लोगों की गवाही का शपथपत्र भी दिया है। इसके बावजूद पुलिस परेशान कर रही है। राजा भइया ने पीड़ित को न्याय का भरोसा दिलाया है।

दुष्कर्म का आरोपी धराया, गया जेल

लालगंज, प्रतापगढ़। लीलापुर पुलिस द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को शुक्रवार को दबोचकर जेल भेज दिया गया। थाने के दरोगा अमरेश यादव फोर्स के साथ गश्त पर निकले थे। खीरी जिले के खरवहिया गांव का निवासी दुष्कर्म के मुकदमे मे वांछित आरोपी आनन्द कुमार के पुत्र अंकित कुमार पुलिस को हण्डौर चौराहे पर दिख गया। पुलिस ने उसे हिरासत मे ले लिया। दोपहर बाद वांछित आरोपी को जेल भेज दिया गया।

सड़क हादसे में युवक जख्मी, हालत गंभीर

कुंडा प्रतापगढ़। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के खगनिया भदसिव कुसुवापुर गांव निवासी माता बदल पटेल का 45 वर्षीय बेटा पारस नाथ पटेल बाइक से कहीं जा रहा था। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, अनियंत्रित वाहन की टक्कर से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायल को सीएचसी भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद भी उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया।

मार्ग दुर्घटना में फौजी की मौत, कोहराम

कटरागुलाबसिंह प्रतापगढ़। नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह के वार्ड सरायदेव राय के खाड़े का पुरवा निवासी फौजी अभय प्रताप पटेल की दुर्मौघटना में मौत हो गई। आज दाह संस्कार मुक्ति धाम श्रृंगेरपुर में किया गया।जानकारी के अनुसार वार्ड सरायदेवराय के खाड़े का पुरवा के रामबहादुर पटेल राज मिस्त्री का काम करते हैं। उनके दो पुत्र तीन पुत्री है, दोनों पुत्र आर्मी में नौकरी करते है। बड़े पुत्र अजय प्रताप पटेल की शादी तथा तीनों पुत्री की शादी हुई है लेकिन मृतक अभय प्रताप पटेल 25 की शादी नहीं हुई थी। फौज में 5 वर्ष से नौकरी कर रहे थे। 22 दिसम्बर दिन रविवार की शाम बाइक से अपने बहन के यहां दनियापुर थाना बाघराय जा रहे थे। दनियापुर पहुंचने से पहले भीटारा कमासिन रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। तुरंत परिजनो ने प्राची हॉस्पिटल फाफामऊ में भर्ती किया ।दूसरे दिन आर्मी हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती हुए। आज सुबह अभय प्रताप पटेल की आर्मी हॉस्पिटल लखनऊ में मृत्यु हो गई। शव घर आया तथा आज ही आर्मी फौज के मौजूदगी में दाह संस्कार मुक्ति धाम श्रृंगेरपुर में हो गया। मौके पर विधायक , नगर पंचायत अध्यक्ष,प्रधान , बी डी सी ,आदि नेता ,पुलिस दल ,गणमान्य लोग सैकनो लोग मौजूद रहे।

भू माफिया के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का हल्ला बोल

महराजगंज रायबरेली। भारतीय किसान यूनियन आराजनैतिक ब्लॉक इकाई महराजगंज और शिवगढ़ ईकाई के पदाधिकारियों द्वारा एसडीम महराजगंज को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम के मौजूद न होने पर नायब तहसीलदार सफीकुद्दीन को सौंपा।

दिए गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने भू माफ़ियाओं द्वारा क्षेत्र में सरकारी सुरक्षित जमीनों पर लगातार अवैध कब्जे का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया और बताया की भूमाफ़ियाओं द्वारा शिवगढ़ और महराजगंज क्षेत्र में तालाब और चारागाह सहित आदि सुरक्षित जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, साथ ही कब्जा हो चुकी सुरक्षित जमीनों से कब्जा हटवाया जाए। जैसी आमजनों से जुड़ी समस्याओं को रखा।

इस मौके पर दीपू चौधरी, जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह ब्लॉक अध्यक्ष महराजगंज लवकुश महिला ब्लॉक अध्यक्ष नसरीन और महामंत्री मंजू आदि मौजूद रहे।

अटल जी के कृतियों को अपने जीवन में आत्मसात करना जरूरी- सीमा द्विवेदी

▸▸ अटल जी सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे

लोकमित्र ब्यूरो

पट्टी, प्रतापगढ़। पट्टी तहसील क्षेत्र के पृथ्वीगंज बाजार मे स्थित भगवती प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज एवं बीपी शिशु मंदिर के प्रांगण में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई जयंती समारोह एवं अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया।जिसमें मुख्य अतिथि राज्य सभा सांसद सीमा द्विवेदी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की नीतियों एवं कृतियां का विस्तृत रूप से वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में अटल जी के कृतियों को अपने जीवन में आत्मसात करना जरूरी है। अटल जी ने समाज को एक नई दिशा देते हुए नैतिक मूल्यों का आदर करते हुए कभी नैतिकता से समझौता नहीं किया।अटल जी सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे राज्यसभा सांसद ने विद्यालय में उनके निधि द्वारा स्थापित आरो प्लांट का भी उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि एमएलसी सुरेंद्र कुमार चौधरी ने दुनिया में आए हो तो ऐसा काम कर दो या तो लिखकर या करके जिसे दुनिया याद करें यह काम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने कर दिखाया।एमएलसी चौधरी ने विद्यालय भवन के लिए 20 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया तथा विद्यालय भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। पूर्व प्रमुख गौरा पूर्वांशु ओझा श्यामू ने अपने उद्बोधन में अटल जी के कृतों का विस्तृत रूप से वर्णन किया तथा उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों पर चलने वाले अटल बिहारी वाजपेई जैसा कोई नेता नहीं था तथा भविष्य में होना मुश्किल है। उन्होंने विद्यालय के स्थापना करने वाले मेरे बाबा रमाशंकर ओझा का भी आज जन्मदिन है। उनका क्षेत्र के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा के प्रति सोच और योगदान सराहनीय था। इसीक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवाकांत ओझा पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अध्यक्ष राधाकांत ने भी अपना विचार व्यक्त किया तथा राजकीय विद्यालय प्रतापगढ़ के प्राचार्य विंध्याचल सिंह ने भी संबोधित किया सभा की अध्यक्षता करते हुए गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला एडवोकेट ने अटल जी के राजनीतिक एवं सामाजिक तथा साहित्यिक योगदान की विस्तृत चर्चा की तथा गौ रक्षा के बारे में विस्तृत रूप से बताया आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया इसके पूर्व विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया अतिथियों द्वारा विद्यालय के बच्चों को प्रशास्त्र पत्र प्रदान किया गया तथा विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर मनीष ओझा द्वारा अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन रामबाबू ने किया उक्त अवसर पर इंटर का कॉलेज की प्रधानाचार्य नंदिनी नायर शिशु मंदिर के प्रधानाध्यापक गणेश सिंह विद्यालय के कोषाध्यक्ष राकेश कुमार, हकीम अंसारी, छेदीलाल सोनी रंजीत जायसवाल सेवा नाथ, संतोष ओझा, सुभाष ओझा, अखिलेश ओझा, राजेश सिंह राधेश्याम, ब्लॉक प्रमुख देवसरा कमलाकांत यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामकोला, राम आश्रय शुक्ल सहित हजारों की संख्या में शिक्षक अध्यापक एवं क्षेत्रीय लोगों तथा अभिभावक उपस्थित रहे ।

विक्टर कार्निवाल के तहत आर्ट एवं क्राफ्ट की प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी आयोजित

▸▸ खेलकूद एवं अन्य प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

लोकमित्र ब्यूरो

प्रतापगढ़। शहर के प्रभात एकेडमी स्कूल में विन्टर कार्निवाल के अंतर्गत आज इन्डोर स्पोटर्स मीट तथा आर्ट एवं क्राफ्ट की प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसमें खेलकूद एवं अन्य प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन छात्रों ने विभिन्न इन्डोर खेलों में शानदार प्रदर्शन करके अपना दमखम दिखाया। आज की प्रतियोगिताओं के साथ प्रदर्शनी अवलोकन के पूर्व मुख्य अतिथि विधायक सदर राजेंद्र कुमार मौर्य तथा जनपद कारागार के डिप्टी जेलर की पत्नी डा. हुमा खान, विद्यालय प्रबंधक व प्रधानाचार्य प्रभात शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया और खेलकूद तथा रचनात्मक वृद्धि की आवश्यकता से विद्यार्थियों को अवगत कराया। विन्टर कार्निवाल में सबसे पहले शतरंज व कैरम के मैच आयोजित किए गए, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला व कौशाम्बी हाउस के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। पठन-पाठन के मध्य आयोजित खेल-सप्ताह में विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में आदित्य सिंह, गेम्स शिक्षक के निर्देशन में आयोजित हुई। मुख्य अतिथि सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य, विशिष्ट अतिथि डॉ. हुमा खान ने प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर आए प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर उनका सम्मान किया। विधायक सदर ने बच्चों की कृतियों को सराहा और उन्हें जीवन में खेलकूद के साथ विविध क्षेत्रों में अपने भविष्य को उज्जवल करने की कामना की। डॉ. हुमा खान ने भी कृतियों की प्रशंसा की।इस अवसर पर प्रभात अकेडमी, अष्टभुजा नगर के शिक्षक पूजा, अंजू, पूनम, एकता, मधु, अंकिता, सृष्टि, आस्था, तनुजा, सुनीता, सारा, ज़ेबा, अमरजीत, यू एस मिश्रा, किशा, हरकेश, आशीष, इरफान, रीतेश, खुशबू, आराध्या, अमरजीत, आशीष, सुनीता राम सहित विद्यार्थी व बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे।

डा मनमोहन सिंह जी स्वतंत्र भारत की आर्थिक क्रांति के जननायक थे-ओम प्रकाश पांडे

लोकमित्र ब्यूरो

पट्टी, प्रतापगढ़।पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का कल दिनांक कल दिनांक 26 दिसंबर को 9ः51 पर एम्स में अंतिम सांस लिया। धर्माचार्य ओम प्रकाश पांडे अनिरुद्ध रामानुदास ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा है कि आपने आर्थिक क्रांति को जन्म दिया। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में आपका विशेष योगदान रहा। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा ।

आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर के साथ-साथ चलते थे। आपका सबसे बड़ा गुण था मौन होकर सुनना। विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे।मनुष्य यदि यही सीख ले ले की उसे सुनना चाहिए और मौन होकर उस पर विचार करना चाहिए।शत शत नमन विनम्र श्रद्धांजलि।

आपको 1 सितंबर 2005 दिन बृहस्पतिवार को राज भवन उत्तर प्रदेश में मेरे द्वारा जनपद के विकास के संबंध में ज्ञापन प्रदान किया गया था। साथ में राजकुमारी रत्ना सिंह, ज्ञान प्रकाश शुक्ला कौशलेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट और पंडित श्याम किशोर शुक्ला जी उपस्थित थे।

प्रा.वि.फरीदगढ मे ग्राम प्रधान एवं सचिव के सहयोग से बच्चों को बैठने के लिए दिया गया फर्नीचर

लोकमित्र ब्यूरो

सलोन रायबरेली। प्रदेश सरकार द्वारा लगातार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु तमाम सुविधाएं महिया कराई जा रही है।

इसी कड़ी में सलोन क्षेत्र के आदर्श प्राथमिक विद्यालय फरीद गढ़ में खंड विकास अधिकारी शशि कुमार तिवारी के निर्देश पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मनीष श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान नीलम मौर्य तथा प्रधान प्रतिनिधि अरविंद मौर्य के प्रयास से विद्यालय में अध्यनरत बच्चों को बैठने के लिए 15 सेट डेस्क और बेंच उपलब्ध कराया गया। एसएमसी अध्यक्ष सविता पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र तथा अभिभावक उमानाथ, शमशेर, इंदल, अनवर लाल सहित लोगों ने बच्चों के लिए उपलब्ध कराए गए फर्नीचर की जमकर सराहना की। प्रधान प्रतिनिधि अरविंद

मौर्य ने कहा कि हमारी प्राथमिकता में अच्छे विद्यालय और पढ़ने वाले बच्चों को टिकाऊ शिक्षा उपलब्ध कराकर उनका भविष्य संवारना है जो सरकार की मंशा भी है।विद्यालय के प्रधानाध्यापक एस.एस पाण्डेय ने कहा कि विद्यालय के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों जैसी सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा दिया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की सहायक शिक्षिका एकता श्रीवास्तव एवं धन्यवाद सुमन शिक्षा मित्र के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सदस्य महादेव एवं समाजसेवी अनिल सिंह तथा विद्यालय की रसोईया किरण एवं कलावती सहित अभिभावक उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगायी गई ग्राम चौपाल

▸▸ महिलाओं और पुरूषों को किया गया जागरूक

लोकमित्र ब्यूरो

रायबरेली। ग्रामीणों को उनके ही दरवाजे पर समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक जीतेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा ग्राम अतरथरिया थाना सलोन जनपद रायबरेली में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में उपस्थित ग्राम प्रधान बीडीसी सदस्य व हल्का प्रभारी उपनिरीक्षक देवेश चौधरी महिला उपनिरीक्षक वर्षा रानी के द्वारा ग्राम की महिलाओं और पुरूषों को जागरूक किया गया। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जन समस्याओं को हल करने के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है इस चौपाल के द्वारा लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं को तत्काल निराकरण कर हल किया जाएगा जिससे मामले न्यायालय में ना जा सके और लोगों को राहत मिल सके। ग्राम में सुरक्षा समिति का गठन कराया गया ग्राम अपराध रजिस्टर व हिस्ट्रीशीटर, लाइसेंस धारकों की चौकिंग की गई तथा ग्रामवासियों की समस्या सुनी गई और समस्या का समाधान किया गया। चौपाल में हेल्पलाइन नंबर 181,1090,1930,112,102,108 की जानकारी दी गई तथा सरकार द्वारा संचालित महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने सभी कोतवाली प्रभारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक गांव में चौपाल लगाकर जन समस्याओं को तत्काल हल किया जाए। इस अवसर पर उपनिरीक्षक देवेश चौधरी, ग्राम प्रधान ,बीडीसी सदस्य उपस्थित रहे।

(फार्म न0 2 ए)
न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय रानीगंज प्रतापगढ़
वाद सं0 374/2024
अन्तर्गत आर्डर 5 नियम 20जा0 दी0
नाम फरीकेन संजीव कुमार बनाम बचईराम आदि
बनाम
बचईराम आयु करीब 70 वर्ष सुत रामलाल निवासी ग्राम कूराडीह हरिहरगंज तह0 रानीगंज जिला प्रतापगढ़ 2. गांव सभा कूराडीह द्वारा ग्राम प्रधान ग्राम सभा कूराडीह पर0 पट्टी रानीगंज जिला प्रतापगढ़
तारीख पेशी 16.01.2025

यह कि उपरोक्त वाद/प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में आपके विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। एततदवरा आपको इस जरिये सम्मन नोटिस आदेशित किया जाता है कि दिनांक 16.01.2025 को समय 10.00 बजे स्वयं या मार्फत अपने अधिवक्ता इस न्यायालय में उपस्थित होकर जबाबदेही दावा करें। ऐसा न करने पर उक्त वाद/आवेदन-पत्र एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा और अवधारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर आज दिनांक माह सन् को जारी किया गया ।

न्यायालय की आज्ञा से
मुन्सरिम

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र धर्मेन्द्र कुमार यादव , तथा धर्मराज यादव व बहू विमलेश यादव पत्नी धर्मेन्द्र कुमार यादव और कुसुम पत्नी धर्मराज यादव मेरे कहने सुनने में नहीं है मुझे अपमानित प्रताड़ित करते हैं मेरा इन लोगों से कोई वास्ता सरोकार नहीं है ऐसी दशा में मैने अपने पुत्र धर्मेन्द्र कुमार यादव,और धर्मराज यादव व बहू विमलेश यादव पत्नी धर्मेन्द्र कुमार तथा कुसुम यादव पत्नी धर्मराज को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है।

राम लखन यादव
पुत्र स्व0 राम दास यादव
निवासी ग्राम राजमती पुर
,पर0अठेहा तह 0 लालगंज थाना
सांगीपुर,जिला प्रतापगढ़।

बैसवारा पीजी कालेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए शोध पत्र

लोकमित्र ब्यूरो

लालगंज रायबरेली। बैसवारा महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ0 रमेश चंद्र यादव ने बी. एम. एल. मुंजाल विश्वविद्यालय, गुड़गांव, हरियाणा में 49 वी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा 22 दिसंबर से 24 दिसंबर, 2024 को आयोजित तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र प्रस्तुत किए। ''इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की रिसर्च कमेटी दो के अंतर्गत डॉ. यादव ने रिसेंट चेंजेज इन फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया - ए सोशियोलॉजिकल स्टडी'' विषयक शोध पत्र प्रस्तुत किया। अपने शोध पत्र में डॉ. रमेश चंद्र यादव ने भारतीय परिवारों पर औद्योगीकरण, शहरीकरण, भूमंडलीकरण एवं नई तकनीकियों के विकास के प्रभाव का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया। इस विषय पर चर्चा ने कॉन्फ्रेंस में उपस्थित शोधकर्ताओ एवं विषय विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। इस शानदार उपलब्धि पर महाविद्यालय की प्राचार्य, प्रोफेसर शीला श्रीवास्तव एवं महाविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकों ने इस

उपलब्धि पर बधाई दी एवं हर्ष भी व्यक्त किया। प्रबंधक लाल देवेंद्र बहादुर सिंह ने कहा की कॉन्फ्रेंस में महाविद्यालय के शिक्षक की सहभागिता से निश्चित रूप से देश एवं विदेश से पधारे समाजशास्त्रियों के मध्य महाविद्यालय की ही नहीं बल्कि जनपद एवं प्रदेश की पहचान को उज्जवल करता है।

राइजिंग चाइल्ड स्कूल में वीर बाल दिवस मनाया गया

लोकमित्र ब्यूरो

रायबरेली। शहर के राइजिंग चाइल्ड स्कूल में वीर बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुरु सिंह सभा के पूर्व धार्मिक मंत्री सरदार सुरेन्द्र सिंह मोंगा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

विद्यालय के प्रबंधक अरविन्द श्रीवास्तव, एडवोकेट ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया तथा प्रधानाचार्या सीमा श्रीवास्तव ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अत्याचार करने वालों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए चाहे वह जिस वर्ग का हो। मुख्य अतिथि सरदार सुरेन्द्र सिंह मोंगा ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु गोबिंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके परिवार की शहादत को सभी श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। वीर

बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, उन्होंने कहा, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सिखों के दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और उनके छोटे भाई बाबा फतेह सिंह की बहादुरी को सम्मानित करना है। यह निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है जो अत्यंत सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सरदार त्रिलोचन सिंह छाबड़ा ने कहा कि निरंकुश शासक के सामने गुरू गोविंद सिंह के साहिबजादों ने झुकने से मना कर दिया और साहस के साथ अत्याचारी का सामना किया, जो सभी के लिए गर्व का विषय होना चाहिए।

महाकुम्भ में नेत्र परीक्षण का बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड

5 जनवरी को होगा नेत्र कुम्भ का शुभारंभ,नागवासुकि मंदिर के पास लगभग 10 एकड़ में बनकर तैयार हुआ नेत्र कुम्भ

➪5 लाख से ज्यादा मरीजों की जांच का लक्ष्य, 3 लाख से अधिक चश्मों का होगा वितरण

➪बनाए गए 11 जर्मन हैंगर, श्रद्धालुओं की सुविधा का रखा जा रहा विशेष ख्याल

लोकमित्र ब्यूरो

महाकुम्भ नगर। महाकुम्भ 2025 कई मायनों में इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है। मेला प्राधिकरण की ओर से इस बार विभिन्न श्रेणियों में 4 अलग-अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी की गई है, जबकि किसी एक आयोजन में एक साथ सर्वाधिक संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही नेत्र परीक्षण और चश्मा वितरण का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित होने जा रहा है। यह पहला अवसर होगा जब किसी आयोजन में एक साथ 5 लाख लोगों के नेत्र परीक्षण किए जाएंगे और तीन लाख चश्मे वितरित किए जाएंगे। इसके लिए नागवासुकि के पास सेक्टर 5 में भव्य नेत्रकुम्भ बनकर तैयार है। करीब 10 एकड़ क्षेत्र में स्थापित नेत्र कुम्भ 2025 का शुभारंभ 5 जनवरी को किया जाएगा। इसके बाद यहां आने वाले श्रद्धालु निशुल्क अपनी आंखों की जांच करा सकेंगे और आवश्यकता होने पर अपने घर लौटकर करीब के अस्पताल में उसका ऑपरेशन भी करा सकेंगे।

आयोजन समिति के सदस्य डॉ. रंजन बाजपेई ने बताया कि 5 जनवरी को नेत्र कुम्भ का शुभारंभ किया जाएगा। उद्घाटन मुख्य अतिथि जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि महाराज के कर कमलों से होगा, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में गौरांग प्रभु जी महाराज एवं मुख्य वक्ता के रूप में संघ के सह कार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल रहेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले नेत्र कुम्भ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के नेत्र परीक्षण किए गए थे। इस बार इसकी संख्या को दोगुना कर दिया गया है। इस बार तीन लाख चश्मा और 5 लाख ओपीडी का लक्ष्य है। एक दिन में 10 हजार ओपीडी का लक्ष्य है। इसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इस बार का नेत्र कुम्भ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। पिछली बार इसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई थी और इस बार इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी, जो आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने कहा कि पूरे भारत वर्ष से हमने 240 बड़े अस्पतालों के साथ टाईअप किया है। पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देने के लिए यहां आ रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि लोगों को पुनः ज्योति मिल सके। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स के रहने और उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जो जिस प्रांत से आया है, उसको उसके प्रांत का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

इच्छुक लोग नेत्र दान भी कर सकेंगे

प्रयागराज। आयोजन समिति में शामिल दिल्ली के सुनील कुमार सिंह ने बताया कि नेत्र कुम्भ में नेत्र दान करने वालों के लिए भी एक शिविर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रयागराज में सम्राट हर्षवर्धन जी अपना सर्वस्व दान कर देते थे, उसी से प्रेरित होकर पूरे प्रदेश और देश से दानवीर यहां आते हैं। हमारे यहां अंधता के लगभग डेढ़ करोड़ लोग हैं। इनमें से तमाम लोग ऐसे हैं, जिनके कार्निया खराब हो गए हैं। उनको कार्निया की आवश्यकता है। हमसे बहुत छोटा देश श्रीलंका पूरी दुनिया को कार्निया देता है। हमने संकल्प लिया है कि हम यहां भी नेत्रदान का एक शिविर लगाएंगे और उसमें जो लोग अपने नेत्र दान करने की इच्छा रखते हैं वो यहां नेत्र दान कर लोगों को ज्योति दे सकेंगे। पिछली बार 11 हजार से अधिक लोगों ने नेत्र कुम्भ में नेत्रदान किया था।

डॉक्टर्स के लिए चार बेड की 40 डॉरमेट्री बनाई गई हैं, जबकि महिला डॉक्टर्स के लिए भी अलग से डॉरमेट्री की व्यवस्था है। इन डॉरमेट्रीज में कुल 140 डॉक्टर्स रहेंगे। इसके अतिरिक्त तीर्थयात्रियों के लिए 16-16 बेड की डॉरमेट्री बनाई गई है, जबकि कार्यकर्ताओं के लिए 8-8 बेड की डॉरमेट्री निर्मित की गई है।

आयोजन में क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे राजेश कुमार सिंह ने बताया कि करीब 10 एकड़ में नेत्र कुम्भ निर्मित हुआ है। इसमें कुल 11 हैंगर बनाए गए हैं। पिछली बार सिर्फ 5 हैंगर थे। यहां सुव्यवस्थित तरीके से नेत्र जांच की जाएगी। एक बड़ा हैंगर बनाया गया है, जहां सभी श्रद्धालु जमा होंगे। इसके बाद उन्हें दो अलग-अलग ओपीडी चैंबर्स में भेजा जाएगा, जहां वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉक्टर्स को दिखा पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के पीछे डॉक्टर्स चैंबर बनाए गए हैं, जिसमें 4-4 डॉक्टर्स और 10-10 ऑप्टोमेस्ट्रिस्ट रहेंगे। यहीं पर एक मेडिसिन काउंटर और एक रेफरल काउंटर रहेगा। यहां से चश्मे के लिए रेफर किया जाएगा। चश्मा का अलग ब्लॉक बनाया गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी इंश्योर किया गया है कि लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी के चश्मे प्राप्त हो सकें। इस बार हमने चश्मा वितरण के लिए सिर्फ एक ही वेंडर को हायर किया है और उसे अच्छे से अच्छी क्वालिटी का चश्मा देने की रिक्वेस्ट की है। ये वेंडर लगभग सभी बड़ी कंपनियों को अपने चश्मे प्रोवाइड कराता है।

सावधानः डगामार वाहन में स्कूली बच्चे है, जरा देख कर चले

उगाही करने वाले संस्थान मोटी रकम कमाने से नहीं आ रहे बाज

लेड़ियारी (प्रयागराज) शिक्षा के नाम पर उगाही करने वाले संस्थान मोटी रकम कमाने से बाज नहीं आ रहे हैं । समयावधि समाप्त होने वाले वाहनों को स्कूलों में संबद्ध कर जहां बच्चों ढोए जा रहे हैं । वहीं नियमों के विरुद्ध धड़ल्ले से स्कूली वाहन कमाई कर रहे हैं । वहीं इन वाहनों के चालक कहते हैं कि जरा देख कर चले । ऐसे में अभिभावकों को जेब ढीली करनी पड़ रही है । हैरानी इस बात यह है कि जिम्मेदार भी कोई कार्यवाई नहीं करते हैं लेड़ियारी, खीरी, देईबांध, रतेवरा आदि क्षेत्र में दर्जनभर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालित है । जहां बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए सुविधा के नाम पर डगामार वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है । बताया जाता है कि ये वाहन स्कूली बच्चों की स्कूल और घर छोड़ने के बाद सवारी भी ढोते है । लेकिन ज्यादातर वाहन अनफिट है । वैसे तो विभाग ने नौनिहालों की सुरक्षा के लिए तमाम नियम और कानून बनाए गए हैं । लेकिन कुछ स्कूल नियमों को ताक पर रखकर अनफिट वाहनों को अपने स्कूल में लगाकर ट्रैवेल के नाम पर अभिभावकों से वसूली कर रहे हैं । एक तरफ विभाग की उदासीनता के चलते स्कूल संचालकों के हौसले बुलंद हैं । तो वहीं संचालक अभिभावकों से ट्रैवल्स के नाम पर वसूली कर रहे हैं । हालांकि क्षेत्र के कुछ स्कूलों में नए वाहन भी लगाए गए हैं । जिन्हें सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है । इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी कोरांव मोहम्मद रिजवान खान का कहना है कि नियम के विरुद्ध स्कूलों में लगे वाहन को लेकर स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।

वसूलते है सालभर का किराया

अभिभावकों ने बताया कि स्कूल संचालकों की तरफ से सालभर का वाहनों का किराया वसूला जाता है । जबकि गर्मी की छुट्टियों और सर्दी में अवकाश रहते हैं। इन दिनो की फीस भी वसूली जाती है । इस संदर्भ में पूछताछ करने पर दो टूक जबाब दिया जाता है कि फीस यदि नहीं देनी तो दूसरे स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं । उनका कहना है कि मान्यता प्राप्त हो या प्राईवेट सभी विद्यालयों में सालभर का फीस और वाहन खर्च लिया जाता है । यह हाल लगभग सभी निजी स्कूलों का है । लिहाजा अभिभावकों को मजबूरन जेब ढीली करनी पड़ती है।

पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर हुई शोक सभा आयोजित

लोकमित्र ब्यूरो

बहरिया । भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शुक्रवार को विकास खंड बहरिया के मुख्यालय के प्रांगण मे सहायक विकास अधिकारी पंचायत अनिल कुमार पाल के नेतृत्व में एक शोक सभा आयोजित हुई जिसमें मृत आत्मा के शांति के लिये दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि दी गई इस मौके पर जेई आर एस गजेन्द्र गुप्ता,एडियो एसटी रविकांत त्रिपाठी, बृजेन्द्र श्रीवास्तव,लव मिश्रा,ग्राम पंचायत अधिकारी प्रीती यादव सीएम फेलो डाक्टर अर्चना,राजेश पटेल,मुनीश तिवारी,अरुण कुशवाहा आदि लोग रहे ।

डॉ. रीना सचान को मिला अल्फा ग्रेड और सर्विस आफ एक्सीलेंस

लोकमित्र ब्यूरो

प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष और एनसीसी की इंचार्ज, डॉ. रीना सचान ने तीन महीने की कठिन और चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने एनसीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, ग्वालियर में 90 दिनों की ट्रेनिंग पूरी की। इस कठिन ट्रेनिंग के बाद डॉ. सचान को लेफ्टिनेंट रैंक और %अल्फा ग्रेड% (सबसे उच्चतम ग्रेड) से सम्मानित किया गया है।डॉ. रीना सचान को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए %सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस% प्रदान किया गया। उनकी इस उपलब्धि को मान्यता देते हुए, आर्मी ग्रुप मुख्यालय, प्रयागराज द्वारा 28 दिसंबर को उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। यह उपलब्धि उनकी मेहनत, समर्पण और अनुशासन का प्रमाण है, जो छात्रों और सहकर्मियों के लिए प्रेरणादायक है।डॉ. रीना सचान की इस सफलता पर कॉलेज की प्रधानाचार्य, डॉ. वत्सला मिश्रा, ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि यह उपलब्धि न केवल हमारे कॉलेज के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह छात्रों में राष्ट्र के प्रति सेवा भावना को प्रोत्साहित करेगी।कॉलेज के प्रमुख अधीक्षक, डॉ. अजय सक्सेना, और अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि डॉ. रीना सचान ने अपनी प्रतिबद्धता और दृढ़ता से यह सफलता अर्जित की है, जो चिकित्सा और एनसीसी जैसे क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। कॉलेज प्रशासन और समस्त स्टाफ की ओर से डॉ. रीना सचान को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई हैं। उनकी यह उपलब्धि प्रयागराज और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज दोनों के लिए गौरव का विषय है।

संकट के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राण वायु थे मनमोहन सिंह - मुख्तार अब्बास नकवी

डॉ मनमोहन सिंह अजात शत्रु के रूप में अपनी व्यावहारिक पहचान बनाई उनका निधन राष्ट्र के लिए दुखदाई- महापौर

लोकमित्र ब्यूरो

प्रयागराज। भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त किया।उनके निधन पर प्रयागराज दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आर्थिक संकट के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था के प्राण वायु थे। उनके निधन से भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता खो दिया जिसकी भरपाई असंभव है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें।

महापौर गणेश केसरवानी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में

लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए और राजनीति के आजाद शत्रु के रूप में उन्होंने अपनी व्यावहारिक छाप छोड़ी। उनका निधन देश के लिए दुखदाई है।

भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और उनके द्वारा देश के प्रति किए गए कार्य को सदैव याद रखा जाएगा।

जिला प्रवक्ता राजेश केसरवानी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के होने वाले प्रयागराज के कार्यक्रम भी निरस्त कर दिए गए।

राजेश केसरवानी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ मनमोहन सिंह के निधन से भारत ने दूरदर्शी, एवं बेदाग छवि के राजनेता और अर्थशास्त्री खो दिया है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें।

शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में भाजपा के वरिष्ठ नेता राम जी केसरवानी, विभूति नारायण सिंह, रमेश पासी, कुंज बिहारी मिश्रा, वरुण केसरवानी, पार्षद किरण जायसवाल, विवेक अग्रवाल, प्रमोद मोदी राजेश सिंह पटेल, नटवरलाल भारती, राकेश भारती, प्रशांत शुक्ला, देवेंद्र मिश्रा, विवेक मिश्रा आशुतोष पांडे आदि सैकड़ो भाजपा कार्यकर्ता रहे।

रास्ते के विवाद में युवक का सिर फूटा मुकदमा दर्ज

लोकमित्र ब्यूरो

बहरिया । बहरिया थाना क्षेत्र के वीरगंज निवासी सूर्य प्रकाश पुत्र राम सरन ने बहरिया थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देते हुये मुदकमा दर्ज करवाया है कि रास्ते के विवाद को लेकर गुरुवार की सुबह परिवार के ही राजाराम पुत्र मंहगू, प्रमोद्र पुत्र राजाराम, मुकेश पुत्र राजाराम आदि लोगों ने मिलकर मुझे व मेरे पुत्र गंगा सागर व राजन को उक्त लोगों ने गाली गलौज करते हुये लाठी व डंडों से जमकर पीटा जिससे मेरे पुत्र गंगासागर को सिर फट गया पुलिस ने उक्त दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी हैं।

देश ने खोया एक महान और कुशल अर्थशास्त्री- ओंकार नाथ केसरी

खीरी (प्रयागराज)। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर नेता, फिल्मी जगत से लेकर उद्योग से जुड़े लोगों ने शोक व्यक्त किया और देश की आर्थिक सफलता में उनके योगदान को सराहा। मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार को देर रात दिल्ली के जाने माने संस्थान एम्स में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे।उनके निधन पर जन उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओकार नाथ केशरी ने कहा कि हम पूर्व प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए बतलाया कि स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह जी उन दिग्गजो में से एक थे जिन्होंने एक नये उदार भारत की कल्पना की थी जो दुनिया में अपना उचित स्थान ले रहा हैं। डॉ सिंह को हमेशा उनकी दूरदर्शी सोच के लिए याद किया जायेगा। वे हमेशा विनम्र रहे और अपने व्यक्तिगत मूल्यों को बनाये रखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इतिहास में न केवल भारत के बल्कि विश्व के महान राजनीतिक नेताओं में से श्रेष्ठ रूप में माने जाएंगे। उनका सरल व्यक्तित्व, कुशाग्र बुद्धि, सहज विनम्रता तथा व्यक्तिगत ईमानदारी का मेल था जो आज की राजनीति में दुर्लभ है।

विभिन्न मांगो को लेकर आशा वर्कर्स ने किया प्रदर्शन

मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सीएचसी अधीक्षक को सौंपा

लोकमित्र ब्यूरो

मेजा (प्रयागराज)। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन मेजा की आशा बहुओं ने शुक्रवार को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएचसी मेजा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित मांग पत्र अधीक्षक डॉ बबलू सोनकर को दिया। अध्यक्ष किरन सिंह व सचिव संध्या श्रीवास्तव ने कहा कि तय कार्यो से इतर कार्य कराए जा रहे हैं लेकिन उसका कोई भुगतान उन्हें नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष किरन सिंह ने बताया कि जिन दो चार कार्यो की प्रोत्साहन राशि दी भी जाती है, उनका निर्धारण वर्षो पूर्व किया गया था। उनके श्रम के सापेक्ष उनका कभी कोई पुनर्निर्धारण नहीं किया गया। जब की भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, किसी तरह की

सामाजिक सुरक्षा, यहां तक कि साप्ताहिक, वार्षिक अवकाश तथा एक दिन का भी मातृत्व अवकाश तक नहीं दिया जाता है। मांगों के क्रम में संगिनी और आशा कर्मियों को राज्य स्वास्थ्य कर्मी के रूप में मान्यता देकर उन्हें न्यूनतम वेतन, मातृत्व अवकाश, कार्यस्थलों में सुरक्षा की गारंटी देने, राज्य कर्मचारी बीमा निगम का सदस्य बनाने, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख का जीवन बीमा कवर और कार्य के घंटे निर्धारित करने की मांग की गई है। अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि मांगों पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया तो आगे भी प्रदर्शन होगा।

सड़क के घटिया निर्माण पर उठ रहे सवाल

ठेकेदार की मनमानी से लोगों में आक्रोश, शिकायतकर्ता ने दी चेतावनी, दुरुस्त करें वरना होगी शिकायत

लोकमित्र ब्यूरो

मेजा (प्रयागराज)। बेलन नहर विभाग द्वारा माण्डा क्षेत्र में बनाई जा रही नहर की पटरी की सड़क पर मानक की अनदेखी की जा रही है। शिकायत के बावजूद ठेकेदार मनमानी कर रहा है।

शिकायत कर्ता समाजसेवी नीरज द्विवेदी ने चेतावनी दी है यदि निर्माण कार्य दुरुस्त नहीं किया गया तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की जाएगी।

मांडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बभनी हेठार के दक्षिण तरफ नहर है। नहर जो आहोपुर पुल मार्ग से सैबसा तक डामरीकृत करायी जा रही है उसमें मानक की अनदेखी की जा रही है।सड़क निर्माण में तारकोल की जगह शायद कोई केमिकल या जला

तेल मिलाया गया है,जिस वजह से बाइक सवार फिसल कर चोटिल हो रहे हैं। कई बार शिकायत के वावजूद ठेकेदार कुछ सुनने को तैयार नही है। श्री द्विवेदी ने सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि घटिया निर्माण का संज्ञान लेते हुए ठेकेदार को दोबारा सड़क बनाने के लिए आदेशित करें। उंन्होने कहा कि रोड की एक कोटिंग और कराते हुए इसकी पीसी कराएं। रोड में की जा रही अनियमितता की जांच की जाय। नीरज द्विवेदी ने कहा यदि सड़क दुरुस्त नही करायी गयी तो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की जाएगी।

वीर बाल दिवस पर उनके शौर्य,वीरता, त्याग और धर्मनिष्ठा को किया नमन

नैनी (प्रयागराज)। नैनी गुरुद्वारा संगत में वीर बाल दिवस के अवसर पर सगत संध्याकाल दीवान में पहुंच कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे मत्था टेक कर साहिब श्रीगुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के साहिबजादों के बलिदान को समर्पित %वीर बाल दिवस% पर उनके त्याग, शहादत एवं समर्पण को कोटि-कोटि नमन करते हुए कहा कि मातृभूमि के सम्मान,धर्म की रक्षा व पिता के स्वाभिमान के लिए हंसते हंसते प्राणों का बलिदान करने वाले,सिख पंथ के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चार लाड़ले अमर शहीदों को %वीर बाल दिवस% पर उनके शौर्य,वीरता,त्याग और धर्मनिष्ठा को शत शत नमन किया गया।इस अवसर पर सरदार पतविंदर सिंह ने विस्तार पूर्वक गुरुओं की शहादत का वर्णन करते हुए शहादत के महत्व के बारे में विस्तार से सगत को परिचित कराया उपरांत गुरु का लंगर छका,सेवाकर गुरु के चार साहिबजादो को शत शत नमन किया इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह,परमिंदर सिंह बंटी,ज्ञानी जसपाल सिंह,सरदार पतविंदर सिंह,लखविंदर सिंह,चरनजीत सिंह,हरप्रीत कौर, मनप्रीत कौर मीनू,रूपिंदर,हरविंदर,जसप्रीत,लखबीर सिंह,हरजीत सिंह,सतनाम सिंह सहित बड़े बच्चे,महिलाएं,बुजुर्ग सभी धर्म संप्रदाय के बड़ी संख्या में सेवादार मौजूद रहे।

लेड़ियारी विद्युत उपकेंद्र पर भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन

लोकमित्र ब्यूरो

लेड़ियारी (प्रयागराज)। किहुंनी कला के मजरा पथेलवा डिनर बस्ती में 13 दिसंबर से बिजली की सप्लाई बंद कर देने पर शुक्रवार को नौ बजे ताला लगाकर विद्युत आपूर्ति ठप कर भारतीय किसान यूनियन भानू जिला अध्यक्ष पंकज प्रताप सिंह के नेतृत्व में उपभोक्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बैठे हुए है।

पथेलवा डिनर बस्ती की महिलाओं का कहना है कि बिजली नहीं मिल रहा है तो मिट्टी का तेल शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाए। बिजली के काट दिए जाने पर मवेशियों को पानी पीने के लिए दिक्कत उठानी पड़ रही है। रात में बिजली नहीं होने से दिक्कत हो रही है। जबकि चारों ओर जंगल होने से जीव जंतु के साथ तरह - तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सरकार के निर्देशानुसार बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा छूट की विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत घर - घर जाकर एक मुफ्त समाधान योजना के तहत जानकारी दिए जा रहे हैं। उसके पूर्व

एक पखवाड़े से किहुंनी कला के पथेलवा डिनर बस्ती में कनेक्शन काट दिए जाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन की ओर से अनिश्चितकालीन अनशन बैठे हुए है। जिससे भारी संख्या में मजदूर वर्ग के लोग लेड़ियारी स्थित खोंचा उपकेंद्र पर पहुंचकर विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जिससे तीनों फीडर बंद होने से सप्लाई बाधित हो गया है।

छह घंटे बाद स्टेट राजमार्ग नारीबारी से कोरांव किसान यूनियन पहुंचे इसी दौरान एसडीओ चंद्र शेखर आजाद आने पर मुर्दाबाद लगा रहे कि पुलिस सहायता केंद्र इंचार्ज अजय सिंह पहुंचे। एक घंटे बाद खीरी थाना प्रभारी आशीष सिंह अपने दल बल के साथ पहुंचने पर आवागमन सुचारू कराया गया।

इस दौरान एसडीओ ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया। खीरी थाना प्रभारी आशीष ने बताया कि वीडियो ग्राफी कराया गया है। कार्रवाई होगी। जबकि बिजली आपूर्ति ठप होने से लगभग पांच दर्जन गांवों में अंधेरा कायम बना हुआ है। वहीं सुबह से तीन गांवों की बिजली कट जाने से गोशाला में मवेशियों को पानी नहीं मिलने उसके छोड़ दिया गया। जबकि डिनर बस्ती के लोगों को पानी पीने के लिए दूर जाना पड़ रहा है। विद्युत विभाग के एसडीओ चंद्र शेखर आजाद का कहना है कि धरने पर बैठे लोगों को समझा बुझाकर देर रात तक सप्लाई चालू किया जाएगा।

डॉ सिंह के निधन से देश को लगा गहरा आघात- डी पी त्रिपाठी

लोकमित्र ब्यूरो

मेजा (प्रयागराज)। भारत के आर्थिक सुधार के सूत्रधार,राष्ट्र निर्माण के महानायक देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से देश के साथ दुनिया के कई देश मर्माहत हैं। उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री, कॉंग्रेस नेत्री सोनिया गांधी सहित दुनिया के कई नेताओं ने दुख जताते हुए शोक प्रकट किया है। देश में उनके सम्मान में सात दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा।

यूथ कॉंग्रेस के प्रदेश महासचिव डीपी त्रिपाठी ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे देश की अपूर्णीय क्षति बताया है। श्री त्रिपाठी ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत में आर्थिक क्रांति के जनक के रूप में चर्चित मनमोहन सिंह जी का दिल्ली के एम्स अस्पताल में बीती रात निधन की सूचना से पूरा देश स्तब्ध रह गया। सोशल मीडिया पर सूचना वायरल होने के साथ कॉंग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं का एम्स में जमघट लग गया। यह उनकी लोकप्रियता की पुष्टि करता है। उनका निधन, देश की लिए एक गहरा आघात है।

श्री त्रिपाठी ने कहा कि डॉ मनमोहन सिंह कॉंग्रेस पार्टी के ही नेता नही थे, उनका सम्मान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता करते रहे हैं।उनकी सोच और दूरदर्शिता ने देश की दिशा और दशा बदल दी थी। उनकी कार्यशैली सदा प्रासंगिक रहेगी। ईश्वर परिवार को दुख सहने की शक्ति दें।

नई दिल्ली के 3,मोतीलाल नेहरू रोड पर सुरक्षा बढ़ाई गई

⏩ मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे लोग

नई दिल्ली, (हि.स.)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। लुटियंस दिल्ली के मोतीलाल नेहरू रोड स्थित बंगला नंबर 3 में माहौल गमजदा है। हर आंख नम...और हर आने वाले के चेहरे पर गम की परछाइयां नजर आ रही हैं। तीन एकड़ के भूखंड वाले इस विशाल टाइप-आठ बंगले में पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से रात करीब एक बजे पहुंचा है।तीन, मोतीलाल नेहरू रोड करीब 10 वर्ष तक प्रख्यात अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री सिंह का आवास रहा। 92 वर्ष की आयु में उन्होंने रात को एम्स में आखिरी सांस ली। वो इस बंगले में तब आए थे जब मई, 2014 में नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। मोदी 7 रेसकोर्स रोड (अब 7 लोक कल्याण मार्ग) रहने पहुंचे और सिंह 3, मोतीलाल नेहरू मार्ग । डॉ. सिंह से पहले यह बंगला दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आधिकारिक आवास हुआ करता था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने इसे खाली कर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते सिंह को उनके परिवार के साथ एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था।इस समय तीन मोतीलाल नेहरू मार्ग के बाहर पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर से पहली जनवरी तक पूरे देश में सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इसके बाद केरल सरकार ने जिला कलेक्टरों को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का निर्देश दिया। दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा आज होने की उम्मीद है। डॉ. सिंह के सम्मान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह सहित सभी आधिकारिक कार्यक्रम आगामी सात दिन के लिए रद्द कर दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान पार्टी का झंडा आधा झुका रहेगा।सिंह के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ बीते राजनीतिक पलों को याद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश ने अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉ. मनमोहन सिंह को खो दिया।साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वो एक सम्मानित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्तमंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दीं और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीतियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। संसद में उनके विचारपूर्ण हस्तक्षेप भी हमेशा उल्लेखनीय रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, शब्दों के बजाय काम करने वाले व्यक्ति, राष्ट्र निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान हमेशा भारतीय इतिहास में अंकित रहेगा। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सिंह ने बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। उन्होंने अपना मार्गदर्शक खो दिया।

डॉ. मनमोहन सिंह को याद कर भावुक हुए जयराम रमेश

नई दिल्ली, (हि.स.)। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उनके सहयोगी रहे जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक अत्यंत भावुक पोस्ट लिखकर उन्हें याद किया।जयराम रमेश ने लिखा, ÷एक अत्यंत पूर्ण और असाधारण रूप से प्रतिष्ठित जीवन समाप्त हो गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त सचिव, आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों के पूर्व छात्र। 1956 में कैम्ब्रिज में प्रतिष्ठित एडम स्मिथ पुरस्कार के विजेता। मृदुभाषी, शांत और हमेशा गरिमामय, उनका दृढ़ संकल्प था। वे अपने 1991, 1992 और अन्य बजटों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तकनीकी परिवर्तनकर्ता थे। उनके प्रधानमंत्रित्वकाल में ग्रामीण रोजगार, आदिवासी अधिकार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के लिए आरक्षण, प्राथमिक शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण से संबंधित क्रांतिकारी कानून बने। भारत-अमेरिका परमाणु समझौता एक मील का पत्थर था, जिसने भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाया। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश के इतिहास में सबसे अधिक जीडीपी विकास दर देखी गई।जयराम रमेश ने आगे लिखा, ÷वे दिल से एक सज्जन व्यक्ति थे, और उनमें किसी के प्रति कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं था। वे संवाद, आम सहमति और कठिन परिस्थितियों में भी सामंजस्य की राजनीति में विश्वास करते थे और उसका पालन करते थे। विनम्रता और ईमानदारी उनकी पहचान थी। जो लोग उन्हें बदनाम करना चाहते थे, उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो पहल की, उनमें से कई को उनके उत्तराधिकारी के योगदान के रूप में प्रचारित, प्रसारित और पेश किया गया। लेकिन डॉ. सिंह ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा अपनी खास मुस्कान के साथ पेश आते रहे। उन्होंने मुझे सितंबर 1986 में योजना आयोग में भर्ती किया और तब से यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अगले 38 वर्षों तक उनके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा। अपने अनोखे और विशिष्ट तरीके से, डॉ. मनमोहन सिंह ने हमारे इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

खरगे, राहुल और वेणुगोपाल कर्नाटक से दिल्ली लौटे, डा. मनमोहन के परिजनों से मिले

नई दिल्ली, (हि.स.)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल आज तड़के बेलगाम (कर्नाटक) से दिल्ली पहुंचे और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के आवास पर गए। जहां उन्होंने डा. सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के लोगों को दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया।अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से डा. सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनकी उपलब्धियों को याद किया गया। पार्टी ने यहां जारी अपने शोक संदेश में कहा कि इतिहास डॉ. मनमोहन सिंह को उनके गरिमामय आचरण, जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता, गहन ज्ञान और विनम्रता के लिए हमेशा याद रखेगा। वे अपने पीछे आर्थिक सुधारों, राजनीतिक स्थिरता और हर भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति समर्पण की विरासत छोड़ गए हैं।पहले एक टेक्नोक्रेट के रूप में और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सामाजिक कल्याण पर ध्यान देने के साथ आर्थिक समृद्धि और विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए याद किया जाएगा। अपने शांत लेकिन लचीले नेतृत्व के लिए जाने जाने वाले, वे एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने देश के कल्याण के अलावा किसी और चीज के प्रति सावधानी, चिंता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कठिन निर्णय लिये।कांग्रेस ने कहा, ÷एक नेता के रूप में, डॉ. सिंह ने शायद ही कभी सुर्खियों में आने की कोशिश की, फिर भी उनके फैसले भारतीय समाज के हर पहलू और उससे परे गहराई से गूंजते थे। राजनीतिक सहयोगियों, विरोधियों और विश्व नेताओं से उन्हें जो भरोसा और सम्मान मिला, वह उनके गहरे प्रभाव का प्रमाण है।एक राजनेता, एक विद्वान, एक नेता, एक दूरदर्शी - भारत के सबसे गौरवशाली पुत्रों में से एक - अलविदा सर, आपकी बहुत याद आएगी।पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर बीती रात करीब एक बजे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से उनके दिल्ली स्थित आवास पर लाया गया। डा. सिंह का 92 वर्ष की आयु में बीती देर शाम एम्स (दिल्ली) में निधन हो गया।कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के सम्मान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह सहित सभी आधिकारिक कार्यक्रम अगले सात दिनों के लिए रद्द कर दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों में सभी आंदोलनात्मक और आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं। पार्टी के कार्यक्रम 83 जनवरी, 2025 को फिर से शुरू होंगे। शोक की इस अवधि के दौरान पार्टी का झंडा आधा झुका रहेगा।

मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दीः रामनाथ कोविंद

कोलकाता, (हि.स.)। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में कोविंद ने कहा कि डॉ. सिंह ने उस समय देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, जब आर्थिक संकट गहरा हुआ था। डॉ. सिंह के निधन को अपना व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कोविंद ने कहा, ÷उनकी विनम्रता और सरलता की छवि हमेशा मेरे मन में रहेगी। मैंने कभी उनके मुख से कोई आपत्तिजनक या अशोभनीय शब्द नहीं सुना।कोविंद ने कहा कि डॉ. सिंह ने भारत को आर्थिक संकट के समय कुशल नेतृत्व प्रदान किया और अर्थव्यवस्था को नई दिशा में अग्रसर किया। डॉ. सिंह भारतीय मूल्यों और विज्ञान के संगम का प्रतीक थे। उनके अंदर भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय था।

भारत में आर्थिक सुधारों में मनमोहन सिंह ने छोड़ी अमिट छाप- संजय मल्होत्रा

मुंबई, (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत के आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। आरबीआईके पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी मनमोहन के निधन पर शोक जताया।आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने शुक्रवार को मनमोहन को श्रद्धांजलि देते हुए 'एक्े स' पोस्े ट पर लिखा है कि, %मैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर बहुत दुखी हूं, जो एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री और आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। भारत के आर्थिक सुधारों के निर्माता के रूप में उनके योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है। ञआरबीआई इस बड़ी क्षति पर शोक व्यक्त करने में राष्ट्र के साथ है।आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। रघुराम राजन ने उन्हें एक प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री करार दिया, जिनके पास भारत की संभावनाओं के बारे में दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ-साथ राजनीतिक व्यवहार्यता की अच्छी समझ भी थी।उल्े लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह गुरुवार रात को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। डॉ. सिंह वित्त मंत्री के अलावा 1982 से लेकर 1985 के बीच आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने मनमोहन सिंह के निधन पर जताया शोक

नई दिल्ली,(हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। सीतारमण ने अपने शोक संदेश के साथ डॉ. सिंह की एक फोटो भी साझा किया है।केंद्रीय वित्े त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'एक्े स' पोस्े ट पर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह नहीं रहे। उन्होंने आरबीआई के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। 1991 का मील का पत्थर बजट पेश किया, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया। वे सभी के सम्मानित, मृदुभाषी और सौम्य थे।

मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटा गया, कांग्रेस नेता पहुंचे श्रद्धांजलि देने

नई दिल्ली, (हि.स.)। लुटियंस दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग के बंगला नंबर-तीन पर आज सुबह से पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। इस बीच उनके पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे से लपेटा गया।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वॉड्रा दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने उनके सरकारी आवास 3, मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पूर्व प्रधानमंत्री सिंह के अंतिम दर्शन करने पहुंचे और श्रद्धांजलि दी।सिंह का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कल रात निधन हो गया था। पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास 3, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है।

कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया

नई दिल्ली, (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया। मंत्रिमंडल ने दो मिनट का मौन रखकर डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी।मंत्रिमंडल की बैठक में रखे शोक प्रस्ताव के अनुसार देश में 01.01.2025 तक सात दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है।इस शोक अवधि के दौरान, पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। सात दिनों के लिए विदेश में सभी भारतीय मिशनों/उच्चायोगों में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा।डॉ. मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के दिन, सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और सीपीएसयू में आधे दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा।इसके साथ बैठक में संकल्प भी रखा गया जिसमें कहा गया ÷मंत्रिमंडल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के 26 दिसंबर, 2024 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में हुए दुखद निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है।अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के पश्चिमी पंजाब के गाह गांव में 26 सितंबर, 1932 को जन्मे डॉ. सिंह का शैक्षणिक जीवन शानदार रहा। उन्होंने 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी सम्मान के साथ अर्थशास्त्र में ट्राइपोस प्राप्त किया। उन्हें 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा डी. फिल की उपाधि प्रदान की गई।डॉ. सिंह ने अपना करियर पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में शुरू किया और उसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर बने। डॉ. मनमोहन सिंह 1971 में तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार (1972-76), आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव (नवंबर 1976 से अप्रैल 1980), योजना आयोग के सदस्य सचिव (अप्रैल 1980 से सितंबर 1982) और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर (सितंबर 1982 से जनवरी 1985) रहे।डॉ. सिंह को उनके करियर में मिले कई पुरस्कारों और सम्मानों में सबसे प्रमुख हैं भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण (1987), भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार (1995), वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार (1993), कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार (1956)।डॉ. मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। आर्थिक सुधारों की व्यापक नीति लाने में उनकी भूमिका सर्वविदित है। डॉ. सिंह 22 मई, 2004 को भारत के प्रधानमंत्री बने और मई, 2009 तक प्रधानमंत्री रहे।

वे मई 2009 से 2014 तक दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने।प्रस्ताव में कहा गया कि मनमोहन सिंह ने हमारे राष्ट्रीय जीवन पर अपनी छाप छोड़ी है। उनके निधन से राष्ट्र ने एक प्रख्यात राजनेता, प्रख्यात अर्थशास्त्री और एक प्रतिष्ठित नेता खो दिया है।मंत्रिमंडल सरकार और पूरे देश की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के तीन मोतीलाल नेहरू रोड स्थित आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।राष्ट्रपति भवन ने एक्स पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति मुर्मु ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने डॉ. सिंह के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की।उपराष्ट्रपति सचिवालय ने एक्स पोस्ट में कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉ. सुदेश धनखड़ ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. सिंह के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने डॉ. सिंह के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और देश के लिए उनके अमूल्य योगदान और उनकी चिरस्थायी विरासत को याद किया।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा, ÷डॉ. मनमोहन सिंह को उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत उनके योगदान को सदैव याद रखेगा।उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह का कल रात को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे।

भारतीय नौसेना ने अमेरिका से खरीदे गए 9 खूंखार शिकारियों को किया ऑपरेशनल

● एमएच 60आर हेलीकॉप्टर नौसेना की आंख, कान बनकर करेंगे दुश्मन का सफाया

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से खरीदे जा रहे खूंखार शिकारी 24 एमएच 60आर हेलीकॉप्टरों में से पहले नौ को बेड़े के जहाजों पर ऑपरेशनल कर दिया है। इन बहु भूमिका वाले हेलीकॉप्टरों ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को काफी हद तक मजबूत किया है। भविष्य में भारतीय नौसेना की आंख, कान बनकर यह रोमियो हेलीकॉप्टर लंबी दूरी तक अपने दुश्मन का सफाया करने में सक्षम होंगे। साथ ही इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री युद्धक क्षमता और मजबूत होगी।भारतीय नौसेना ने इसी साल 06 मार्च को पारंपरिक वॉटर कैनन सलामी के साथ कोच्चि के आईएनएस गरुड़ पर अमेरिकी एमएच-60आर सीहॉक बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन को औपचारिक रूप से हवाई बेड़े में शामिल किया था। इस सीहॉक्स स्क्वाड्रन को आईएनएस 334 के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। एमएच 60आर हेलीकॉप्टर दुनिया का शक्तिशाली बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर है, जो देश की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करेगा। अत्याधुनिक सेंसरों और मल्टी-मिशन क्षमताओं के साथ एमएच 60आर हमारी समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगा।भारतीय नौसेना ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 24 हेलीकॉप्टर 2.6 अरब डॉलर के उस सौदे के तहत खरीदे हैं, जो फरवरी, 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के समय हुआ था। इस सौदे के तहत अब तक नौ एमएच-60आर सीहॉक भारत आ चुके हैं। हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में सीहॉक की तैनाती भारतीय नौसेना की समुद्री उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्नत हथियार, सेंसर और एवियोनिक्स सूट से लैस सीहॉक भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा जरूरतों के लिहाज से बनाया गया है, जो पारंपरिक और असममित दोनों खतरों के लिए उन्नत क्षमताएं प्रदान करते हैं।अमेरिकी नौसेना के साथ हुए अनुबंध के तहत सभी 24 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति 2025 तक पूरी हो जाएगी। अत्याधुनिक मिशन सक्षम प्लेटफार्मों को शामिल करने से भारतीय नौसेना की विभिन्न एएसडब्ल्यू क्षमता को काफी बढ़ावा मिलेगा। सभी हेलीकॉप्टर मिलने के बाद भारत को सतह-विरोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध अभियानों को अंजाम देने की क्षमता मिलेगी। साथ ही भारतीय नौसेना की त्रि-आयामी क्षमताओं में वृद्धि होगी। भारत अपनी बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग क्षेत्रीय खतरों से निपटने और अपनी मातृभूमि की रक्षा को मजबूत करने के लिए करेगा। एमएच 60आर हेलीकॉप्टर भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा देने के साथ समुद्री डोमेन में निरंतर नौसैनिक संचालन का समर्थन करेगा।बहुउद्देश्यीय अमेरिकी समुद्री हेलीकॉप्टर एमएच-60आर को पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खोज और बचाव, चिकित्सा निकासी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में नाइट विजन उपकरण, हेलिफायर मिसाइलें, एमके-54 टॉरपीडो और रॉकेट लगे हैं। रोमियो हेलीकॉप्टर में लगे राडार और सेंसर न केवल पानी के अंदर, बल्कि पनडुब्बियों की पहचान करके समय रहते उनका शिकार भी कर सकेंगे। इस खूंखार शिकारी से हरेक पनडुब्बी का कैप्टन डरता है। यह हेलीकॉप्टर कई अलग-अलग तरह के हथियारों से लैस हो सकता है, क्योंकि इसमें हथियारों को लगाने के लिए चार प्वाइंट्स दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 7.62 एमएम की मशीन गन को भी लगाया जा सकता है।

सुरक्षा बलों ने हीवान बारामुल्ला में तलाशी अभियान किया शुरू

बारामुला, हि.स.। सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को बारामुला जिले के हीवान गांव इलाके में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 46वीं राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर), स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) बारामुल्ला और सीआरपीएफ की 53वीं बटालियन शामिल हैं।सूत्रों ने बताया कि अभियान के तहत क्षेत्र में सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि तलाशी का उद्देश्य क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे को रोकना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

उत्तरी अरब सागर में डूबे भारतीय पोत के नौ सदस्यों को आईसीजी ने बचाया

⏩ पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने खोज और बचाव मिशन में दिया पूरा सहयोग

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने उत्तरी अरब सागर में डूब रहे भारतीय पोत एमएसवी %ताज धारे हरम% के चालक दल के नौ सदस्यों को बचा लिया है। ख़ास बात यह रही कि इस खोज और बचाव मिशन में भारतीय तटरक्षक बल के साथ पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी (एमएसए) ने सहयोग किया। दोनों देशों के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) ने भी पूरे ऑपरेशन के दौरान निरंतर संवाद बनाए रखा। बचाए गए चालक दल को गुजरात के पोरबंदर तट पर लाया गया है।दरअसल, गुजरात के मुंद्रा से रवाना होकर यमन के सोकोत्रा की ओर जाने वाला यह जहाज 26 दिसंबर को समुद्र की लहरों और बाढ़ की वजह से पाकिस्तान के खोज और बचाव क्षेत्र में बुरी तरह प्रभावित हुआ। नियमित निगरानी उड़ान के दौरान आईसीजी डोर्नियर विमान को इस संकट की जानकारी मिली, जिसके बाद मुंबई और गांधीनगर के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र ने आईसीजी क्षेत्रीय मुख्यालय (उत्तर पश्चिम) को तुरंत सतर्क कर दिया। उत्तरी अरब सागर में पहले से ही गश्त कर रहे आईसीजीएस शूर को घटनास्थल पर तेज रफ्तार से बताए गए स्थान के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही क्षेत्र में नाविकों को सतर्क करने के लिए पाकिस्तान के एमआरसीसी से भी संपर्क करके तुरंत सहायता देने का आग्रह किया गया। गहन खोज के बाद चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचाकर एक लाइफ राफ्ट (जीवन रक्षक बेड़े) पर लाया गया, जो जहाज को छोड़कर शरण ले रहे थे।भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने उत्तरी अरब सागर में डूबे भारतीय जहाज %ताज धारे हरम% के नौ भारतीय चालक दल के सदस्यों को गुजरात के पोरबंदर से लगभग 311 किलोमीटर पश्चिम में सफलतापूर्वक बचा लिया। चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों में चलाए गए खोज और बचाव मिशन ने मुंबई और कराची, पाकिस्तान के समुद्री बचाव समन्वय केंद्रों (एमआरसीसी) के बीच असाधारण सहयोग को प्रदर्शित किया। यह बचाव अभियान जहाज के पूरी तरह डूबने से पहले शाम करीब 4 बजे पूरा हुआ। सभी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित रूप से आईसीजीएस शूर पर लाया गया, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और उन्हें स्वस्थ घोषित किया गया।

ज्यादा खरीदने पर सरकार के कब्जे में जाएगी जमीन

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी जमीन खरीदने के लिए नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत प्रॉपर्टी खरीदने की एक तय सीमा निर्धारित की गयी है जिससे राज्य में जमीन के अंधाधुंध अधिग्रहण पर रोक लगाई जा सके।

यह कदम आम जनता हितो की सुरक्षा और कृषि योग्य भूमि के संरक्षण के उद्देश्य से उठाया गया। उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि भूमि खरीदने की अनुमति यह नियम सुनिश्चित करता है कि राज्य में जमीन का उपयोग को व्यवस्थित रखा जा सके और अधिक भूमि खरीदने की स्थिति में वह जमीन राज्य सरकार की नियंत्रण में चली जाएगी। यह कदम भूमि विवादों और अराजकता को कम करने के लिए आवश्यक माना गया है।सरकार ने स्पष्ट किया है की जमीन खरीदने की नियमों का नाम पालन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही है। किसी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। खतौनी वर्णन दस्तावेजों की जांच अनिवार्य कर दी गया था ताकि भूमि से संबंधित धोखाधड़ी को रोका जा सके। खरीदने से पहले जमीन की खतौनी और नक्शे की जांच करें। जमीन सरकारी न हो, श्रेणी 1 (क) में दर्ज हो। जमीन मालिक से उसकी खतौनी दस्तावेज और 16 अंकों का कोड प्राप्त करें। यदि अंतिम अंक 12 नहीं है तो उसे जमीन को खरीदने से बचे। जमीन कृषि उपयोग या सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में न आती हो, जैसे चकरोड, मरघट या चारागाह। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस में 12 साल की रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की जांच की करे यदि जमीन किसी एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति से खरीदी जा रही है तो स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने अनिवार्य है ,बिना अनुमति खरीदी गई जमीन राज्य सरकार के कब्जे में जा सकती है।भारत के अलग-अलग राज्यों में जमीन खरीदने की अलग-अलग सीमा निर्धारित है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अब 54 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं। पश्चिम बंगाल में यह सीमा 24.5 एकड़ है।

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर यूपी में राजकीय शोक

राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा एवं नही होगा कोई सरकारी मनोरंजन

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रहे मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हो गया।92 वर्षीय मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह के निधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया है। इस संबंध में अधिकारियों को आदेश जारी किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3ध्2ध्2024-पब्लिक, दिनांक 26-12-2024 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि भारत के पूर्व प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को एम्स अस्पताल, नई दिल्ली में निधन हो गया। दिवंगत गणमान्य व्यक्ति के सम्मान में, यह निर्णय लिया गया है कि 26 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025 तक पूरे भारत में सात दिनों का राजकीय शोक मनाया जाएगा, दोनों दिन सम्मिलित हैं।इस अवधि के दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है और राजकीय शोक की अवधि के दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा।

इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा एवं कोई सरकारी मनोरंजन नहीं होगा। अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार की ओर से जारी हस्ताक्षरित पत्र के जरिए जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों को निर्देश

जारी किए गए हैं।त्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती ने बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। राज्यपाल पटेल ने सिंह के निधन को राजनीति जगत के लिए बड़ी क्षति बताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। अपने बयान में पटेल ने कहा, श्डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं।समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया मंच श्एक्सश् पर लिखा, श्सत्य के प्रतीक और सौम्य व्यक्तित्व वाले डॉ. मनमोहन सिंह का निधन एक अपूरणीय अंतरराष्ट्रीय क्षति है। महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि।बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी श्एक्सश् पर कहा, श्पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर बेहद दुखद है। भारत की आर्थिक प्रगति में उनके उल्लेखनीय योगदान और उनके सदाचारी स्वभाव को हमेशा याद रखा जाएगा।

उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने सोशल मीडिया पर एक मार्मिक पोस्ट के जरिए सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, श्राजनीति में सादगी के प्रतीक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आर्थिक सुधार, परमाणु समझौता और मनरेगा समेत उनकी दूरदर्शी पहलों ने भारत को समृद्धि की नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राष्ट्र उनके योगदान का हमेशा ऋणी रहेगा।भावभीनी श्रद्धांजलि।भारत के बेहतरीन अर्थशास्त्रियों में से एक और राजनीति में शालीनता के प्रतीक माने जाने वाले सिंह अपने पीछे परिवर्तनकारी नीतियों की विरासत छोड़ गए हैं जिसने आधुनिक भारत को आकार दिया। मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार रात दिल्ली में निधन हो गया।एम्स दिल्ली ने उनके निधन की घोषणा की। गंभीर हालत में रात में आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था।

पूर्व पीएम का निधन भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षतिः योगी

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। गुरुवार देर शाम अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां रात करीब 9 बजकर 51 मिनट पर उनका निधन हो गया। इस दुखद घटना पर पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुये कहा है कि यह भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति है।

योगी ने एक्स पर लिखा पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं उनके शोकाकुल परिजनों व समर्थकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओमः शांति।÷ डॉ. मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार देखे, जिन्होंने देश की प्रगति की दिशा को बदल दिया। उनके निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनेता बल्कि एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री को खो दिया है। उनका योगदान भारतीय राजनीति और समाज में सदैव याद किया जाएगा।

कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी का झंडा झुका

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, महान अर्थशास्त्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ0 मनमोहन सिंह का कल गुरुवार को लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष श्रीवास्तव हिंदवी ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉ0 मनमोहन सिंह के निधन पर पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के झंडे को झुका दिया गया है तथा पार्टी द्वारा अपने सभी कार्यक्रमों को अगले सात दिनों तक स्थगित कर दिया गया है। श्री हिंदवी ने बताया कि कांग्रेस का केन्द्रीय नेतृत्व के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय स्व0 मनमोहन सिंह जी दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और पुण्य आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों से संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इतिहास में डॉ. मनमोहन सिंह को उनके गरिमामय आचरण, सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता, अथाह ज्ञान और विनम्रता के लिए हमेशा याद रखा जायेगा। स्व0 सिंह अपने पीछे आर्थिक सुधारों, राजनीतिक स्थिरता और प्रत्येक भारतीय के जीवन के उत्थान के लिए समर्पण की विरासत छोड़ गए हैं। पहले एक टेक्नोक्रेट के रूप में और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सामाजिक कल्याण पर ध्यान देने के साथ आर्थिक समृद्धि और विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए याद किया जाएगा। स्व0 मनमोहन सिंह अपने शांत स्वभाव लेकिन असरदार नेतृत्व के लिए विख्यात थे। वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने देश के कल्याण के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कठोर निर्णय लिए।श्री राय ने कहा कि एक नेता के रूप में, डॉ. मनमोहन सिंह के फैसले भारतीय समाज के हर पहलू पर गहराई से छाप छोड़ गए हैं। राजनीतिक सहयोगियों, विरोधियों और विश्व नेताओं से उन्होंने जो विश्वास और सम्मान अर्जित किया, वह उनके गहरे प्रभाव का प्रमाण है। श्री राय ने कहा कि डॉ0 मनमोहन सिंह जी एक राजनेता, एक विद्वान, एक दूरदर्शी-भारत के सबसे गौरवान्वित पुत्रों में से एक थे उनका जाना बेहद दुखद है। स्व0 डॉ मनमोहन को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु कल दिनांक 28 दिसंबर 2024 को सायं 5:00 बजे प्रदेश के सभी जनपदों में कांग्रेसजनों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की जायेगी। इसी क्रम में कल लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित होने वाली शोक सभा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री अजय राय जी शामिल होंगे।

प्रमोद तिवारी ने डा. मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की

लखनऊ। प्रमोद तिवारी, सांसद, उप नेता, राज्य सभा एवं आराधना मिश्रा मोना, नेता, कांग्रेस विधान मण्डल दल, उत्तर प्रदेश ने पद्म विभूषण से सम्मानित रहे पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुये उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेता द्वय ने कहा है कि स्व. डा. मनमेहन सिंह जी देश के ''प्रथम अल्पसंख्यक'' प्रधानमंत्री बने। जब वर्ष 1991 में एशिया के साथ भारत भी वैश्विक पटल पर आर्थिक रुप से अंधेरे में जूझ रहा था, उस समय आर्थिक क्रांति के सेनापति के रुप में भारत को आर्थिक अंधकार से निकाल कर दुनिया की पॉच महाशक्तियों में एक किया, इसका श्रेय स्व. नरसिंह राव के वित्त मंत्री के रुप में डा. मनमोहन सिंह को जाता है, उन्होंने कई साहस भरे जोखिम वाले कदम उठाये, जिससे उस समय भारत संभल सका। राइट टू फूड, मनरेगा उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रुप में देश की देन है, जो आज करोड़ों घरों में भोजन मिल रहा है, उन्हीं की नीति की बदौलत है। सूचना का अधिकार, किसानों की कर्जमाफी, एटामिक पैक्ट- यू.एस.ए. आदि के लिये भी साहस भरे कदम उठाये। नेता द्वय ने कहा है कि स्व. डा. मनमोहन सिंह जी दुनिया के महान युनिन्दा अर्थशास्त्रियों में से ''एक'' थे। उन्होंने देश के वित्त मन्त्री के रूप में तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी देश की सेवा की, और अपनी अमिट छाप छोंड़ी। आर्थिक संकट से जूझ रहे देश की केन्द्रीय वित्त मन्त्री के रूप में उन्होने उस दौर में देष की सेवा की जब देश का सोना तक गिरवी रखने की नौबत आ गयी थी।

राष्ट्रीय लोक दल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

गौरतलब है कि आज राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार चौधरी जयंत सिंह जी का जन्मदिवस मनाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया गया है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्र ने कहा कि देश ने आज न केवल एक राजनेता बल्कि महान अर्थशास्त्री भी खोया है पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह जी का निधन देश की अपूरणीय क्षति है,आर्थिक सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री को भारतीय राजनीति के इतिहास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए हमेशा उदारता पूर्वक याद रखा जाएगा।

सरल स्वभाव के धनी डॉ मनमोहन सिंह जी को सभी राजनैतिक दलों में सम्मान प्राप्त था और अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और सभी राजनैतिक दलों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव इज़हार अहमद शाह ,रमावती तिवारी,छात्रसभा के प्रदेश अध्यक्ष अमन पांडेय,पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सम्राट सिंह,प्रदेश कोषाध्यक्ष बी एल प्रेमी,आशुतोष सोती,शैलेश सिंह,मनीष मिश्र,प्रदेश महासचिव नारी शक्ति संगठन नम्रता शुक्ला,श्रीष श्रीवास्तव,राव इक़बाल अहमद खान,प्रदेश महासचिव नारी शक्ति संगठन शालिनी सिंह तथा विजय श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

यूपी में 70 से अधिक आईपीएस अफसरों का होगा प्रमोशन

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार नए साल पर आईपीएस अफसरों को तोहफा देने जा रही है। दरअसल, 70 साल से अधिक आईपीएस अफसरों को प्रमोशन मिलेगा। इसे लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई। 1992 बैच के आईपीएस एडीजी से डीजी बनेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि नए साल पर 70 से अधिक आईपीएस अफसरों को प्रमोट किया जाएगा। डीजी सीबीसीआईडी के पद पर तैनात एसएन साबत के 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें डीजी के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। 1992 बैच के आईपीएस एडीजी से डीजी बनेंगे। एडीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा डीजी बनेंगे। 8 एडीजी डीजी पद पर प्रमोट हो जाएंगे। यूपी के तीन आईपीएस अफसर आईजी से एडीजी बनेंगे। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का भी प्रमोशन होगा। लखनऊ आईजी प्रशांत कुमार और एटीएस चीफ नीलाभजा चौधरी एडीजी बनेंगे। 2007 बैच के आईपीएस अफसर आईजी के पद पर प्रमोट होंगे। डीआईजी अमित पाठक, जोगेंद्र कुमार, विनोद कुमार, रविशंकर छवि, भारती सिंह, राकेश प्रताप सिंह, विपिन कुमार मिश्रा, योगेश कुमार सिंह, गीता सिंह, बाबूराम आईजी बनेंगे। आईपीएस शैलेश पांडेय, अभिषेक सिंह, अजय पाल शर्मा, राजेश एस, आलोक प्रियदर्शी, सुधा सिंह, रामबदन सिंह, तेज स्वरूप सिंह, हृदयेश कुमार, सूर्यकांत त्रिपाठी, हेमंत कुटियाल, शालिनी, प्रदीप कुमार, कमला प्रसाद यादव, अरुण श्रीवास्तव, विकास कुमार, राजेश सक्सेना, अरविंद चतुर्वेदी, सुनीता सिंह, दिनेश सिंह, अरविंद कुमार मौर्य, सुभाष चंद्र शाक्य डीआईजी बनेंगे। वहीं, नए वर्ष पर यूपी के 8 डीजी हो सेवानिवृत्त जाएंगे।

पूर्व पीएम के निधन पर अखिलेश-माया वती ने जताया दुख

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अखिलेश यादव ने कहा, डॉ. मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया, आज देश में जो बहुत कुछ दिख रहा है, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से है।

उन्होंने आर्थिक नीतियों में जो फैसले लिए, आज उसका नतीजा है कि हम दुनिया में बराबरी पर हैं। वो एक अर्थशास्त्री भी थे, कम बोलते थे लेकिन उस समय उन्होंने जो फैसले लिए, उससे आज पता चलता है कि उन्होंने कितनी सावधानी से वो फैसले लिए... देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने के पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का आज रात निधन होने की खबर अति-दुखद। भारत की अर्थव्यवस्था सुधार में उनका खास योगदान रहा। वे नेक इंसान थे। उनके परिवार व सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना।कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन के निधन दुख

व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी हमारे लिए अभिभावक और मार्गदर्शक थे, जिन पर हमें सदैव गर्व रहेगा। वे देश के करोड़ों लोगों के लिए आदर्श थे। वे सेवा, सादगी और समर्पण की मिसाल थे। आज करोड़ों आंखें नम हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितम्बर 1932 गांव गाह, चकवाल जिला, पंजाब, भारत में हुआ था (आज पंजाब, पाकिस्तान) देश बंटवारे के दौरान पूरा कुछ समय बाद उनका परिवार पाकिस्तान से अमृतसर आकर बस गया था मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ ।उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भरत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गये। जहाँ से उन्होंने पीएच. डी. की। तत्पश्चात् उन्होंने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी. फिल. भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेंड ग्रोथ भारत की अन्तर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉ? सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफी ख्याति अर्जित की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफइकोनॉमिक्स में प्राध्यापक रहे। डॉ? सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किये गये। इसके तुरन्त बाद1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल के वर्षों में सबसे उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना गया है। आम जनमानस में ये साल निश्चित रूप से डॉ? सिंह के व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। डॉ? सिंह के परिवार में उनकी पत्नी गुरशरण कौर और तीन बेटियां हैं।

आरएलडी की सैकड़ों लोगों ने ली सदस्यता

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) द्वारा आयोजित समरसता अभियान के तहत लखनऊ की पश्चिम विधानसभा के राजाजीपुरम में सैकड़ों लोगों ने रालोद की सदस्यता ग्रहण की।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश सचिव मयंक त्रिवेदी ने की, जबकि संचालन रालोद नेता सम्राट सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रालोद नेता अनिल दुबे और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सचिव विजय श्रीवास्तव मौजूद रहे। इनके साथ ही व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रोहित अग्रवाल, प्रोफेशनल मंच के अध्यक्ष अम्बुज पटेल, महासचिव रामवती तिवारी, प्रीति श्रीवास्तव, आमिर साबरी और विवेक पांडे जैसे प्रमुख नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने रालोद राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान नीरज तिवारी सहित अन्य समर्थकों ने पार्टी के उद्देश्यों को सराहा और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर काम करने का संकल्प लिया। 23 दिसंबर से शुरू हुए इस समरसता अभियान का उद्देश्य विभिन्न वर्गों को साथ लाकर चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान रालोद नेताओं ने पार्टी की नीतियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह की किसान हितैषी नीतियों और समरसता के संदेश को घर-घर पहुंचाने का यह प्रयास जारी रहेगा। इस सदस्यता अभियान ने रालोद के लिए नई ऊर्जा का संचार किया है।

मंजू गौतम के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रतिवाद सभा 29

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। भाकपा(माले) की जिला कमेटी की सदस्य का0 मंजू गौतम के ऊपर हुए जान लेवा हमले के खिलाफ, हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिनांक 29 दिसम्बर 2024 को अपराह्न 01 बजे एकता नगर हरदासी खेड़ा में प्रतिवाद सभा की जाएगी।

यह निर्णय पार्टी की जिला कमेटी की लाल कुआं लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सम्पन्न हुई बैठक में लिया गया। बैठक में हमले की कड़ी निन्दा करते हुए थाना चिनहट पुलिस द्वारा हमलावरों को बचाने के लिए मुकदमें को कमजोर करने और अभी तक हमलावरों को गिरफ्तार न करने की कड़ी आलोचना की गई।

बैठक के बाद प्रेस को जारी बयान में यह जानकारी देते हुए भाकपा माले के जिला प्रभारी का0 रमेश सिंह सेंगर ने कहा कि योगी राज में जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि पुलिस के रवैए के चलते इस राज में अपराधी भयमुक्त हो गये हैं। उन्होंने कहा कि एक राजनैतिक कार्यकर्ता के ऊपर जान लेवा हमला किया जाता है।

हमलावर सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। उनकी शिनाख्त भी हो जाती है लेकिन पुलिस उन्हें बचाने के लिए

मुकदमें को हल्का करने और एन सी आर दर्ज करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह से अपराधियों की हौसला अफजाई की जा रही है।

का0 सेंगर ने कहा कि मंजू गौतम के हमलावरों के विरुद्ध अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो पार्टी प्रतिवाद सभा में आगामी आन्दोलन की घोषणा करेगी।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की समीक्षा बैठक

- महाकुंभ 2025 की थीम पर दिखाएंगी भारतीय संस्कृति का वैभव

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। आगामी गणतंत्र दिवस 2025 को भव्यता और गरिमा प्रदान करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने इस वर्ष के आयोजन को अधिक आकर्षक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद बनाने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि 26 जनवरी को विधानसभा के सामने आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद केडी सिंह बाबू स्टेडियम में वृहद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं आकर्षक प्रस्तुतियां देंगे। झांकियों, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस बार काकोरी एक्शन और अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि जैसे विशेष अवसरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। झांकियों, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस बार काकोरी एक्शन और अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि जैसे विशेष अवसरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस वर्ष की झांकियों में महाकुंभ 2025, काकोरी एक्शन की 100वीं वर्षगांठ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं पुण्यतिथि और आजादी का अमृत महोत्सव जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। झांकियां विधान सभा मार्ग से होते हुए हजरतगंज, राणा प्रताप तिराहा, और अन्य मार्गों से गुजरेंगी। 22 जनवरी को प्रथम पूर्वाभ्यास और 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित होगी। परेड में सेना, सीआरपीएफ होमगार्ड, एनसीसी और पुलिस की टुकड़ियां शामिल होंगी। यातायात और सुरक्षा के लिए विशेष योजना बनाई गई है।

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर सख्त हुई मंडलायुक्त

अवैध प्लाटिंग करने वालों पर एफआईआर के निर्देश

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने के अभियान के तहत मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने तहसील सरोजनी नगर के ग्राम सभा हरिहरपुर में निरीक्षण किया। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र का जायजा लिया और सख्त निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने ग्राम हरिहरपुर में सरकारी भूमि (गाटा संख्या 636) पर प्रॉपर्टी डीलर गुड्डा देवी द्वारा किए गए अवैध कब्जे और प्लाटिंग पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसी तरह, फ्रेंड्स कॉलोनी द्वारा गाटा संख्या 505, 513, और 504 पर अवैध कब्जे के मामले में भी प्रोपराइटर पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के बाद अगर दोबारा अवैध कब्जा पाया गया, तो संबंधित बिल्डर और रजिस्ट्री कराने वाले के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूमि पर कब्जा करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम बनाई गई है।

यह टीम भूमि की पैमाइश, जीएस मैपिंग और जीरो टैगिंग का काम कर रही है। मंडलायुक्त ने उप जिलाधिकारियों को

भू-माफियाओं के खिलाफ प्राथमिकता से कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के बाद, उसे संरक्षित करने और वहां बोर्ड लगाने के भी आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि चिन्हित भूमि पर कब्जा दोबारा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मंडलायुक्त ने सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने और अवैध प्लाटिंग और बाउंड्री को ध्वस्त करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए है।

संक्षिप्त खबरें

महासचिव पंकज मेहरोत्रा का इस्तीफा नामंजूर

लखनऊ। जवाहर भवन इंदिरा भवन के महासचिव पंकज मेहरोत्रा का इस्तीफा अध्यक्ष मीना सिंह द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और कमेटी के सभी पदाधिकारी ने एक बैठक में कहा कि पंकज भाई कर्मचारी हित में कार्य करते हैं इनका इस्तीफा हम सभी को मंजूर नहीं है। सभी ने एकजुट होकर पंकज मेहरोत्रा से जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी वेलफेयर संगठन में महासचिव के पद पर बने रहने का अनुरोध किया जिसे पंकज मेहरोत्रा ने मान लिया। मेहरोत्रा ने कहा की मैं अपने कर्मचारी साथियों की भावनाओं को आहत नहीं कर सकता,कर्मचारियों के हित में मैं महासचिव का पद पुनः ग्रहण कर रहा हूँ।

युवक ने फांसी लगाई, आंगन के जाल से लटका मिला शव

लखनऊ। बंथरा में शुक्रवार सुबह एक युवक फांसी के फंदे पर लटक गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। खटोला गांव निवासी रामप्रताप रावत का बेटा उमेश (25) सुबह करीब सात बजे आंगन में लगी जाल से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। परिजनों ने जब यह देखा तो चीख-पुकार मच गई। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पिता राम प्रताप ने बताया कि तड़के करीब 4 बजे उमेश अपने कमरे से निकलकर बाहर चला आया था। सुबह करीब 7 बजे घर के लोगों ने देखा तो वह आंगन में लगी जाल से दुपट्टे के सहारे मृत लटका मिला। सूचना पर पहुंची बंथरा थाना पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाया। पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। फिलहाल आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मृतक उमेश के परिवार में पिता राम प्रताप के अलावा मां लीलावती, बड़ा भाई सुभाष, बहन केतकी, रितु और खुशबू हैं। उमेश की 2 वर्ष पहले मोहनलालगंज के नवल खेड़ा, डेहवा में रहने वाली मोनी के साथ शादी हुई थी। उमेश शटरिंग का काम करता था।

युवक ट्रेन से कटा, पुलिस शिनाख्त में जुटी

लखनऊ। मलिहाबाद के भुलभुला खेड़ा गांव के पास शुक्रवार दोपहर एक युवक ट्रेन से कट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। वहीं आस-पास के ग्रामीणों से शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। मगर पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया कि भुलभुला खेड़ा गांव के पास स्थित रेलवे लाइन पर करीब 25 वर्षीय अज्ञात युवक का क्षतविक्षत शव मिला। मृतक ने काले रंग का लोवर और लाल टीशर्ट पहन रखी थी। आस-पास के गावों के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो सकी। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

8वीं शैल बाला मेमोरियल ओपन चेस टूर्नामेंट

लखनऊ। शिवाजी मार्ग स्थित प्रिसिशन चेस एकेडमी में खेले जा रही 8वीं शैल बाला मेमोरियल ओपन चेस टूर्नामेंट के तीसरे चक्र की समाप्ति के पश्चात् प्रतियोगिता के चतुर्थ वरीय अर्जुन सिंह (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग 1595) ने 3 अंको के साथ एकल बढ़त बना ली। पहले बोर्ड पर सफेद मोहरों से खेलते हुए आदित्य सक्सेना (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग 1595) और शीर्ष वरीय पवन बाथम (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग 1983) के मध्य सिसिलियन डिफेन्स में बाजी ड्रा रही, दूसरे बोर्ड पर प्रणव रस्तोगी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग 1533) और लक्ष्य निगम (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग 1612) के बीच भी सिसिलियन डिफेन्स खेला गया 60 चालो बाद अंततः बजी बराबरी पर छूटी, तीसरे बोर्ड पर अर्जुन सिंह (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग 1595) और आरव गुप्ता (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग 1522) के बीच इरेंगुलर ओपनिंग से खेल की शुरुआत हुई, मध्य खेल में अर्जुन ने किंग साइड पर जोरदार हमला करते हुए 38 चालो में आरव को बाजी छोड़ने पर मजबूर कर पूरा अंक हासिल किया। तीसरे चक्र के पश्चात् अंक स्थिति इस प्रकार है- अर्जुन सिंह 3 अंकों के साथ प्रतियोगिता में एकल बढ़त बनाये हुए है जबकि पवन बाथम, अभीष्ट खरे, लक्ष्य निगम, आराध्य गुप्ता, शनि कुमार सोनी, प्रणव रस्तोगी और आदित्य सक्सेना 2.5-2.5 के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर चल रहे है।

जन्म-मृत्यु और फूड लाइसेंस का किया जाए सरलीकरण

लखनऊ जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और फूड लाइसेंस को बनवाने का तरीका सरल करने की मांग कर कर्मचारी महासंघ ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। संस्था के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रक्रिया आसान होने से लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अभी लोगों को कठिन प्रक्रिया के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र एक साल बाद बनवाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। महासंघ ने कहा कि वर्तमान में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु महा रजिस्ट्रार भारत सरकार की देखरेख में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाते हैं। जन्म और मृत्यु के 21 दिन में आम जन मानस जन्म और मृत्यु स्थान वाले निकायों में पंजीकरण कराके निः शुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं,लेकिन जन्म और मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष तक नहीं करा सकने पर नगर मजिस्ट्रेट और एसडीएम कोर्ट में शपथपत्र पत्र के साथ जन्म-मृत्यु के साक्ष्यों के साथ सभी जरूरी दस्तावेज लेकर सीआरएस पोर्टल पर आवेदन करना होता है। इसके बाद इसकी तहसीलदार,लेखपाल से जांच होती है। इसमें लोगों को संबंधित आदेश होकर ऑनलाइन निकायों में आता है। फिर जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें लोगों को 2 से 3 हजार रुपए तक का खर्च करना पड़ जाता है। महासंघ के लोगों ने इसमें सुधार की मांग की है। महासंघ की तरफसे कहा गया कि प्रदेश के खानपान,पूडी, खस्ता,चाट की दुकानों, छोटे-छोटे फूड स्टालों को फूड लाइसेंस सुगमता से प्राप्त नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का समाना करना पड़ रहा है। इससे लोग परेशान हैं। महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने कहा कि वर्तमान फूड लाइसेंस प्रशासन की तरफ से जारी किए जाते हैं। आरोप है एसडीएम स्तर से जारी होने लाइसेंस में लोगों को 2 हजार रुपए तक खर्च करना पड़ता है। उनका कहना है कि 90 प्रतिशत लोग फूड लाइसेंस जारी नहीं कराते हैं। उन्होंने प्रक्रिया को आसान कराने की मांग की है।

महिलाओं के लिए संचालित पंचायतीराज विभाग की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन

लखनऊ। राज्य महिला आयोग में ''पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदेश की महिलाओं के लिये संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी'' विषय पर आज एक कार्यशाला का आयोजन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान उपाध्यक्ष चारू चौधरी, राघवेन्द्र द्विवेदी, उप निदेशक पंचायती राज विभाग स्वाती गुप्ता कार्य अधिकारी निदेशालय पंचायती राज विभाग सुनीता सिंह राज्य सलाहकार पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह को पदाधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।जागरूकता कार्यक्रम में पंचायती राज के अधिकारीगण द्वारा प्रदेश में महिलाओं के लिये संचालित पंचायत सामान्य निर्वाचन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से प्रधानों की क्षमता संवर्द्धन, स्वच्छ भारत मिशन ग्राम, उपहार स्वरूप इज्जतघर, लो कास्ट सैनिटरी नैपकीन उत्पादन कार्यक्रम, महिलाओं द्वारा मानवमल ढोने की प्रथा का अंत, महिला रोजगार स्वावलम्बन एवं सामुदायिक शौचालय संचालन, मासिक धर्म स्वच्छता अपशिष्ट प्रबन्धन इन्सनीरेटर निर्माण, केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग, मिशन शक्ति अन्तर्गत विभिन्न फेजों में महिला केन्द्रित गतिविधियों का संचालन, पंचायतों को पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहन एवं सतत् विकास लक्ष्यों की स्थानीय स्तर पर प्राप्ति आदि योजनाओं के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी दी गयी।कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में महिला आयोग के पदाधिकारियों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष द्वारा मासिक बैठक में विगत माह में आयोग पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में महिला जनसुनवाई, वन स्टाप सेन्टर, महिला चिकित्सालय, महिला बन्दीगृह, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आदि के निरीक्षण की समीक्षा की गयी।

बैंक लॉकर काटने वाला आखिरी लुटेरा गिरफ्तार, 25 हजार का था इनाम

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर काटने वाले सातवें बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस ने इस पर भी 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी के पास से 1 लाख रुपए नकद, ज्वेलरी और बाइक बरामद हुई है। चिनहट थाना प्रभारी ने बताया, बैंक में चोरी करने वाले मिथुन कुमार बिंद को अपट्रॉन चौराहे के पास नेड़ा मोड़, देवा रोड से पकड़ा गया है। मिथुन मूल रूप से बिहार मुंगेर के पुरुषोत्तमपुर चोरगांव का रहने वाला है।

आरोपी के पास से 126.14 ग्राम सोने के जेवर, 893 ग्राम चांदी के जेवर, एक लाख रुपए नकद, बैंक लॉकर के 13 कटे हुए टुकड़े, एक हथौड़ा, लोहे की छीनी, ग्लैन्डर मशीन और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मिथुन ने पूछताछ में बताया कि वह अपने गिरोह के साथ मटियारी स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार तोड़कर अंदर घुसा था। बैंक लॉकर तोड़कर कीमती जेवरात और नकदी चोरी किए थे। बता दें, कुल 7 बदमाशों ने बैंक में चोरी की वारदात की थी। अब तक इस केस में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। मास्टरमाइंड विपिन समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बैंक में लॉकर काटने का सीसीटीवी मंगलवार को सामने आया था। बदमाश हुडी पहनकर अंदर घुसे। बार-बार सीसीटीवी की ओर देख रहे थे। फुटेज में तीन बदमाश बैंक के अंदर दिख रहे हैं। एक बदमाश के हाथ में बैग है, जबकि दूसरे के हाथ में रस्सी और मोबाइल दिख रहा है। तीसरा बदमाश लॉकर काटता दिख रहा है। फुटेज रविवार (22 दिसंबर) तड़के 4.36 बजे का है। लॉकर काटने वाले गैंग में कुल 7 आरोपी शामिल थे। दो बदमाशों का 4 घंटे के भीतर पुलिस ने एनकाउंटर किया था। पहला एनकाउंटर लखनऊ में सोमवार रात साढ़े 12 बजे हुआ। दूसरा लखनऊ से 350 किमी दूर गाजीपुर के गहमर में मंगलवार तड़के साढ़े 4 बजे हुआ। जबकि कैलाश, अरविंद, बलराम, विपिन और मिथुन गिरफ्तार किए गए हैं।

लगातार चल रहा माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना

लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति का धरना /याचना 18 दिसंबर से अनवरत चल रहा है आज पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन से संघर्ष समिति के समस्त पदाधिकारी एवं लगभग 36 जनपदों से आए तदर्थ शिक्षकों ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की और याचना कार्यक्रम को स्थगित कर दिया यह याचना कार्यक्रम विभिन्न रिट में लगभग 300 शिक्षकों को वेतन देने का आदेश दिया है।

लखनऊ/ इलाहाबाद हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 8300 /2016 संजय सिंह को मेंशन करते हुए विभिन्न रिट में विद्वान न्यायाधीशों ने 2000 के बाद तदर्थ शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का आदेश डायस् को दिया है और कटेंप्ट भी हुए है।

वेतन की मांग को लेकर संविदा बिजली कर्मचारियों का हंगामा

वृंदावन पावर हाउस ऑफिस घेरा

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में पीजीआई के वृंदावन योजना सेक्टर-5डी स्थित 33/11केवी विद्युत उपकेंद्र पर शुक्रवार को संविदा कर्मियों ने हंगामा किया।

उपकेंद्र का घेराव कर नारेबाजी की। संविदाकर्मियों ने कहा दो महीनों से सैलरी नहीं दी गई है। अगर सैलरी नहीं मिली तो काम बंद कर देंगे। सूचना पर अधीक्षण अभियंता ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों की समझा बुझाकर उन्हें वापस काम पर भेजा। संविदा कर्मचारी सोनू गौतम और शिव कुमार ने कहा दो माह से हम लोगों को वेतन नहीं मिला। घर चलाना मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग माता-पिता की दवाएं खरीदना है। घर का राशन खत्म हो गया है। बच्चों के स्कूल की फीस तक बाकी है। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीने से वेतन की मांग को लेकर अधिकारियों के सामने गुहार लगा रहे हैं। मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केवल आश्वासन मिला था, कि सबको वेतन मिल जाएगा मगर नहीं मिला। अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से बात कर उन्हें जल्द वेतन भुगतान का आश्वासन दिया। इसके साथ ही काम पर वापस भेजा। पॉवर हाउस सेक्टर 9 वृन्दावन योजना के अधिशासी अभियंता अमित आनंद ने बताया कि पिछले महीने वेतन भुगतान प्रक्रिया बदलने से भुगतान में देरी हुई है। दो दिन में भुगतान किया जाएगा।

पुलिस ने तीन चोर और माल खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। बंथरा पुलिस ने शुक्रवार को चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया। तीनों की निशानदेही पर माल खरीदने वाले कबाड़ी को भी पकड़ा। आरोपी खेतों से पंप सेट चुराकर इंजन और अन्य उपकरणों को अलग-अलग कर बाजार में बेच देते थे। उपनिरीक्षक साजिद शाह ने बताया कि बंथरा के बीबीपुर गांव निवासी दीपू चौरसिया, साहिल रावत और सरोजनी नगर के बद्री नगर नादर गंज निवासी मुस्तकीम शेख को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में तीनों ने बताया कि उसने चोरी किए पंपिंग सेट के इंजन सरोजनी नगर के बदाली खेड़ा निवासी कबाड़ी इमरान अंसारी की ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दुकान में बेचे हैं। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने कबाड़ी इमरान अंसारी को उसकी दुकान से मय चोरी के इंजन सहित पकड़ लिया। पुलिस ने चारों खुले इंजन बरामद करने के साथ ही तीनों चोरों और एक कबाड़ी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों आरोपियों ने बंथरा इलाके में 3 दिन पहले किसानों के खेतों से चार डीजल पंपिंग सेट इंजन चोरी कर लिए थे। बंथरा थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि बीबीपुर गांव में रहने वाले कमलेश चौरसिया और तीन अन्य लोगों के खेतों पर सिंचाई के लिए लगे चार डीजल इंजन बीती 24 ध्25 दिसंबर की रात चोरी हो गए थे। इस पर कमलेश चौरसिया ने शुक्रवार को बंथरा थाने में धारा 303(2) के तहत चोरों के खिलाफरिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश कर रही थी। दोपहर करीब 11 बजे मुखबिर से उसे सूचना मिली कि घटना में शामिल तीन युवक कुरौनी मोड़ के पास देखे गए हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को बताई गई जगह से दबोच लिया। चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

48 घंटे के भीतर भाकियू नेता के घर से 10 लाख रुपये के गहने चोरी, प्राथमिकी दर्ज

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। रहीमाबाद थाना अंतर्गत अहमदाबाद गांव में गुरुवार रात चोरों ने भाकियू नेता के बंद मकान का ताला तोड़ दिया। जिसके बाद चोरों ने अलमारी में रखे पुश्तैनी गहने, नकदी व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पार कर दिए। घर में हुई चोरी की जानकारी मिलते ही भाकियू नेता ने सम्बन्धित थाने में लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। फिलहाल, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह के मुताबिक, अहमदाबाद गांव भाकियू नेता अनूप सिंह सपरिवार रहते हैं। करीब 15 दिन पूर्व वह परिवारिक सदस्यों के साथ पारा के बुद्धेश्वर मकान में रह रहे थे। जबकि, इनके पुश्तैनी मकान में ताला पड़ा था। बीती रात चोरों ने उनके बंद मकान का ताला तोड़ अलमारी में रखी ज्वैलरी, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पार कर दिए। शुक्रवार सुबह पड़ोसियों ने मकान का ताला टूटा देख पीड़ित को घर में हुई चोरी की सूचना दी। भाकियू नेता ने बताया कि जब वह पुश्तैनी मकान में पहुंचे तब उन्हें मेनगेट पर लटका ताला टूटा मिला। इसके साथ ही कमरों में सभी ताले टूटे मिले। बताया कि अलमारी में रखा सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। चोरों ने अलमारी में सुरक्षित रखे पुश्तैनी गहने पार कर दिए है। इसके साथ ही चोर डीवीआर भी अपने साथ लेकर चले गए। पीड़ित ने चोरी हुए गहनों की कीमती करीब 10 लाख रुपये की बताई है। अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है। बावजूद इसके चोरों का सुराग नहीं मिल सका है। प्रथम दृष्टया में चोरों ने मकान की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि 24 दिसम्बर की रात करीब दो बजे मलिहाबाद के माधौपुर गांव में चार बदमाशों में घर में घुसकर दंपति को गोली मारने की धमकी देते हुए जेवरात और नकदी लूट ली थी। इसका खुलासा होने से पूर्व 48 घंटे के भीतर चोरों ने मलिहाबाद सीमावर्ती क्षेत्र के अहमदाबाद गांव में भाकियू नेता के घर से दस लाख के पुश्तैनी गहने पार कर दिए है। हालांकि, इन दोनों घटनाओं के बाद से ग्रामीणों के जेहन में दहशत व्याप्त है।

एलडीए ने गोमती नगर में अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित विराम खंड में शुक्रवार को एलडीए ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। यहां अतिक्रमण कर बनाए गए पक्के निर्माण को तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। एलडीए अधिकारियों ने बताया कि विराम खंड में 24 दिसंबर को सीलिंग की कार्रवाई यादव दूध डेयरी पर की गई थी। यहां पर नियमों का उल्लंघन कर अवैध निर्माण किया गया था, जिसके बाद यहां पर अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही भूखंड संख्या 1/122 पर अनुराग, अरविंद और आदित्य त्रिपाठी की तरफ से अवैध निर्माण किया गया है। प्राधिकरण सचिव से शिकायत की गई। नक्शा पास नहीं होने के चलते यहां पर भी ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सुबह से ही एलडीए की टीम अधिकारियों और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया कि पहले टिन शेड को तोड़ा गया। इसके बाद पक्के अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि एलडीए की तरफ से अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

लखनऊ नगर निगम वसूलेगा प्रॉपर्टी टैक्स

नगर आयुक्त ने कहा- 15 जनवरी तक करें कार्रवाई

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ नगर नगर निगम में टैक्स नहीं वसूल पाने वाले अधिकारियों को कार्यमुक्त करने की तैयारी कर ली गई है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जोन 3 कार्यालय, कपूर थला में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में बैठक की। इसी दौरान यह निर्देश दिया गया। नगर निगम के जोन 3 में वित्त वर्ष में 85 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य तय किया था। अधिकारी अभी तक सिर्फ 4 करोड़ 61 लाख 83 हजार 212 रुपए ही टैक्स वसूल पाए हैं। इसी मुद्दे पर नगर आयुक्त ने कर निरीक्षक, कर अधीक्षक, जोनल अधिकारी अमरजीत सहित, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के साथ बैठक की। नगर निगम जोन 3 में कदम रसूल, लाला लाजपत राय, महा कवि जयशंकर प्रसाद, महानगर, मनकामेश्वर वार्ड आते हैं। यहां टैक्स कलेक्शन लक्ष्य की तुलना में कम रहा। इस पर नगर आयुक्त ने मधुरेश कुमार, वीरेंद्र कुमार को चेतावनी दी। आजाद अहमद के अनुपस्थित रहने के कारण और टैक्स मांग पिछले वर्ष की तुलना में कम होने के कारण एडवर्स एंट्री दर्ज की। नगर आयुक्त ने सख्त निर्देश दिया कि 31 मार्च तक कोई भी भवन परिवर्तन कर निर्धारण से छूटने न पाए। नगर आयुक्त ने साफ किया कि प्रॉपर्टी टैक्स की 100 फीसदी वसूली 15 जनवरी तक करनी होगी। साथ ही कहा कि किसी भी कर निरीक्षक का 10 भवन, 50 हजार रुपए प्रति वार्ड वसूली और 10 नए कर निर्धारण से कम का आंकड़ा होगा, उनके साथ मीटिंग की जाएगी। जो टैक्स इंस्पेक्टर टारगेट पूरे करेंगे, उन्होंने पुरस्कृत किया जाएगा। जो लोग लापरवाही करेंगे उन्हें कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। नगर निगम ने जोन 1 में 100 करोड़, जोन 2 में 35 करोड़, जोन 3 में 85 करोड़, जोन 4 में 100 करोड़, जोन 5 में 45 करोड़, जोन 6 में 60 करोड़, जोन 7 में 100 करोड़ और जोन 8 में कुल 100 करोड़े रुपए टैक्स वसूली का टारगेट फिक्स किया है। इससे कम वसूली वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

भागवत कथा में पुतना वध की चर्चा

लखनऊ। श्री शिव श्याम मंदिर समिति की ओर से सदर मे चल रही श्रीमद्भागवत कथा मे शुक्रवार को नैमिषारण्य के आचार्य सुधीर कृष्ण शास्त्री ने उधना वध की कथा सुना कर भक्तों को भाव व्यवहार कर दिया उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान का गोकुल में नंदोत्सव मनाया जाने लगा सभी झूम रहे हैं त्रैलोक्य का स्वामी स्वयं उनके मध्य में आ गया सब प्रमुदित है मगन है लेकिन कंश परेशान है की कहीं ये वही बालक तो नहीं जो मुझे मारने वाला है इसलिए पूतना को भेजा पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर श्री प्रभु को मारने आई भगवान ने दुष्ट का वध किया भगवान बाल लीलाओ से सभी को मोहित करने लगे समस्त ब्रजमंडल धन्य है ठाकुर को पकर भगवान ने माखन चोरी की लीला की एक बार तो दही मथने वाली मटकी को ही फोड़ दिया माँ ने ऊखल से बाँध दिया भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। कालिदह में नाग को नाथा अघसुर बकासुर आदि राक्षसों का संघार किया गोवर्धन पूजा बहुत ही धूम धाम से मनाया गया। कथा के मुख्य यजमान संत कुमार दुबे, सुनैनादुबे, रेणु देवी जी रमेश कुमार, सनी माली, दिनेश कुमार, अनिल कुमार, मुकेश कुमार, विजय अग्रवाल मौजूद रहे।

डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करने वाला गिरफ्तार

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने डॉक्टर के साथ लाखों की ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी चाइनीज साइबर ठग गिरोह को बैंक खाते उपलब्ध कराता था। जिनमें साइबर फ्रॉड का पैसा ट्रांसफर किया जाता था। इस गिरोह ने लखनऊ के डॉ. अशोक सोलंकी को दो दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख रुपए की ठगी की थी। यूपी एसटीएफ के मुताबिक, गाजियाबाद के मुरादनगर जलालाबाद के रहने वाले कृष्ण कुमार उर्फसुनील को एसटीएफने गुरुवार रात को गिरफ्तार किया। वह हरदोई रोड पर अवध हॉस्पिटल के पास किसी के इंतजार में खड़ा था। बीटेक की पढ़ाई छोड़कर साइबर ठगी में शामिल कृष्ण कुमार उर्फसुनील साइबर ठगों को खाते उपलब्ध कराता था। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, छह डेबिट कार्ड, 3 चेकबुक, दो एटीएम किट और एक बैंक अकाउंट किट बरामद हुई है। एसटीएफ ने पांच साथियों को 14 नवंबर को गुरुग्राम हरियाणा से, 16 नवंबर को लखनऊ से दो और तीन दिसंबर को 3 साथियों को पकड़ चुकी है। अब तक इस केस में कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में कृष्ण कुमार ने बताया कि वर्ष 2016 में आधुनिक इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में बीटेक में एडमीशन लिया था, लेकिन एक साल बाद ही छोड़ दी। मोनार्ड युनिवर्सिटी हापुड से बीएससी किया। अक्टूबर 2023 में राहुल चौहान से मुलाकात हुई। जो गाजियाबाद मुरादनगर में मेडिकल स्टोर चलाता है। राहुल ने गेमिंग, स्कैमिंग, मिक्सिंग और स्टॉक पर काम करने के बारे में बताया। जिसके लिए कार्पोरेट अकाउन्ट दिलवाने की बात कही। बताया कि मोटा कमीशन मिलेगा। इसके बाद कॉर्पोरेट खाते को रेंट पर लेने के लिए उसने टेलीग्राम के माध्यम से राजकुमार और पंकज सुरेला से संपर्क किया। यह लोग उसको कमीशन पर कॉर्पोरेट बैंक खाता की डिटेल ध् किट दिलाते थे। पूछताछ में कृष्ण कुमार ने बताया कि अगस्त में डॉ. अशोक सोलंकी के साथ ठगी उसके साथियों ने की थी। राजकुमार ने 12 अगस्त को वॉट्सऐप कॉल करके सेक्टर 52 के एक होटल बुलाया। जहां कार्पोरेट बैंक खाता धारक नागेंद्र पाठक से उनके बैंक खाते की एसएमएस अलर्ट सिम ले लिया। उसमें एपीके फाइल के माध्यम से वेलकम एप डाउनलोड किया, जिससे अकाउंट में ओटीपी आने लगा। इसके बाद यह एपीके डिवाइस, बैंक खाते का इंटरनेट बैंकिंग आईडी-पासवर्ड, एटीएम कार्ड चेकबुक आदि लेकर होटल शिवम मोहन नगर गाजियाबाद राहुल के पास गया। वहां पर वॉट्सऐप काल से मुहफिजुद्दीन से संपर्क कर चाइनीज गिरोह के माध्यम से उस बैंक खाते में साइबर ठगी का करीब 8.8 करोड रुपए का ट्रांजेक्शन कराया। जिसमें से 12 लाख रुपए राजकुमार की टीम और बाकी मुहफिजुद्दीन ने यूएसडीटी में बदल कर चाइनीज गिरोह को उनके वालेट में भेज दिया।

नाला खुदाई के दौरान सीएनजी पाइप लाइन टूटी,गैस रिसाव से हड़कंप

लोकमित्र ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में शुक्रवार को पीएनसी की लापरवाही से नाला खुदाई के दौरान सीएनजी पाइपलाइन टूट गई, जिससे गैस का रिसाव होने लगा। इससे अफरा-तफरी मच गई। आनन फानन में पुलिस और फायर कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से लोगों को दूर हटाया।कानपुर एलिवेटेड रोड निर्माण में लगी पीएनसी कंपनी कर्मचारी दोपहर करीब 12 बजे जेसीबी मशीन से खुदाई कर रहे थे। गौरी बाजार में हीरालाल यादव डिग्री कॉलेज के पास नाला बनाने के लिए मिट्टी निकाली जा रही थी। जेसीबी से भूमिगत सीएनजी पाइप लाइन टूट गई और उससे गैस का रिसाव होने लगा। पीएनसी कर्मी रिसाव बंद करने में जुट गए। ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल) के इंजीनियरों ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक किया। सूचना के बाद जब तक दमकल गाड़ी पहुंची, तब तक रिसाव बंद किया जा चुका था।

घटना के बाद आस-पास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि अगर तुरंत इस मामले में ध्यान न दिया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।

संपत्ति न खरीदने पर प्रॉपर्टी डीलर ने जान से मारने की दी धमकी

तीन पर मुकदमा दर्ज

लोकमित्र ब्यूरो

इंदिरापुरम। ज्ञानखंड एक निवासी मनीष कुमार अग्रवाल ने गाजियाबाद निवासी प्रॉपर्टी डीलर प्रांशु अरोड़ा और उनके दो साथी अंजुम अतरेजा व मनोज गौड़ के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर की बताई संपत्ति को खरीदने से इनकार करने पर आरोपियों ने गला काटकर जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मूलरूप से बुलंदशहर के कृष्णानगर निवासी मनीष परिवार के साथ इंदिरापुरम में रहते हैं। कविनगर में संपत्ति खरीदने को लेकर उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर प्रांशु अरोड़ा से बातचीत की थी। डीलर ने कविनगर में 1.25 करोड़ की एक संपत्ति के बारे में उन्हें बताया। जब पीड़ित ने संपत्ति के दस्तावेज देखने के लिए मांगा तो डीलर और उनके साथी अंजुम अतरेजा ने 10 हजार रुपये की मांग का।

23 सितंबर की शाम करीब छह बजे पीड़ित और डीलरों की एक बार फिर संपत्ति को लेकर मुलाकात हुई। तब पीड़ित ने संपत्ति खरीदने से मना कर दिया। आरोप है कि तब से प्रॉपर्टी डीलर और उनका एक अन्य साथी मनोज गौड़ उन्हें फोन पर लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि तीन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी नमो भारत से जाएंगे साहिबाबाद से आनंद विहार स्टेशन

इसके लिए पीएम पहले दिल्ली से हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से साहिबाबाद के नमो भारत स्टेशन पर आएंगे

लोकमित्र ब्यूरो

साहिबाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली के नमो भारत ट्रेन के न्यू अशोक नगर और आनंद विहार का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए पीएम पहले दिल्ली से हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से साहिबाबाद के नमो भारत स्टेशन पर आएंगे। यहां से ट्रेन में सवार होकर अशोक नगर पहुंचेंगे।

हालांकि, उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं किया गया है। पुलिस अधिकारियों के पास प्रस्तावित कार्यक्रम आया है। इसी के आधार पर तैयारियां की जा रही हैं। बृहस्पतिवार को दिनभर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी साहिबाबाद से अशोक नगर रूट पर सुरक्षा का जायजा लेते रहे। एसपीजी की टीम भी साथ रही।

एसपीजी के साथ पुलिस अफसरों की मैराथन बैठक हुई, जो पांच घंटे चली। बैठक में पुलिस, प्रशासन, नगर निगम, जीडीए, लोक निर्माण विभाग, एनसीआरटीसी और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे।

ससुर ने मकान बेचा, बहू ने ताला तोड़कर किया मकान पर कब्जा

साहिबाबाद। पसौंड़ा निवासी खुशबू ने दो महिलाओं के खिलाफ नया घर में कब्जा करने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने दो महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खुशबू ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले पसौंड़ा निवासी रामस्वरूप शर्मा से 16 दिसंबर को एक मकान खरीदा था। वह नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही थीं। बताया कि 22 दिसंबर की शाम दो महिलाएं घर पहुंची और ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई। इसके बाद अपना ताला डालकर कब्जा करके बैठ गईं। अब दोनों महिलाएं घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि रामस्वरूप ने बिना पुत्र-वधु को बताए मन बेकाच दिया था। जब बहू सीमा को इसका पता चला तो वह घर में घुस गई। एसीपी साहिबाबाद रजनीश उपाध्याय ने बताया कि मामले में पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आज आएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनएच 24 पर होगा स्वागत

लोकमित्र ब्यूरो

गाजियाबाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को दिल्ली से मुरादाबाद जाएंगे। गाजियाबाद पहुंचने पर उनके स्वागत की तैयारी में महानगर संगठन के पदाधिकारी जुट गए हैं। महानगर अध्यक्ष व विधायक संजीव शर्मा ने बताया कि विजयनगर बाईपास के निकट उनका स्वागत किया जाएगा। इस दौरान वह मंच पर आकर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। सुबह 10 बजे वह विजयनगर पहुंचेंगे। स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। बृहस्पतिवार को स्वागत समारोह की तैयारी के लिए नेहरूनगर स्थित कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया।

तैयारी बैठक का जायजा लेने क्षेत्रीय मंत्री आशीष वत्स पहुंचे। इस मौके पर सभी मंडल अध्यक्षों और महानगर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में विजेंद्र नागर, महानगर अध्यक्ष व विधायक संजीव शर्मा, महामंत्री पप्पू पहलवान, गोपाल अग्रवाल, राजेश त्यागी, उपाध्यक्ष बॉबी त्यागी, मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी, महिला मोर्चा अध्यक्ष उदिता त्यागी, कुलदीप त्यागी और सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे।

महिला उन्नति संस्था ने गरीबों को बांटे कंबल

हमारा छोटा सा प्रयास बन सकता है होंठों की मुस्कानः रेनू बाला शर्मा

देव मणि शुक्ल

नोएडा सर्दी का मौसम, तेज वर्षा एवं पहाड़ो पर हो रही बर्फबारी, शीत लहर के कारण मैदानी इलाक़ों मे कड़ाके की ठंड दिन पर दिन बढने लगी है। जिससे झुग्गी झोपड़ियों मे रहने वाले गरीब, मजबूर असहाय मजदूर वर्ग के लोग ठंड से बेहाल है। उनकी मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए, महिला उन्नति संस्था द्वारा उन लोगों को ठंड से राहत पहुंचाने के लिए, वर्षा होते हुए एवं भीगते हुए जिला गौतम बुध नगर के पदाधिकारियों ने, आज बालिका इंटर कॉलेज के पास, सेक्टर 44 एवं सेक्टर 45 नोएडा में झुग्गी बस्तियों मे जगह जगह जाकर कम्बल वितरित किये। संस्था की जिला अध्यक्ष, रेनू बाला शर्मा कहा कि पहाड़ो पर भारी बर्फबारी एवं वर्षा होने के कारण सर्दी का कहर बढ़ता ही जा रहा। इसी सोच के साथ, आज हमारी संस्था ने इस ठिठुरन से राहत दिलाने के गरीब मजदूर जरूरतमंद लोगों को कम्बल वितरण कर एक छोटा सा प्रयास किया । ऋतु भारद्वाज, नोएडा महानगर अध्यक्ष ने भी कहा कि संस्था समय समय पर जरूरत मंद लोगों को ठिठुरती ठंड से राहत दिलाने के लिए गर्म कपड़े, कंबलों का वितरण आदि करती रहती है। इस अवसर पर संस्था की जिला महासचिव मीना गौतम तथा अन्य सदस्य आदि भी इस नेक कार्य में उपस्थित रहे। आप सभी का थोड़ा थोड़ा योगदान एवं सहयोग दे कर जरूरत मंद लोगों को इस ठिठुरती ठंड से राहत दिलाए। एक छोटा सा प्रयास हमारा, बन सकता है होठों की मुस्कान।

लापता हुई बच्ची, दो दिन के बाद घर के बाहर मिली

लोकमित्र ब्यूरो

साहिबाबाद। सीमापुरी बॉर्डर स्थित दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले श्रमिक सर्वेश कुमार वर्मा की चार वर्षीय बेटी नंदनी 22 दिसंबर की शाम घर के बाहर से लापता हो गई। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो आसपास के इलाके में कुछ पता नहीं चल पाया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को दो दिन बाद 25 दिसंबर की शाम बच्ची पसौंड़ा में एक मजदूर के घर मिली। पुलिस ने बच्ची को सकुशल परिजनों के हवाले कर दिया है। सर्वेश कुमार ने 22 दिसंबर को साहिबाबाद थाने में चार वर्षीय बेटी के लापता होने की सूचना दी थी। बताया था कि शाम के समय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसके बाद से ही वह लापता थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए तो बच्ची के पसौंड़ा जाने वाले रास्ते का फुटेज मिला। बच्ची रास्ता भटकर कर पसौंड़ा पहुंच गई थी। एसीपी रजनीश उपाध्याय ने बताया कि बच्ची को रोता देख पसौंड़ा निवासी संजय साहनी अपने घर ले गए थे। संजय मूलरूप से बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने बच्ची को खाना खिलाया और पूछने की कोशिश की लेकिन, बच्ची कुछ बता नहीं पाई। दो दिन तक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस संजय के घर पहुंची और बच्ची को सकुशल ले आकर परिजनों को सौंप दिया।

सपा नोएडा महानगर के पीडीए पंचायत में पार्टी की मजबूती और जन समस्याओं के निराकरण पर जोर

लोकमित्र ब्यूरो

नोएडा। समाजवादी पार्टी नोएडा महानगर के पी डी ए पंचायत का आयोजन आर्या नगर सेक्टर 72 में मोहित यादव के नेतृत्व में किया गया। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष डॉक्टर आश्रय गुप्ता ने किया। कार्यक्रम का संचालन महासचिव विकास यादव के द्वारा किया गया।डॉक्टर आश्रय गुप्ता ने कहा कि आज वर्तमान सरकार और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों से आम जनता पूरी तरह से प्रताड़ित है बेलगाम होती महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

महासचिव विकास यादव ने कहा कि भाजपा सरकार आम जनता को नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। बबली शर्मा ने सपा की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने का आवाहन किया।

कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य लोगों में: लखन यादव विनोद यादव मोहित यादव रवि कुमार विपिन गौरव यादव शशांक पुष्पेंद्र सूरज सिंह सोनू रविंद्र यादव रोहित यादव बृजेश कुमार मुनव्वर हुसैन गौरव मयंक कुमार राकेश यादव सौरभ चौहान मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

भूरिगवां में हुई पीडीए अभियान बैठक लोगों को संविधान के प्रति किया जागरूक

लोकमित्र ब्यूरो

एटा/मारहरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पीडीए जागरूकता अभियान चलाकर सभी विधान सभा क्षेत्रों में समाजवादी जन चौपाल कार्यक्रम किए जा रहे हैं । इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र मारहरा के गांव भूरि गवां और नगला लखेरा में पीडीए जागरूकता अभियान कार्यक्रम हुआ । कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। जिसमें सपा जिलाध्यक्ष परवेज़ जुबैरी ने लोगों को संविधान के बारे में बताया और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। पूर्व विधायक अमित गौरव यादव टीटू ने भारत की लोकसभा में देश के ग्रहमंत्री द्वारा बाबा डॉ भीमराव अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी की गहरी निंदा की गई।जिला सचिव सोनू शर्मा ने कहा कि संविधान मे बनाए गए कानून लोगों को उनके अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं हम सभी बाबा साहब का सम्मान सदैव करते रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन। ग्रीस यादव प्रधान व अध्यक्षता राधेश्याम ने की । इस अवसर पर समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी जिला सचिव सोनू शर्मा अंबेडकर वाहिनी के जी जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल कुमार अभिलाख सिंह रंजीत माथुर वीरपाल लोधी सुमित कुमार ग्रीस यादव योगेंद्र सिंह प्रधान मोतीलाल मास्टर आदि लोग मौजूद रहे।

अभावग्रस्त परिवारों को फैमिली हेल्थ कार्ड मिला

वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा

लोकमित्र ब्यूरो

गाजियाबाद। फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटीज (फ्रेंस) एवं वरदान मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के संयुक्त प्रयासों से, राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र के अभावग्रस्त परिवारों की स्वास्थ्य-सहायता एवं देखभाल के लिए विभिन्न सोसाइटियों में कैम्प आयोजन के माध्यम से स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत कल दिनांक 27 दिसंबर 2024 को एक शिविर का आयोजन राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र की आर्क एंजेल्स सोसाइटी में प्रातः 11ः00 बजे किया गया। फेडरेशन की महासचिव डॉ. सीमा शर्मा ने बताया कि अभावग्रस्त परिवारों के स्वास्थ्य लाभ हेतु फ्रेंस व वरदान समूह के द्वारा आरंभ इस योजना के अंतर्गत आज आर्क एंजेल्स सोसाइटी के 35 कर्मचारियों को स्वास्थ कार्ड वितरित किए गए हैं, जोकि उनके व उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए मान्य हैं। इन कार्डों से स्वास्थ्य समस्याओं पर आने वाले खर्च के निःशुल्क व छूट दरों पर होने के कारण, अभावग्रस्त परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। आज स्वास्थ कार्ड वितरण के कार्यक्रम में यदि कोई कर्मचारी छूट गया है तो वह सोसाइटी में उपलब्ध फेडरेशन सहयोगी से संपर्क कर अपना कार्ड प्राप्त कर सकता है।

फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. सुबोध गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ कार्ड के अतिरिक्त सोसाइटी के 70 वर्ष से अधिक आयु के 8 वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड भी आज के शिविर में बनाए गए हैं, साथ ही राजनगर एक्सटेंशन के सभी वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का आरंभ भी कर दिया गया है, जोकि वरदान समूह कि ओर से उनके अस्पताल कि सेवाओं हेतु निःशुल्क रहेगी।

फेडरेशन अध्यक्ष सचिन त्यागी ने बताया कि प्राप्त स्वास्थ्य कार्ड धारक व उनके परिवार को अस्पताल की ओर से सस्ता इलाज उपलब्ध कराते हुए, चिकित्सकों द्वारा 12 बार निःशुल्क परामर्श व जांच सुविधाओं एवं दवाइयों पर विशेष छूट का प्रावधान है। सोसाइटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों हेतु यह योजना लाभप्रद है। प्रत्येक को इसका लाभ मिले व कोई अभावग्रस्त परिवार इससे वंचित न रहे, यही फेडरेशन का प्रयास है। जिसके लिए क्षेत्र की सभी सोसाइटियों के प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों से उनका आवाहन है कि वे फ्रेंस कार्यकारिणी अथवा महिला प्रकोष्ठ मातृशक्ति प्रमुख व सह-प्रमुख से संपर्क कर अपनी सोसाइटी में इन स्वास्थ कार्ड शिविरों का आयोजन कराएं, जिनमें सोसाइटी के 70 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। आज के शिविर में फेडरेशन से वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. सुबोध गुप्ता, उपाध्यक्ष अतुल प्रकाश भटनागर व महासचिव डॉ सीमा शर्मा के साथ सोसाइटी प्रबंधक वीनस त्यागी एवं वरदान समूह से विक्रांत सिंह व आकाश कुमार उपस्थित रहे।

संदीप गुप्ता की तृतीत पुण्यतिथि पर मूर्ति का हुआ अनावरण, दी श्रद्धांजलि

लोकमित्र ब्यूरो

अलीगंज/एटा। कस्वा अलीगंज में नगर उद्योगपति संदीप गुप्ता की तृतीय पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि देने के पश्चात उनकी मूर्ति का आनावरण कर गरीबों और कंबल वैशाखी व ट्राई साइकिल वितरण किया गया।

लोगों ने वस्तुए मिलते ही उनके परिजनों को दुआएं दी. शुक्रवार को कस्वा अलीगंज के समाजसेवी और उद्योगपति स्वर्गीय संदीप गुप्ता की तृतीय पुण्यतिथि पर एसएस रिसॉर्ट में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया सर्वप्रथम कार्यक्रम से पूर्व दीप प्रज्वलन किया गया है बाद में मूर्ति का अनावरण अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर,पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह यादव,पूर्व चेयरमैन प्रदीप कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया।कार्यक्रम के दौरान अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने कहा स्वर्गीय संदीप गुप्ता समाजसेवी के साथ साथ लोगो के दिलों में जगह बना ली जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं,उन्होंने परिवार के लोगों से कहा,संदीप गुप्ता के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी उनकी है।भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप जैन ने स्वर्गीय संदीप गुप्ता। के कार्यों को याद करते हुए कहा,कि वह हमारे अभिन्न मित्र के साथ एक अच्छे व्यक्ति भी थे।उनका समाज के प्रति किए गए अभूतपूर्व कार्य आज भी याद आते हैं। वही भाजपा जिला महामंत्री आशीष राजपूत ने कहा कि संदीप नगर के तो गरीबों के मसीहा थे।

मिशन शक्तिः समानता के अधिकार की हकदार है नारी

महिला सशक्तिकरण से ही मिलेगा विकास को आधार

लोकमित्र ब्यूरो

एटा/कासगंज। नारी सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जिस पर हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। जब महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज सशक्त होगा और देश का विकास होगा। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर हों और उन्हें हर क्षेत्र में समान अवसर मिलें। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के तहत पुलिस अधीक्षक कासगंज सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं नोडल अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री राजेश भारती के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला एवं बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ जुड़कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार को जनपदीय महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा महिला एवं बालिकाओं में व्यवहारिक परिवर्तन लाए जाने हेतु उनकी की सुरक्षा, सम्मान, स्वस्थ्य रिलेशनसिप एवं महिलाओं की सुरक्षा सहायता हेतु निर्मित न्यायिक कानूनों का दुरुपयोग एवं झूठे मुकदमों के परिणाम, साइबर हिंसा, प्रेम सम्बन्धों में घर से पलायन एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का सतर्कता एवं सावधानी से प्रयोग किये जाने एवं किसी अपराध का बोध होने पर बिना संकोच स्थानीय थाना पर अपनी बात या शिकायत करने से सम्बन्धित बिन्दुओं को इंगित करते हुए विस्तार से उनकी जानकारी दी गई एवं नशीली वस्तुओं का सेवन न करने एवं नशावृत्ति के कारण परिवार को होने वाली शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक क्षति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए जागरुक किया गया। नशे की लत छोड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत करने एवं नशामुक्ति विशेषज्ञों एवं परिवार के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन कराये जाने हेतु अवगत कराया गया एवं नशा मुक्ति सम्बन्धित पंपलेट वितरित किए गए, इसके साथ ही शासन द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए जागरुक किया गया है।

शराब के नशे में खाई में गिरा युवक, गंभीर घायल

बाराबंकी। जनपद फ्तेहपुर में भतीजी को ससुराल भेज कर शराब के नशे में धुत होकर घर लौट रहे युवक की बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी रातभर कोई जानकारी नहीं मिली। शुक्रवार सुबह राहगीरों ने युवक को सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में पड़ा देखा और उसकी मदद की। युवक के पास से मिले आधार कार्ड के जरिए परिजनों को सूचित किया गया। घटना मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के पहाड़ापुर गांव की है। धर्मराज (30) नामक युवक अपनी भतीजी अंजनी को ससुराल भेजने के बाद शराब के नशे में बाइक से लौट रहा था। तभी फ्तेहपुर थाना क्षेत्र के साढ़ेमऊ बाजार नहर पुल के पास उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई और वह बाइक सहित गहरे खाई में गिर पड़ा। युवक रातभर किसी तरह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी तलाश करते हुए परिजनों को उसका कुछ पता नहीं चला। अचानक शुक्रवार की सुबह राहगीरों की नजर पड़ी और उन्होंने देखा कि युवक खाई में गिरा हुआ था।

श्रीमद्भागवत कथा में वृंदावन से पधारे कथावाचक ने की भक्ति रस की वर्षा

लोकमित्र ब्यूरो

गाजियाबाद। गौड़ कैसकेड्स क्लब हाऊस में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में वृंदावन से पधारे श्री यशोदा नंदन जी महाराज ने कथा के प्रसंग में बड़े ही आनंददायी प्रसंग सुनाए जो कथा में पधारे सभी भक्त भाव से झूम उठे और कान्हा रुक्मणी के दर्शन कर

आनंदित व भावविभोर हुए। आज कंस के वध की कथा सुनाई महाराज श्री जी ने बताया की कंस के वध से सब ने खुशी मनाई पर जो कंस हमारे भीतर है उस कंश को मारना चाहिए हमारे विचारों में यदि राम जी है तो हम महान बनते है।

कथा से यही सीखना चाहिए कि गलती से यदी हमारे विचार में कंस आये तो हम विनाश कारी बनते है। महाराज श्री ने राष्ट्र हित मे बताया कि हम जल क की सुरक्षा करें हमारे जीवन मे यदी जल नहीं बचा तो जीवन को कैसे सुरक्षित करेंगे। भगवान की भक्ति के साथ साथ हमे राष्ट्र हित में भी कदम उठाने चाहिए।भाजपा महानगर अध्यक्ष (किसान मोर्चा) पंकज भारद्वाज,प्रवीण त्यागी भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी, फ्लैट ऑनर्स फेडरेशन के मीडिया प्रभारी मनोज अग्रवाल के अलावा गौड़ कैसकेड के अनुज शर्मा एवं सोसाइटी की सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

अमेठी। शुक्रवार को उ0नि0 रामजी सिंह थाना कमरौली मय हमराह द्वारा अभियुक्त अशफाक अहमद पुत्र अफजाल अहमद निवासी कमरौली थाना कमरौली जनपद अमेठी उम्र करीब 28 वर्ष को लोहिया पुल फौजी चौराहा के पास से समय करीब 08:40 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया। तलाशी से गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कमरौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत बैठक का हुआ आयोजन

अमेठी। शुक्रवार को मिशन वात्सल्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकास खण्ड अमेठी में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन खण्ड विकास अधिकारी अमेठी की अध्यक्षता की गयी, जिसमें समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित रहें। उक्त बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई अमेठी के संरक्षण अधिकारी अजय कुमार के द्वारा बच्चों के सर्वोत्तम हितों के दृष्टिगत महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्पॉन्सरशिप, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य/कोविड), मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तार से परिचर्चा की गयी है,तथा इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना में पेंशन का लाभ ले रही लाभार्थियों को उनकी फैमिली आई0डी0 बनाये जाने पर जानकारी प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी अमेठी द्वारा विकास खण्ड में समस्त 06 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण पर विशेष ध्यान देते हुए उनके सर्वांगीण विकास व उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से जोडने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

सममाजसेवी संस्था एस बी एस द्वारा गरीबों को कम्बल वितरित किये गये

बांगरमऊ, उन्नाव। समाजसेवी संस्था एस बीएफ की स्थानीय इकाई द्वारा कंबल वितरण समारोह आयोजित किया गया। जिसमें करीब आधा सैकड़ा जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। नगर के मोहल्ला दरगाह शरीफ में आयोजित कंबल वितरण समारोह में एसबीएस के पदाधिकारी मौलवी रियाज खान, फिरोज अहमद सिद्दीकी, एखलाक खान, गुफरान अहमद सिद्दीकी व रेहान अहमद द्वारा नगर व क्षेत्र के करीब आधा सैकड़ा जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कंबल पाकर जरूरतमंदों ने संस्था के सदस्यों को दुआएं दी। इस मौके पर मौलवी रियाज खान बताया कि एसबीएफ एक सामाजिक संस्था है। यह संस्था संपूर्ण देश में जरूरतमंदों की सहायता करती है। साथ ही दैवीय आपदा के अलावा किसी भी आपदा में संस्था के सदस्य पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई भी पुण्य का कार्य नहीं है।

अतिक्रमण हटवाने के दौरान ईओ से अभद्रता

शुक्लागंज, उन्नाव। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) मुकेश मिश्रा के नेतृत्व में शुक्रवार अपराह्न 3 बजे से बालूघाट थाना गेट से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। पालिका कर्मियों की भारी संख्या ने जेसीबी की मदद से फुटपाथ से लेकर नालों तक फैले अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। अभियान के दौरान एक अप्रिय घटना हुई, जब एक गुमटी मालिक ने ईओ के साथ अभद्र व्यवहार किया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जब पालिका कर्मी थाना गेट के पास नाले पर रखी एक बैंड बाजा के सामान की लोहे की गुमटी को हटाने लगे, तो गुमटी मालिक आगबबूला हो गया। और गाली-गलौज पर उतर आया, साथ ही घर की महिलाओं के साथ मिलकर ईओ मुकेश मिश्रा के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब युवक ने ईओ को मारने के लिए ईंट तक उठा ली। ईओ मिश्रा ने अपनी सुरक्षा को खतरे में देखते हुए तत्काल थाना पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने अभद्रता करने वाले युवक को हिरासत में लेकर थाने के अंदर ले गई। इस दौरान युवक के परिवार वाले किसी तरह गुमटी को वहां से हटाने में सफल रहे। इस घटना के बाद भी पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। टीम दुर्गा मंदिर से लेकर सुभाष नगर मोड़ और वहां से वापस होकर निपाट मार्केट तक पहुंची और अतिक्रमण हटाया। ईओ मुकेश मिश्रा ने बताया कि इस अभियान के दौरान लगभग तीन दर्जन अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान शनिवार को भी जारी रहेगा। इस घटना ने अतिक्रमण की समस्या और उसे हटाने के दौरान आने वाली चुनौतियों को उजागर किया है। एक ओर जहाँ पालिका प्रशासन शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रयासरत है।

जिलाधिकारी ने की जनसुनवाई, किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण

लोकमित्र ब्यूरो

अमेठी। जिलाधिकारी निशा अनंत ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान जन सामान्य की शिकायतों को सुना एवं संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और उसके बाद जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व आयुष्मान आरोग्य मंदिर जायस का स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान की प्रगति का जिलाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया गया तथा निःक्षय शिविर का अवलोकन किया गया। निःक्षय शिविर के माध्यम से प्रतिदिन लगभग प्रति केंद्र 60-70 लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीएचओ से निःक्षय पोर्टल खुलवाकर फॉर्म-1 तथा फॉर्म-2 की फीडिंग की जानकारी ली, निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी लक्षणयुक्त व्यक्तियों की नॉट से स्पुटम जांच कराई जाए। जनपद में तीन एक्स-रे टेक्नीशियन की तैनाती हो चुकी है एक्स-रे टेक्नीशियन की रोस्टर वार ड्यूटी लगाते हुए एक एक्स-रे टेक्नीशियन से 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित एक्स-रे मशीन का संचालन सुनिश्चित कराया जाए जिससे अधिकतम व्यक्तियों की जांच कराई जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में वर्तमान समय 17 माइक्रोस्कोप स्थापित हैं, जिसमें से 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित एवं संचालित हैं।

जनपद में वर्तमान में 3 एक्स-रे (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर, अमेठी व गौरीगंज) में मशीन संचालित हैं एवं अभियान हेतु उपलब्ध कराई गई एक डिजिटल एक्सरे मशीन संचालित है। जनपद में 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के दौरान कुल 215000 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य प्राप्त हुआ है लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 26 दिसंबर 2024 तक कुल 64355 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लक्षणयुक्त पाए गए व्यक्तियों में 204 की सी0बी0 नॉट जांच, 383 माइक्रोस्कोप एवं 234 का एक्सरे किया जा चुका है, जिसमें से 115 व्यक्ति टीबी धनात्मक नोटिफाइड किए गए हैं। समस्त धनात्मक पाए गए रोगियों का उपचार शुरू करा दिया गया है। जनपद में 1 जनवरी 2024 से अब तक कुल 3573 मरीज धनात्मक पाए गए हैं जिन्हें समुचित उपचार प्रदान किया जा रहा है। जनपद में 196 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर निःक्षय शिविर का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक निःक्षय शिविर में प्रतिदिन लगभग 70-80 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। आशाओं का संवेदीकरण कर अभियान के प्रचार प्रसार हेतु हैंडबिल वितरित किया गया है।

मीडिया को निर्भय बनाने के लिए सरकार उठाए सकारात्मक कदम

लोकमित्र ब्यूरो

बाराबंकी। मीडिया को निर्भय बनाने के लिए सरकार को सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यता है ।मीडिया ही है जो सरकार और जनता के बीच की मजबूत कड़ी है।मीडिया ही सरकार की योजनाओ को और समाज की समस्याओ को पहुंचाती है।सरकार की योजनाओ का लाभ आम जनमानस तक पहुँच रहा है या नहीं बताती है भ्रष्टाचार को उजागर कर सरकार के सामने लाती है लेकिन इसके चलते मीडिया कर्मियों को झूठे और योजनाबद्ध तरीके से फर्जी मुकदमो मे फंसाया दिया जाता है।

ऐसे में जरूरी है कि अब हर प्रदेश मे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। इसके लिए सरकार को अब सकारात्मक पहल करनी चाहिए। यह विचार जर्नलिस्ट कॉउंसिल ऑफ इंडिया रजि. के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 अनुराग सक्सेना ने पत्रकारो की एक गोष्ठी के दौरान रखे। अब सरकार को मीडिया कर्मियों की समस्याओ के निराकरण के लिए सकारात्मक पहल शुरू करनी चाहिए। वीते काफी समय से पत्रकारों के तमाम संगठन सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग कर रहें है।

वर्तमान समय मे छोटे व मझोले समाचार पत्रों को डाक विभाग से रियायत मिलती थी जिससे समाचार पत्र -पत्रिकाओं के प्रकाशको को प्रसारित करने मे लाभ होता है जिसे भी सरकार ने बंद कर दिया ऐसे मे सरकार को अब ई पेपर व वेव पोर्टल को मान्यता की घोषणा करनी चाहिए। आये दिन वेव मीडिया को लेकर भ्रामक समाचार प्रकाशित होते रहते है सरकार को वेव मीडिया को वैध मीडिया की घोषणा करके इसपर रोक लगानी चाहिए।

अंबरदास बाबा मंदिर में चल रही रामकथा के चौथे दिन कृष्णजन्म का सुन्दर विवेचन किया

लोक मित्र संवाद

बीघापुर,उन्नाव। तहसील क्षेत्र के गांव जंगली खेड़ा स्थित अंबर दास बाबा मंदिर परिसर में चल रही श्रीमदभागवत कथा के चौथे दिन प्रसिद्ध भागवताचार्य सुशील पांडेय ने राम जन्म से लेकर राम के राज्याभिषेक तक तथा कृष्ण जन्म व कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर विवेचन किया। भागवताचार्य ने उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा श्रवण कराते हुए कहा कि जब इस भूमंडल पर चारों ओर अत्याचार,अनीति बढ़ी तब राम का जन्म हुआ जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और असुरों की बढ़ोत्तरी होती है तब तक कोई न कोई महापुरुष इस पृथ्वी पर जन्म लेकर धर्म मार्ग पर चलने को लोगों की प्रेरणा देने का काम करता है। भगवान राम का चरित्र हमें माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा देता है वही भरत का चरित्र भाई भाई के प्रेम की अनोखी कहानी है आज कलिकाल में थोड़े से धन ,भूमि के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ा जा रहा है ऐसे लोगों के लिए राम कथा प्रेरक है हमें राम के चरित्र का अनुसरण कर भारतीय संस्कृति संस्कारों का संवाहक बनने का कार्य करना चाहिए।श्रीकृष्ण के जन्म की कथा सुनाते हुए आचार्य ने गीत सुनाते हुआ कहा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की पंडाल जयकारों से गूंज उठा व श्रद्धालु जमकर झूमे। भगवान के जन्म की खुशी पर मौजूद महिलायें उपहार देकर बाल रूपी भगवान कृष्ण को प्रसाद देकर भोग लगाया। कथा वाचक आचार्य ने श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाते हुये कहा कि इस भारत भूमि पर अत्याचार अनाचार का साम्राज्य फैल गया तब भगवान श्रीकृष्ण ने देवकी के आठवें गर्भ के रूप में जन्म लेकर कंस का संहार किया। सन्मार्ग पर चलने वाले ही समाज में सदैव पूज्य हुए हैं। कृष्ण का जीवन हमें विपरीत परिस्थितियों में संयम धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कथा श्रवण करने वालों में प्रमुख रूप से मुन्ना सिंह,अतुल सिंह, सुजीततिवारी, बलराम सिंह,रज्जन सिंह,कंचन सिंह, सूरज सिंह, बचान सिंह आदि रहे।

बुलडोजर और जामों में ट्रैक्टर एक्शन

- बंजर और शमशान की भूमि पर लगाई गए फसल को प्रशासन ने जुतवाया
- शिकायतकर्ता में भी कर रखा था सरकारी जमीन पर कब्जा

लोकमित्र ब्यूरो

अमेठी। जिले में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर चलना जारी है, जहां गुरुवार को तहसीलदार अमेठी द्वारा टीम के साथ में बुलडोजर से हटाया गया। तो वहीं शुक्रवार को ग्राम पंचायत के बंजर और शमशान की भूमि पर फसल लगाकर किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन का ट्रैक्टर चल गया, एसडीएम और थाना प्रभारी की मौजूदगी में ट्रैक्टर से फसल को जुतवा कर पूरी जगह को खाली करवा दिया गया। पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र के राम शाहपुर दलीलपुर गांव का है।जहां के रहने वाले गंगा प्रसाद पांडे पुत्र ओंकार पांडे ने कुछ दिन पहले डीएम से शिकायत की थी कि गांव के रहने वाले करुणा शंकर पुत्र वासुदेव ने बंजार की भूमि पर फसल लगाकर कब्जा कर लिया है ,डीएम ने मामले की जांच और कार्रवाई के लिए गौरीगंज एसडीएम को नामित किया, गौरीगंज एसडीएम राजस्व कर्मी और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, एसडीएम ने मौके पर लेखपाल और कानून से जानकारी की तो मामला सही पाया गया इसके बाद एसडीएम के मौजूदगी में ही ट्रैक्टर से शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों की फसलों को ट्रैक्टर से जुतवा दिया गया और बंजर और शमशान की भूमि को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया।

दो पक्ष में लाठी डंडे सरिया की हुई मार

- तीन लोग बुरी तरह घायल, एक जिला अस्पताल रेफर

लोकमित्र ब्यूरो

अमेठी। जिले के थाना संग्रामपुर के ग्राम सभा बनवीरपुर के पूरे नोहरी का मामला है जहां पर लगभग 1:30 बजे दो पक्षों में मारपीट हो गई,जिसमें निशा यादव पत्नी भीम यादव ने अपने शिकायती पत्र में बताया है कि हम और हमारी सास घर के अंदर थे उसके बाद हमारे घर पर छोटेलाल यादव पुत्र परमेश्वरदीन, निखिल यादव, विपुल यादव पुत्र छोटेलाल यादव और आशा देवी पत्नी छोटेलाल दो अज्ञात लोगों के साथ आए और हमारा छप्पर का घर गिराने लगे हम लोगों ने विरोध किया तो हमको और हमारी सास कमला देवी को सब लोग मिलकर मारने लगे।

इतने में कुछ दूर पर हमारे पति भीम यादव पुत्र स्वर्गीय राजाराम यादव दुकान चलाते थे वह दौड़कर आए और हम लोगों को छुड़ाने लगे तभी यह सब लोग हम लोगों को तो बुरी तरह मार चुके थे और फिर हमारे पति को बेरहमी से मारने लगे जिसमें सरिया, डंडा, लाठी से मारपीट कर हमारे पति को मरणासन्न अवस्था में छोड़ कर भाग गए।हम लोगों ने थाने पर फोन किया पुलिस आई और हमें प्राथमिक उपचार के लिए 108 नंबर बुलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर ले आए और जहां पर हमारा उपचार हुआ।हमारे पति को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

स्मैक के साथ हिस्ट्रीशीटर अपराधी गिरफ्तार

- कई जिलों में 33 गंभीर आपराधिक मामले हैं दर्ज

लोकमित्र ब्यूरो

अमेठी। पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली जहाँ चेकिंग के दौरान हिस्ट्रीशीटर अपराधी को गिरफ्तार किया।अपराधी के पास से स्मैक भी बरामद हुई।शातिर अपराधी पर प्रदेश के कई जिलों में 33 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है।फिलहाल पुलिस ने अपराधी को जेल भेज दिया है। पूरा मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र का है जहाँ मोहनगंज एसएचओ राकेश सिंह शुक्रवार सुबह संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनो की चेकिंग कर रहे थे तभी रस्तामऊ फूला रोड के पास हिस्ट्रीशीटर अपराधी राजकुमार सिंह उर्फ रजवल सिंह पुत्र स्व रामनरेश सिंह को गिरफ्तार किया।

राजकुमार के पास से लाखों रुपए कीमत की स्मैक बरामद हुई।राजकुमार पर अमेठी, बाराबंकी,रायबरेली में गैंगेस्टर समेत 33 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है।राजकुमार पर सिंर्फ मोहनगंज थाने में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज है।गिरफ्तारी के दौरान मोहनगंज एसएचओ के अलावा पूरी टीम शामिल रहे।बताया जा रहा है कि राजकुमार थाने का टॉप टेन अपराधी भी है और कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है।

34 ग्राम स्मैक के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार अमेठी उ0नि0 सत्य प्रकाश तिवारी थाना बाजार शुक्ल मय हमराही द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों 1. पिन्टू पुत्र संतराम उम्र करीब 23 वर्ष, 2. जितेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र रामकिशोर उम्र करीब 24 वर्ष निवासीगण पूरे झाऊ का पुरवा मजरे दक्खिन गांव क्यार थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी को रीछ घाट पूल के पास से समय करीब 02:37 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया । तलाशी से अभियुक्त पिन्टू के कब्जे से 18 ग्राम स्मैक व अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ छोटू के कब्जे से 16 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

ग्राम सभा की जमीन पर हो रहा अवैध कब्जा, बुजुर्ग ने की जिला अधिकारी से शिकायत

अमेठी। आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद के मुसाफिरखाना तहसील क्षेत्र के सिठौली गांव का है जहां के रहने वाले शफीक ने गांव के ही एक दबंग व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि ग्राम सभा की नवीन प्रति की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है जिसको लेकर कई बार ट्यूटर के माध्यम से दोनों व्यक्तियों ने प्रशासन को शिकायत पत्र देखकर शिकायत की परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्यवाही ना होती देख निराश दोनों बुजुर्ग व्यक्ति जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जहां पर किसी अधिकारी के न मिलने के कारण वह पुनः वापस लौट गए शिकायती पत्र के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया है कि जल्द से जल्द सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को रुकवाया जाए।

लोक निर्माण विभाग के दोनों सरकारी प्लांट बंद पड़े, प्राइवेट प्लांटो से हो रहा काम

- विभाग के उच्च अधिकारियो की नहीं उठ रही निगाह

लोकमित्र ब्यूरो

रामनगर, बाराबंकी। लोक निर्माण विभाग के दो प्लांट एक साल से बंद पड़े है।प्राइवेट प्लांटो से आ रहा मिक्साल युक्त माल सड़को की गुणवत्ता प्रभावित कर रहा है। खड़े खड़े सरकारी मशीनरी भी खराब हो रही हैं।

रामनगर,मसौली व सिरौली में सड़क बनाने के लिए सिरौलीगौसपुर में व पूरे डलई तथा दरियाबाद में सड़क बनाने के लिए भेलसर में लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड एक का सरकारी प्लांट लगा है जो बीते एक साल से बंद है ।विभागीय अफसर उसे सही करवाकर नहीं चला रहे जिसका नतीजा है कि प्राइवेट प्लांटो से मिक्साल युक्त मैटीरियल आकर सड़क निर्माण में लग रहा है जिससे सड़को की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और बनने के बाद सडके उखड़ रही हैं। बाहरी ठेकेदार फ़्रांस व जापान से थर्ड क्वालिटी का डामर लाते हैं जो कवालिटी में बहुत खराब रहता है।इंडियन आयल कारपोरेशन का डामर अच्छा होता वंहा से नहीं मंगाया जाता। यही कारण है कि प्राइवेट प्लांटो का माल सरकारी प्लांटो के माल की तुलना में बेहतर नहीं रहता ।अमेठी,राय बरेली व लखनऊ के सरकारी प्लांट चल रहे हैं मगर जिले के न चलने के पीछे

ठेकेदारो व अफसरो का उच्च स्तरीय गठजोड़ कारण माना जा रहा है।करोड़ों की सरकारी मशीनरी भी खड़ी खड़ी खराब हो रहीं हैं।जिले से लेकर मंडल तक के लोक निर्माण विभाग के अफसर इन दोनो सरकारी प्लांटो को चलाने के प्रति उदासीनता बरत रहे हैं और बन रही सड़के व पैच धडा धड़ उखड़ रहे हैं। अभी रामनगर सआदत गंज व रमवापुर तेलवारी सड़क पर कई जगह सड़क की गुणवत्रा निरीक्षण में खराब मिली क्यो कि प्राइवेट प्लांटो का माल सही नहीं था। आखिर सरकारी प्लांट क्यों नहीं चल रहे यह बड़ा सवाल बना हुआ है। मैकेनिकल सहायक अभियंता ने बताया कि यांत्रिक खंड 2 लखनऊ से इन प्लांटो का संचालन होता है।निर्माण खंड एक से प्लांट पर कार्य आवन्टन नहीं किया गया है जिससे यह बंद हैं। खड़े खड़े मशीनें भी खराब हो रही हैं। इस संबंध में अधिशाषी अभियंता को पत्र भी यांत्रिक खंड द्वारा भेजा गया है।

मामूली विवाद पर युवक को लाठी-डंडों, बेल्टों से पीट किया घायल

शुक्लागंज, उन्नाव। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के बिझलामऊ में एक कंपनी में काम करने वाले युवकों के बीच मामूली कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इस घटना में एक युवक को लाठी-डंडों और बेल्टों से पीटा गया, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। आसीवन थाना क्षेत्र के खानपुर कुरौली निवासी आफताब आलम ने बताया कि वह बिझलामऊ स्थित एक कंपनी में काम करता है। उसका कंपनी के कुछ कर्मचारियों से विवाद हो गया था। जब वह कंपनी से बाहर निकला, तो आरोप है कि हाईवे के किनारे कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और लाठी-डंडों व बेल्टों से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसे चोटें आईं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अंशू समेत तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और घायल आफताब को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है।

समस्याओं का जल्द निस्तारण न होने पर भाकियू तोमर संगठन ने दी बड़े आन्दोलन की चेतावनी

लोकमत्र संवाद

हसनगंज, उन्नाव। क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर किसानों में फूटा गुस्सा क्षेत्र के कई मामलों में अनेकों बार तहसील समाधान व थाना दिवस में प्रार्थना देने पर भी नहीं हुई सुनवाई। क्षेत्रीय किसानों में भारी आक्रोश अगर समस्याओं का जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन तोमर ने बड़े आन्दोलन की दी चेतावनी।

हसनगंज तहसील बड़ा मरहा निवासी युवा वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष उन्नाव रामचंद्र ने जन समस्याओं को हसनगंज उपजिलाधिकारी को लिखित रूप से शिकायत सौंपा। जानकारी देते हुए बताया ग्राम बड़ा मरहा में सार्वजनिक भूमि जो सरकारी अभिलेखों में बंजर के नाम दर्ज है जिसपर गांव के ही लोगों व क्षेत्रीय लेखपाल पर सांठ-गांठ करके गलत तरीके से कब्जा किए जाने व सरकार के साथ धोखाधड़ी करके गलत पैमाइश करने से लेकर इसी जमीन पर लोगों को बेदखली का नोटिस जाने पर क्षेत्रीय लेखपाल पर शासन प्रशासन को गुमराह करने का आरोप लगाया। समस्या लम्बे समय से ज्यों कि त्यों बनी हुई है। औरभी क्षेत्रीय कई समस्याओं को लेकर किसानों ने उपजिलाधिकारी हसनगंज रामदेव निषाद व हसनगंज कोतवाली प्रभारी चन्द्रकान्त मिश्र को सौंपा ज्ञापन।

जिसपर उपजिलाधिकारी व कोतवाली प्रभारी हसनगंज ने सभी मामलों की जांच करके जल्द ही किसान नेताओं को उचित कार्यवाही करने का दिया आश्वासन। मौके पर किसान नेता गुरु प्रसाद प्रदेश अध्यक्ष , संदीप चौधरी जिला अध्यक्ष , रामचंद्र युवा जिला अध्यक्ष, संजय कुमार मंडल अध्यक्ष, रामनरेश तहसील अध्यक्ष ,रंजन लाल ब्लॉक अध्यक्ष ,राजकुमार ब्लॉक सचिव , सुमेर कुमार ब्लॉक संगठन मंत्री, विपिन कुमार ब्लॉक अध्यक्ष,संदीप कुमार ब्लॉक उपाध्यक्ष ,सुरेंद्र तहसील सचिव समेत आधा सैकड़ा किसान साथी रहे मौजूद।

दरोगा ने पुलिस भर्ती के नाम पर हड़पे 13 लाख,दो युवकों को दे दिया जॉइनिंग लेटर

लोकमित्र ब्यूरो

बाराबंकी। रामसनेहीघाट में हैरत करने का मामला एक मामला सामने आया है। पुलिस विभाग में सिपाही की नौकरी दिलाने के नाम पर दो लोगों ने एक व्यक्ति से 13 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित को उसके दोनों पुत्रों के लिए बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर तक दे दे दिया गया था। ठग में एक व्यक्ति को पुलिस विभाग में आईजी बताया गया, जबकि बाद में पता चला कि वह दारोगा है। पीड़ित की तहरीर पर दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली के पूरे अहिरन मजरे सकौली. निवासी कामता प्रसाद यादव ने बताया कि 10 जुलाई 2019 को कोतवाली के जहरी का पुरवा मजरे सनौली निवासी रिश्तेदार रामकुमार उनके घर आए। उसने दोनों पुत्रों की पुलिस में नौकरी लगवाने की बात कहते हुए 13 लाख रुपये मांगे। उनके साथ पुलिस की गाड़ी से आए कमाल अशरफको विभाग का बड़ा अधिकारी बताया। कामता ने अपने पुत्र पवन कुमार व राजकुमार की सिपाही की नौकरी के लिए 27 दिसंबर 2019 को चेक से तीन लाख रुपये व नौ जनवरी 2020 को 1.25 लाख, 20 फरवरी 2020 को चेक से 1.75 लाख रुपये दिए। कमाल ने 20 अगस्त 2019 को अपनी पत्नी जैसमीन के खाते में तीन लाख रुपये डलवा लिया व रामकुमार के साथ घर आकर चार लाख रुपये नकद ले लिया। कुल 13 लाख रुपये लेने के बाद उसने पवन कुमार व राजकुमार को नौकरी का ज्वाइनिंग लखनऊ ले जाकर मेडिकल व नौकरी लेटर देकर एक महीने बाद पुलिस प्रशिक्षण की सूचना आने की बात कही। कई दिनों तक प्रशिक्षण न होने पर जांच पड़ताल किया तो पता चला कि ज्वाइनिंग लेटर फर्जी है। कमाल अशरफ ने बात करने पर लखनऊ बुलाया और बताया कि ज्वाइनिंग लेटर गलती से जारी हो गया है। इसके बाद में दूसरा लेटर जारी करा देने की बात कहकर वह लेटर वापस ले लिया। कई महीनों तक दौड़ने के बाद नौकरी नहीं मिली। कमाल अशरफ के पुलिस में आईजी होने की बात कही थी, किंतु बाद में उनके वायरलेस विभाग में दारोगा होने की बात पता चली। कई बार दबाव बनाने पर कमाल ने चार चेक दिए, लेकिन भुगतान नहीं हो सका।

प्रथम अपीलीय अधिकारी निभाए ठीक से अपनी जिम्मेदारीः नदीम

खीरी पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त, आरटीआई के तहत की प्रदूषण, समाज कल्याण महकमे की समीक्षा, दिए निर्देश

लोकमित्र ब्यूरो



लखीमपुर-खीरी। अपने निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम शुक्रवार को लखीमपुर खीरी में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समाज कल्याण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने कहा कि जिलों में सूचना का अधिकारअधिनियम-2005 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलों की तादात बढ़ती जा रही है। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी यह सुनिश्चित करना शुरू कर दें कि जन सूचनाधिकारी के स्तर से आवेदक को अगर सूचना नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली तो आयोग के समक्ष आने वाली द्वितीय अपीलों की संख्या कम हो जाएगी लेकिन अभी यह हो रहा है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी जनसूचनाधिकारी के खिलाफ जाना ही नहीं चाहते।

आवेदकों को नियत समयावधि में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए वांछित सूचनाएं राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी लोक प्राधिकारी अपने नियत्रंणाधीन राज्य सूचना आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम के तहत आवेदकों को निर्धारित समयावधि के अदंर वांछित सूचनाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं। अन्यथा की स्थिति में दोषी जन सूचनाधिकारियों के विरूद्ध अधिनियम की धारा-20 (1) व 20 (2) के तहत कार्यवाही की जायेगी। अधिनियम की धारा-19 (7) में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सूचना आयोग के आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5 (1) के तहत नियुक्त / नामित जनसूचनाधिकारियों के लिए बाध्यकारी है।

लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण की आयोग की प्राथमिकता : राज्य सूचना आयुक्त

राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आयोग की प्राथमिकता लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण की है। आयोग यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि जो सूचना देने योग्य नहीं है या लोक प्राधिकारी के यहां नियंत्रणाधीन नहीं है, जनसूचनाधिकारी स्पष्ट तौर पर आवेदक को बताए, 6(1)आवेदन पत्र लम्बित रखने से लोक प्राधिकारी के विरूद्ध ही शिकायत बनती है और धारणा को बल मिलता है कि सूचना छुपाई जा रही है।

इनकी रही मौजूदगी.

एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह, तहसीलदार सदर सुशील प्रताप सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जनम,सहायक जनसूचनाधिकारी समाज कल्याण विभाग एस0एन0 भारती व सहायक वैज्ञानिक अधिकारी हिमांशू सोनकर, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड लखनऊ जितेन्द्र कुमार उपस्थित रहे।

चोर से बरामद 25 लाख का सोना बेंचने में कानपुर के पूर्व थानाध्यक्ष समेत चार दोषी

अवगत कराते चलें कि बर्रा-6 में रहने वाली शिक्षिका शालिनी दुबे के घर से 10 अक्टूबर को 30 लाख से ज्यादा की चोरी हुई थी

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां एक साथी कर से बरामद किए गए 25 लाख के सोने को बेचने के मामले में पूरी की गई जांच में रेल बाजार के पूर्व थानाध्यक्ष विजय दर्शन शर्मा समेत चार लोग दोषी पाए गए हैं ,जिनके खिलाफ अब पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की ओर से कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में जांच कमेटी ने पूर्व एसओ विजय दर्शन शर्मा, अंडर ट्रेनिंग दरोगा रविंद्र श्रीवास्तव, एचसीपी आमिल हाफिज और कार चालक आकाश को दोषी माना है। जबकि हेड कांस्टेबल सुभाष तिवारी को क्लीन चिट दे दी है।

आरोप है कि चारों दोषी पुलिस कर्मी सर्राफ की दुकान पर गए थे। जहां से सोना गलाकर चोर को छोड़ा गया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने रेलबाजार एसओ रहे विजय दर्शन शर्मा समेत पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित करके जांच के आदेश दिए गए थे।

जिसके खिलाफ हाई कोर्ट जाने पर दरोगा विजय दर्शन बहाल हो गए थे, जबकि अन्य पुलिस कर्मी अभी भी निलंबित चल रहे है। इस बहुचर्चित मामले की जांच एडीसीपी ईस्ट राजेश श्रीवास्तव ने की थी। जिसमें उन्होंने थाना अध्यक्ष विजय दर्शन शर्मा सहित और अंडर ट्रेनिंग दरोगा सहित चार लोगों को दोषी पाया है। अवगत कराते चलें कि बर्रा-6 में रहने वाली शिक्षिका शालिनी दुबे के घर से 10 अक्टूबर को 30 लाख से ज्यादा की चोरी हुई थी। तत्कालीन रेलबाजार एसओ विजय दर्शन ने चोरों को अरेस्ट करके 25 लाख का सोना बरामद किया और हड़प लिया था। इसके बाद चोरों को भी छोड़ दिया था, लेकिन बर्रा पुलिस ने चोरों को अरेस्ट किया तब दरोगा विजय दर्शन शर्मा द्वारा किए गए सोना बेचने के खेल का खुलासा हो गया था।

जीएनआईओटी एमबीए संस्थान में दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का आयोजन

लोकमित्र ब्यूरो

नोएडा। नालिज पार्क-2 ग्रेटर नोएडा स्थित जीएनआईओटी एमबीए संस्थान में दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता %प्रतिस्पर्धा- 2024 का समापन हो गया। प्रतियोगिताओं का समापन संस्थान के निदेशक डा. अंशुल शर्मा ने किया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों जैसे क्रिकेट, टग ऑफ वार, बास्केटबाल, वालीबॉल, श्री लेग रेस, रेस, लेमन रेस, रिले रेस आदि में अपने जौहर दिखाये व अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। दो दिन तक चली इस कड़ी प्रतियोगिता के बाद क्रिकेट में लड़कों मे निलेन्द्र तिवारी की टीम तथा लड़कियों मे दीक्षा यादव की टीम विजयी रही, टग ऑफ वार में नितिन की टीम और राधा शर्मा की टीम ने बाजी मारी। वास्केटबॉल में डिम्पल कुमारी टीम एवं आर्यन शर्मा टीम ने सबको पछाड़ा, वालीवॉल में कडे मुकाबले के बाद प्रियाँशु बैसौया टीम को विजयी घोषित किया गया, श्री लेग रेस में अदिति एवं आदर्श विजेता बने, रेस मे धीरज यादव एवं प्रियंका यादव, रिले रेस में लोकेश टीम तथा सिमरन टीम, लेमन रेस में सोफिया खटाना एवं विकास कुमार ने बाजी मारी. संस्थान के सभी शिक्षको एवं विद्यार्थियों ने खेलों का जमकर लुफ्त उठाया। खेल प्रतियोगिता के समापन पर संस्थान के निदेशक डा. अंशुल शर्मा ने विजेताओं एवं उपविजेताओं को प्रशस्ति पत्र एवं मैडल प्रदान किये। निदेशक डा. अंशुल शर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के साथ खेलकूद भी जरूरी है। खेल से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया। इस अवसर पर संस्थान के डीन डा. पंकज सिन्हा, विभागाध्यक्ष डा. राजकुमार, डा. सुशील मौर्य, डा. नक्षत्रेश तथा स्पोर्टस कार्डिनेटर अंकुर लोहिया एवं अविनाश सहित सभी शिक्षकगण उपस्थित थे।

निर्विरोध लेखपाल संघ का चुनाव हुआ सम्पन्न

लेखपाल संघ तहसील इकाई निघासन में ज्योति प्रकाश वर्मा अध्यक्ष व अंकित कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष जबकि शिवम गुप्ता उपमंत्री चुने गये

लोकमित्र ब्यूरो

निघासन-खीरी। उत्तर-प्रदेश लेखपाल संघ के जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील इकाई निघासन में लेखपाल संघ का निर्विरोध चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न रहा जिसमें चुनाव अधिकारी आदित्य मिश्रा व चुनाव पर्यवेक्षक अमरीश राज की उपस्थिति में निर्विरोध चुनाव रहा जिसमें ज्योति प्रकाश वर्मा तहसील अध्यक्ष अंकित कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वजीत वर्मा तहसील मंत्री शिवम गुप्ता उपमंत्री संजय कुमार कोषाध्यक्ष व अंशुल श्रीवास्तव ऑडिटर चुने गए जिसमें लगभग 50 लेखपाल उपस्थित रहे साथ ही वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल पूर्ण होने पर नवीन कार्यकारिणी के गठन हेतु निर्वाचन का आयोजन संपन्न होने के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ऑडिटर अंशुल श्रीवास्तव ने दिलायी जिसमें समस्त पदाधिकारी व लेखपाल उपस्थित रहे।

शिक्षा संघर्ष मोर्चा फाउंडेशन ने मेधावी बच्चों को किया सम्मानित

लोकमित्र ब्यूरो

धौरहरा-खीरी। शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र मे कार्य कर रहे शिक्षा संघर्ष मोर्चा फाउंडेशन द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें विगत वर्ष हाई स्कूल व इंटर मीडियट के मेधावी बच्चों को सम्मनित किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलित कर व मां वीणा वादिनी की वंदना के साथ हुआ। शुक्रवार को धौरहरा के रामवाटिका धाम मे शिक्षा संघर्ष मोर्चा फाउंडेशन द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रुप मे भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम पांडेय,फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गंभीर मौजूद रहे। प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम मे कस्बा सहित क्षेत्र के विद्यालयों के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये वही राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गंभीर ने विगत वर्ष हाई स्कूल व इंटर मीडियट के मेधावी बच्चों को सम्मनित किया वही फाउंडेशन की तरफ से शिक्षकों व पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन योगेंद्र मिश्रा ने किया।

इस दौरान शिक्षा संघर्ष मोर्चा के प्रदेश सयोंजक जितेंद्र दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष अभय अवस्थी, उपाध्यक्ष विवेक सिंह, राजहंस मिश्रा, संदीप शर्मा, दिलीप शर्मा,निशार,शोभित तिवारी,जिला मीडिया प्रभारी उपेंद्र मिश्रा सहित फाउंडेशन के सदस्य,भगौती प्रसाद शुक्ला,कन्हैया बाजपेई सहित सम्मानित लोग मौजूद रहे।

पोनी रोड के चौड़ीकरण व नवनिर्माण की स्वीकृति पर विधायक का भव्य स्वागत

लोक मित्र संवाद

शुक्लागंज, उन्नाव। नगर का पोनी रोड मार्ग, जो कई वर्षों से गढ्ढों में तब्दील था, अब सदर विधायक के प्रयासों से नए सिरे से बनेगा। शासन द्वारा सड़क के चौड़ीकरण की मंजूरी मिलने के बाद, शुक्रवार को नगर आगमन पर विधायक का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया और इस उपलब्धि पर अपनी खुशी जाहिर की।

पोनी रोड जो कि थाने तिराहे से लेकर पोनी गांव होते हुए आजाद मार्ग तक जाती है, 11 करोड़ 68 लाख 12 हजार रुपये की लागत से चौड़ी की जाएगी। लंबे समय से लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए स्टीमेट की फाइल शासन में अटकी हुई थी, जिससे सड़क का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सदर विधायक ने दोबारा फाइल भेजी और शासन से इसकी मंजूरी प्राप्त की। जैसे ही इस खबर का पता चला, खस्ताहाल सड़क से रोजाना सफर करने वाले हजारों स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वे लंबे समय से इस सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को जब विधायक नगर पहुंचे, तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। अंबिकापुरम के पास पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि गोल्डी गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ विधायक को माला पहनाकर उनका स्वागत किया।

इसी तरह, पोनी रोड पर सुरेश चन्द्र शुक्ला, विकास मिश्रा, विनय तिवारी, धीरज सिंह, उमेश तिवारी, सभासद अभिषेक शुक्ला, सुरेन्द्र गुप्ता, संजय गुप्ता, हरीश शुक्ला, नीरज अवस्थी, विजयराज सिंह, संजीव सिंह समेत और अन्य कई लोगों ने विधायक को मालाएँ पहनाईं और उन्हें प्रतीक चिह्न भेंट किए। सदर विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और उन्हें रोजमर्रा की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।

उन्होंने इस परियोजना को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस खबर से स्थानीय निवासियों में उत्साह का माहौल है और वे जल्द ही नई सड़क पर सफर करने की उम्मीद कर रहे हैं।

लखनऊ पब्लिक स्कूल मे आर्ट-क्राफ्ट, विज्ञान प्रदर्शनी एवं मेले का आयोजन

लोकमित्र ब्यूरो

लखीमपुर-खीरी। लखनऊ पब्लिक स्कूल, लखीमपुर खीरी में आर्ट-क्राफ्ट, विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। प्री प्राइमरी के नन्हे-मुन्नो ने अपनी कोमल कल्पनाओं से फार्म एनिमल और ऑन द रोड , प्राइमरी के बच्चों ने इन्वेंशन, पपेट्स, जूनियर के बच्चों ने कल्चरल हेरिटेज, जूट डिकोर डिलाइट्स विथ नेचर्स टच जैसे विषयों पर उत्कृष्ट मॉडलो द्वारा अपनी छुपी हुई प्रतिभा को उकेरा।

प्रदर्शनी में सीनियर वर्ग के छात्र-छात्राओं ने विज्ञान, गणित एवं सोशल-साइंस विषय पर आधारित रोचक, ज्ञानवर्धक चार्टस व मॉडल्स बनाये, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। वाणिज्य वर्ग के छात्रों ने %एलपीएस कैफे% बनाकर लोगों का मन जीत लिया। विद्यालय के हाउस डिग्निटी, नोबल, रीगल एवं लिबर्टी ने क्रमशः फोटो फ्रेम में न्यू ईयर कार्ड, ज्वेलरी एंड एसेसरी होल्डर, शगुन कार्ड, वेयर, एनवेलप व क्राफ्ट वर्क एवं न्यूज़पेपर एंड क्लोथ्स, हैंडमेड जूलरी और फ्लावर पाट आदि विषयों पर विद्यार्थियों द्वारा बनाई गयी आकर्षक सामग्री भी प्रदर्शित की गयी। बाल मेले का भी आयोजन किया गया जिसमें चाइनीस फूड, साउथ इंडियन, चाट कॉर्नर एवं बेकरी जैसे अनेक स्टाल लगाए गये। लकी ड्रॉ भी निकाला गया। विजयी छात्र-छात्राएं पुरस्कार पाकर अत्यंत प्रफुल्लित हुए।

प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने छात्र-छात्राओं द्वारा प्रदर्शित सभी मॉडल्स, चार्टस एवं बाल मेले की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने उपस्थित सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त किया एवं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित सभी इंचार्जस को धन्यवाद दिया।

आगरा में मुगलकालीन हमाम तोड़ने पर हाईकोर्ट की रोक

आगरा। स्थानीय छीपीटोला स्थित 16वीं शताब्दी के मुगल हमाम को तोड़ने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर शीतकालीन अवकाश के बावजूद मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली के निर्देशानुसार गुरुवार को न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय व न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने सुनवाई की। खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त आगरा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) और उप्र राज्य पुरातत्व विभाग को निर्देश दिया है कि हमाम को किसी तरह की क्षति न पहुंचाई जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। देवरी रोड निवासी चंद्रपाल सिंह राणा ने हमाम को बचाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।खंडपीठ ने कहा है कि पुलिस आयुक्त स्मारक की सुरक्षा को पर्याप्त फोर्स की तैनाती सुनिश्चित कराएं।

बाढ़ कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच के आदेश

लोकमित्र ब्यूरो

गोण्डा। जिले में बाढ़ से जुड़ी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने हड़कंप मचा दिया है। एल्गिन ब्रिज, चरसढ़ी तटबंध और सकरौर भिखारीपुर रिंग बांध पर हुए कामों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के बाद देवीपाटन मंडल के कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील ने सख्त कदम उठाते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। 15 दिनों में देनी होगी रिपोर्टजांच कमेटी को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह मामला 6 दिसंबर 2024 को ऐली परसौली के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह की शिकायत से सामने आया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2017 से अब तक इन तटबंधों पर किए गए कार्यों में सरकारी धन का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार हुआ है। फर्जी अनुबंध और दोहरी भुगतान का आरोपशिकायत में कहा गया कि ठेकेदारों और अभियंताओं ने फर्जी अनुबंध बनाए और सरकारी खजाने को चूना लगाया। आरोप यह भी है कि एल्गिन ब्रिज और सकरौर रिंग बांध पर एक ही काम को अलग-अलग वित्तीय वर्षों में दिखाकर फर्जी भुगतान किया गया। कमिश्नर ने जताई सख्तीइस मामले में जांच के लिए मुख्य अभियंता (लोक निर्माण विभाग), अभियंत्रण अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग), और प्राविधिक परीक्षक को शामिल किया गया है। कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि बाढ़ कार्यों में हुई वित्तीय अनियमितताओं की गहराई से जांच की जाए और हर तथ्य को सामने लाया जाए। भूमि अधिग्रहण में भी गड़बड़ी का दावाशिकायत में यह भी दावा किया गया है कि भूमि अधिग्रहण में फर्जीवाड़ा कर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। अनुबंध और भुगतान की प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों ने प्रशासन को सकते में डाल दिया है।

एएनएम सेंटर में अज्ञात शरारती तत्वों का धावा

सेंटर में बाउंड्री वॉल के पीलर व मेन गेट तोडा

बदहाल एएनएम सेंटर, जिम्मेदार बेखबर

लोकमित्र ब्यूरो

गोला गोकरणनाथ-खीरी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहे या जिम्मेदारो की उदासीनता लेकिन बात सोलह आने यह भी सच है कि सरकार द्वारा नए-नए भवन बनाने के दावे करने से नहीं थकती लेकिन पुराने भवन की मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

यदि ध्यान भी दिया जाता है तो विभागीय अधिकारियों की खाऊं कमाऊ नीति के चलते मरम्मत कार्य सही से नहीं किया जा रहा है। जिसके फल स्वरुप एएनएम सेंटर दोबारा से जर्जर हो जाते हैं।

ऐसा ही एक मामला ब्लाक कुम्भी क्षेत्र के कस्बा अजान में देखने को मिला जहां एएनएम सेंटर का दोबारा से मरम्मत कार्य अक्टूबर 2024 को कराया गया था।इस एएनएम सेंटर के घटिया तरीके से मरम्मत कार्य के चलते मंगलवार की रात कुछ अज्ञात शरारती तत्वों के लोगों द्वारा एएनएम सेंटर के बाउंड्री वॉल के पीलर व मेन गेट को धक्का लगाने मात्र से ही गिर कर टूट गया।

सुबह जब एएनएम सेंटर पर तैनात सीएचओ संजय सिंह को जानकारी हुई तो अज्ञात शरारती तत्वों के लोगों के विरुद्ध एएनएम सेंटर की बाउंड्री वॉल के पीलर व गेट तोड़ने की तहरीर अजान चौकी पुलिस को दी गई। इधर अजान कस्बे के तमाम ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत कार्य गुणवत्ता पूर्ण न होने से भवन बदहाल है। लाखों रुपए मरम्मत कार्य कागजों में दिखाकर खर्च कर दिया जा रहा है।

जिम्मेदार अफसर धरातल पर उतरना मुनासिब नहीं समझते, जिससे ग्रामीणो को बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना है कि इस एएनएम सेंटर का हाल ही में मरम्मत कार्य कराया गया था।

इसके बाबजूद इसकी फर्स धंस चुकी है और इसका मेन गेट भी जर्जर हो चुका है भवन के अन्दर घास खड़ी है भवन का हाल खंडहर जैसा लग रहा है। इस सम्बन्ध में सीएचओ संजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सितम्बर अक्टूबर में एएनएम सेंटर के मरम्मत कार्य कराया गया था इसमें करीब 50 हजार रुपए शासन की तरह से मिले थे 20 हजार रुपए हमने अपने पास से लगायें है। कुल मिलाकर 70 हजार रुपए मरम्मत कार्य में लगायें गये। गांव के कुछ अज्ञात लोगों द्वारा एएनएम सेंटर के बाउंड्री वॉल के पीलर तोड दिये गये है जिसकी तहरीर पुलिस को दे दी है।

पसका मेला की तैयारियों को लेकर डीएम ने की बैठक

लोकमित्र ब्यूरो

गोण्डा। परसपुर थाना क्षेत्र के पसका में लघु प्रयाग के नाम से आयोजित होने वाले पसका मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मेले की साफ-सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि मेले के दौरान वृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाए।

मेले के सभी घाटों को साफ-सुथरा रखा जाए और प्रतिदिन सफाई के लिए कर्मचारियों की तैनाती की जाए। डीएम ने बिजली विभाग को मेले के दौरान प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी जर्जर तार हैं, उन्हें समय रहते बदल दिया जाए और पूरे मेले में उचित प्रकाश की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि स्थानीय अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। मेले के दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान तुरंत हो सके। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम ने अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय को निर्देश दिए कि मेले में भीड़ को देखते हुए घाट से पहले बैरिकेडिंग की जाए। पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों के साथ सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती हो। साथ ही, मेले की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाए। डीएम ने उप जिलाधिकारी करनैलगंज को निर्देश दिया कि राजस्व कर्मियों को मेले में तैनात किया जाए।

संक्षिप्त खबरें

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि

मिल्कीपुर -अयोध्या।देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं दुनिया के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ मनमोहन सिंह जी का कल रात दिल्ली एम्स में लम्बी बीमारी के चलते 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन पर देशवासी शोकमग्न है जिसके चलते केंद्र सरकार ने देश में सात दिवसीय राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। कुमारगंज बाजार में आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक शोक सभा आयोजित करके डॉ सिंह जी चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित किया। शोक सभा में डॉ. सिंह को याद करते हुए कांग्रेस छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश शुक्ला ने कहा कि डॉ मनमोहन सिंह जी का दस वर्षीय शासनकाल देश की जनता को भोजन-शिक्षा, सूचना और मनरेगा जैसे कई अधिकार देने वाला रहा है। उनका जाना देश के लिए अपूर्णनीय क्षति है। वहीं संजय तिवारी ने कहा कि सिंह साहब आर्थिक उदारीकरण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। कार्यक्रम के संयोजक ब्लाक अध्यक्ष तेजबली पांडेय ने कहा कि सिंह साहब ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पास करके देश की जनता को भुखमरी से बचाने का काम किया है। इस दौरान शोक सभा में किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दिनेश शुक्ल, जिला उपाध्यक्ष अम्बरीष पांडेय, महिपाल सिंह, साधन सहकारी समिति बघौड़ा के अध्यक्ष विजय सिंह, संतोष तिवारी, जगप्रसाद कोरी, कृष्णदेव शर्मा सहित दर्जनों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

श्रमिक समस्याओं को लेकर श्रमिक के हितों में कार्य करेंगे

अयोध्या। जनपद अयोध्या में श्रमिक हितों के लिए बराबर संघर्ष एवं उनके हर कार्यों में बढ़ चढ़कर उनके हक और अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष पर चलने वाले श्रमिक नेता अखिलेश चतुर्वेदी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी श्रमिक यूनियन ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर जनपद अयोध्या का जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से मनोनयन किया गया आशा और विश्वास है तीसरी अखिलेश चौबे पुनः एक बार फिर ट्रेड यूनियन को जनपद अयोध्या में बुलंदियों पर ले जाने का काम करेंगे और श्रमिक समस्याओं को लेकर श्रमिक के हितों में कार्य करेंगे।
प्रमोद पटेल प्रांतीय महामंत्री ने कहा कि इनके मानो नयन के निश्चित ही अयोध्या जनपद में एक नई इबारत लिखी जाएगी और श्रमिकों की समस्याओं का निस्तारण भी होगा।अखिलेश चौबे ने कहा कि आज जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाया जाएगा सभी संगठनों को एक साथ लेकर उनके हर समस्याओं में शामिल होकर उनके हक और अधिकार के लिए पहले भी संघर्ष करता रहा आज भी करूंगा पुनः नई जिम्मेदारी मिलने पर राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कमेटी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं अब एक बार पुनः श्रमिक हितों के लिए श्रम विभाग में उत्तर प्रदेश के श्रमिक विरोधी जो सरकार है जिसने पोर्टल को ही बंद कर दिया है श्रमिकों का कोई भी काम श्रम विभाग में नहीं हो पा रहा है इन सारी समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद होकर श्रमिक भाइयों को इंसाफ दिलाने का काम किया जाएगा।

गोसाईगंज धान क्रय केंद्र पर लक्ष्य के सापेक्ष हुई 42 % धान खरीद

गोसाईगंज-अयोध्या।गोसाईगंज सब्जी मंडी में खुले नवीन मंडी के दोनों धान क्रय केंद्र पर धान तौल कराने के लिए किसानों की भीड़ लगी हुई है। हाल यह है कि ठंड होने के बावजूद भी अपनी उपज तौल कराने के लिए यहां किसानों का रेला लगा हुआ है। केंद्र प्रभारी हरि सेवक चौरसिया ने दोनों क्रय केदो पर 17 किसानों से 5 सौ कुंटल से अधिक धान तौल कराने का दावा किया है।किसानों को अपनी उपज तौल कराने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है इसकी परख करने के लिए दोपहर बाद कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचिव शिव गोपाल ने दोनों क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर वहां मौजूद किसानों से हो रही तौल एवं उपज का सही मूल्य मिल रहा है कि नहीं इसको लेकर पूछताछ भी किया। केंद्र प्रभारी हर सेवक चौरसिया ने बताया कि विभाग द्वारा इस बार गोसाईगंज के क्रय केंद्र नंबर 1 पर 25 हजार कुंटल तथा क्रय केंद्र नंबर 2 पर 15 हजार कुंटल (कुल 40 हजार कुंटल) धान क्रय करने का लक्ष्य दिया गया है। केंद्र प्रभारी श्री चौरसिया ने बताया कि अब तक केंद्र नंबर एक पर 160 किसानों से 9769.60 तथा केंद्र नंबर दो पर 156 किसानों से 9360.40 कुंटल धान की खरीद हो चुकी हैं। गुरुवार दोपहर केंद्र नंबर 1 पर 9 किसानों से ढाई सौ कुंतल तथा केंद्र नंबर दो पर 8 किसानों से सवा 2 सौ कुंतल धान खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि दोनों केंद्रों पर लगभग पौने 3 सौ किसानों ने धान तौल कराने के लिए अपना नंबर लगाया है जो जैसे-जैसे आता रहा है सभी का धान तौल कराया जा रहा है! मालूम हो कि इस बार जिले क़ो 68 हजार मेट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य जहाँ मिला हैँ वही किसान अपना धान विपणन शाखा के सदर तहसील अन्तर्गत नवीन मंडी सदर,गोशाइगंज नवीन मंडी,पूरा बाजार(राजेपुर),सोहावल, मिल्कीपुर,हैरिंग्टीन गंज,अमानीगंज बीकापुर,तारुन,रुदौली(प्रथम व द्वतीय) अमराई गांव,पटरंगा तथा पीसीएफ के वीरशाहपुर, तेलियागढ,दर्शन नगर, इब्राहिमपुर दिवली,कोटसराय,मिल्कीपुर, बिलौरी,कुचेरा,रौतांवा,सेमरा,अछोरा,बीकापुर,पहुपी सराय,चौरेबाजार,रजौरा, यादवपुर, चरावा,गणेशपुर,बरौली(19केंद्र),पी0सी0यू0 के हाजीपुर बरसेंडी,सा0स0स0 लि0 अलीपुर खजुरी,जगदीशपुर,देवगांव, परसांवा महोली,नेतवारी चतुर पुर,गरौली, हैदरगंज,अमराई गांव (10केंद्र),यू0 पी0एस0एस0 के मठिया सरैया,रामपुर बैहरी, जगदीश पुर(मया), अमसिन, देवापुर,मसौधा,पलिया मलावन,ढेमा (8 केंद्र)सहित भारतीय खाद्य निगम के सदर तहसील अन्तर्गत नवीन मंडी व पूरा बाजार के केंद्र पर तौल करा सकते हैं!28 फरवरी 2025 तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली धान तौल का समर्थन मूल्य इस बार शासन ने 2300 व ए ग्रेड की धान 2320 रु0 प्रति कुंतल की दर से निर्धारित किया है!

हेल्थ एटीएम मशीन के लिए चिकित्सक तैनात करने की सभासद ने की मांग

गोसाईगंज-अयोध्या।गोसाईगंज सीएचसी पर हेल्थ एटीम मशीन की जांच के लिए चिकित्सक नियुक्त किए जाने की मांग गोसाईगंज नगर पंचायत की सभासद एवं श्री सीता राम जी विराजमान मंदिर सेवा ट्रस्ट कस्बा दिलासीगंज की सदस्य श्रीमती आरती जायसवाल ने मुख्यमंत्री,स्वास्थ्यमंत्री, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण स्वास्थ्य भवन कैसरबाग लखनऊ सहित अन्य अधिकारियों को पत्र भेज कर की है।भेजे गए पत्र में सभासद श्रीमती जायसवाल ने बताया है कि गोसाईगंज सीएससी पर बीते कई महीनों से अस्पताल परिसर में विभाग द्वारा हेल्थ एटीएम मशीन भेजा गया है । लेकिन चिकित्सको की तैनाती न होने से मरीजो को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है । जिसके कारण मरीजों को अस्पताल में लंबाई,वजन,पल्स,रक्तचाप और तापमान,टाइफाइड, मलेरिया, एचआईवी,यूरिक एसिड,फिटल डॉपलर,लिपिड प्रोफाइल,एच बी ए-1 सी,डेंगू,प्रेगनेंसी,यूरिन,ईसीजी जांच की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अस्पताल में चिकित्सक की तैनाती कर दिए जाने से अस्पताल में जहां उक्त मशीन क्रियाशील हो जाएगी वहीं मरीजों को कम समय में सारी जांच की सुविधा मिल जाएगी। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अविलंब गोसाईगंज सीएचसी पर हेल्थ एटीम मशीन को चालू करने के लिए जल्द से जल्द चिकित्सक तैनात करने की कृपा करें।

अयोध्या महोत्सव-कन्यापूजन कार्यक्रम में बनाया गया विश्व रिकॉर्ड

15551 कन्याओं के पूजन का भी विश्व रिकार्ड अयोध्या महोत्सव के नाम

लोकमित्र ब्यूरो
अयोध्या।अयोध्या महोत्सव में कन्यापूजन कार्यक्रम का भव्य आयोजन शुक्रवार को किया गया, जिसमें अयोध्या महोत्सव न्यास द्वारा दुरदुरिया पूजन के बाद दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यह आयोजन अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक महत्व को प्रदर्शित करने का एक अद्वितीय अवसर था।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रांत प्रचारक कौशल किशोर जी द्वारा किया गया, जिन्होंने बड़े पैमाने पर आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम को अयोध्या की भव्यता से जोड़ा और कार्यक्रम आयोजन समिति की सराहना की।अयोध्या महोत्सव न्यास के अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नारी सशक्तिकरण और समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में दो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें पहला रिकॉर्ड दुरदुरिया पूजन व दूसरा विश्व रिकार्ड कन्या पूजन का है।
अयोध्या महोत्सव न्यास द्वारा 15551 कन्याओं का पूजन किया गया, जो सनातन धर्म में आदिशक्ति का स्वरुप मानी जाती हैं। यह आयोजन वेदमंत्रों के बीच सम्पन्न हुआ, जिससे पूरे परिवेश में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ।कार्यक्रम संयोजिका ऋचा उपाध्याय ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल कन्याओं का सम्मान और पूजन करना था, बल्कि यह भी था कि समाज में कन्याओं के प्रति सम्मान और आदर की भावना को बढ़ावा देना। यह आयोजन एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन था, जिसने सभी उपस्थित लोगों को एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया।इस आयोजन में कन्याओं का पूजन किया गया और प्रांत प्रचारक जी द्वारा कन्याओं पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका विधि-विधान से पूजन किया गया। यह आयोजन एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव था, जिसने सभी उपस्थित लोगों को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा से भर दिया।इस आयोजन के लिए सभी आयोजकों और उपस्थित लोगों को वर्ल्ड रिकार्ड यूनियन की टीम हेड शरीफा बानो ने बधाई दी। यह आयोजन एक सच्ची आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव था, जिसने सभी को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा से भर दिया।
अयोध्या महोत्सव न्यास के अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव ने नारी सशक्तिकरण के महत्व पर बल देते हुए कहा कि स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है और इस सृजन की शक्ति को विकसित करके उनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व वैचारिक स्वतंत्रता के साथ समानता का अवसर प्रदान करना नारी सशक्तिकरण का आशय है।
श्रीवास्तव ने कहा कि नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि समाज में महिलाओं को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

फाउंडेशन परिवार ने निर्धन व असहाय व्यक्तियों को ठंड से बचाने के लिए वितरित किया कंबल

लोकमित्र ब्यूरो
अयोध्या। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी ठंड के मौसम में निर्धन, असहाय, राहगीरो तथा व्यक्तियों को ठंड से बचाने के लिए मां शांति सेवा फाउंडेशन की अध्यक्ष नेहा कुमारी एवं संस्थापक बसंत राम के नेतृत्व में संस्था के सदस्य रात्रि में रोडवेज, स्टेशन अयोध्या कैंट से कंबल, चाय, जलपान एवम खाद्य सामग्री तथा नए पुराने वस्त्र वितरण का शुभारंभ किया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश चौधरी पूर्व प्रबंधक केनरा बैंक को पट्टिका पहनाकर संस्था के संरक्षक समाजसेवी राजकमल राजा ने स्वागत किया साथ ही राजकमल राजा को चौधरी जी ने पट्टिका पहनाकर उत्साह वर्धन किया। चौधरी जी ने कहा कि ईश्वर ने प्रकृति के अनुसार ठंड गर्म के साथ-साथ इंसानों में भी अमीर गरीब बनाया है ऐसे में सभी समर्थ व्यक्तियों को निर्धन असहाय व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए किसी की मदद करने से खुद को आत्म शांति और परिवार को खुशी मिलती है और मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूं। इस पुनीत कार्य में सम्मिलित होकर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं । अतिथि राजकमल राजा जी ने कहा समाज में हर व्यक्ति को समाज कार्य का हिस्सा बनना चाहिए इससे समाज में संकोचित व्यक्ति भी समाज का हिस्सा बनते हैं। संरक्षक बसंत राम ने बताया प्रत्येक वर्ष की भांति संस्था सदस्य के सहयोग एवं अन्य लोगों के सहयोग से कंबल वितरण का कार्य शुभारंभ हुआ है रात्रि में भ्रमण कर कई स्थानों पर कंबल एवं चाय वितरण हुआ और समय-समय पर पूरे ठंड भर यह कार्य चलता रहेगा, अध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि चौधरी जी द्वारा 25 कंबल राजकमल राजा जी द्वारा 10 कंबल आमिर खान एवं आशा गुप्ता डॉक्टर आकांक्षा सिंह जी द्वारा 5 कंबल और इसी क्रम में किशन सावंत, मनोज कुमार ,तंद्रा चौधरी, राम शंकर, स्वर्ण लता शुक्ला, प्रज्ञा श्रीवास्तव,डॉ विनय प्रकाश मौर्य, ऋषि शंकर शुक्ला, सुबोध श्रीवास्तव ने समर्थ अनुसार कंबल चाय बिस्कुट का प्रबंध किया। वितरण रोडवेज, रेलवे स्टेशन, रिकाबगंज, नियावा, चौक जैसे कई स्थान पर हुआ सहयोग के लिए सभी दानवीर एवं सदस्यों को संस्था की ओर से धन्यवाद किया। वितरण कार्य में अमरेश सिंहा,वैभव श्रीवास्तव विनय प्रकाश मौर्य, ऋषि शंकर शुक्ला सहित सदस्य गण सम्मिलित रहे।

कुमारगंज विद्युत केंद्र में लगा 10 एमवीए ट्रांसफार्मर खराब,उपभोक्ता परेशान

लोकमित्र ब्यूरो
मिल्कीपुर-अयोध्या। विद्युत उपकेंद्र कुमारगंज में लगा 10 एमवीए का ट्रांसफार्मर खराब होने से पिठला, सिधौना, कुमारगंज, खण्डासा और तुलशमपुर फीडर क्षेत्र के करीब 85 गांवों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। जिससे करीब 50,000 हजार आबादी वाले क्षेत्र के उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
विद्युत उपकेंद्र परिसर में लगे 10 एमवीए ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से उपभोक्ताओं के घरों में लगे विद्युत उपकरण भी पूरी तरह से ठप होते जा रहे हैं और लोग पानी नहीं भर पा रहे हैं। रात से ही उपखंड अधिकारी मनोज कुमार मौर्य की निगरानी में मरम्मत का कार्य चल रहा है, लेकिन लखनऊ से आई टेक्निकल टीम भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं कर पाई है।
उप खंड अधिकारी ने बताया कि ट्रांसफॉर्मर में टेक्निकल कमी आई है और टेक्निकल टीम त्रुटि की जांच कर रही है। अधिशासी अभियन्ता विद्युत मिल्कीपुर विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि 10 एमवीए ट्रांसफॉर्मर में तकनीकी कमी आ गई है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। दूसरे ट्रांसफार्मर से दो-दो घंटे सभी फीडरो को सप्लाई दी जा रही है और जल्द ही खराब हुए ट्रांसफार्मर को ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाएगी। वहीं क्षेत्र के उपभोक्ता दिनेश कुमार, कैलाश नाथ, बद्री विशाल, तेजबली, डीपी तिवारी राम अनुज, प्रभाकर आकाश,सूरज, दीनानाथ समेत अन्य लोगों का कहना है कि अभी करीब दो माह पूर्व ही 10 एमवीए ट्रांसफार्मर को बदलवाया गया था फिर अब खराब हो गया है। विद्युत आपूर्ति के अनुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता नहीं बढ़ाई जा रही है जिसके चलते ऐसी परेशानी है उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही है।

ग्रामीणों के आक्रोश के बाद बंद हुआ नाली निर्माण

लोकमित्र ब्यूरो
अयोध्या। अमानीगंज विकासखंड के राय पट्टी गांव में पीली ईंटों और बालू के मसाले से बनाई जा रही नाली का निर्माण ग्रामीणों के भारी विरोध के चलते रोक दिया गया, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य करवा रहे हैं ठेकेदार बृजेश यादव मौके पर रखी पीली ईंटों को लेकर भाग खड़े हुए।
आपको बताते चलें कि अमानीगंज विकासखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में से एक राय पट्टी में में राज वित्त एवं 15वें वित्त से जल निकासी के लिए नाली का निर्माण कार्य ग्राम प्रधान शीला देवी के प्रति विजय कुमार कोरी करवा रहे थे ,जिसमें 35 मीटर नाली के निर्माण कार्य का ठेका बृजेश यादव को दिया गया था, जिन्होंने पीलीईटो व दस एक के मसले से निर्माण कार्य शुरू कराया जिस बात को लेकर ग्रामीण बहुत आक्रोशित हो गए तीन दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने एकत्र होकर बन रही नाली निर्माण कार्य को रुकवा दिया और संबंधित ठेकेदार को मौके से इंट लेकर भागना पड़ा। ग्राम पंचायत राय पटरी की प्रधान शीला देवी के पति विजय कुमार ने बताया

कि घटिया निर्माण की शिकायत पर ग्रामीणों द्वारा कार्य को रोका गया है उसे पुनः नाली तोड़कर ठीक कराया जाएगा वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत राय पट्टी के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य आशीष कुमार सिंह अंशु राम तेज सिंह रामकुमार सियाराम सुरेश आदि लोगों का कहना है कि स्थानीय ब्लॉक कर्मियों की मिली भगत से ग्राम पंचायत के प्रधानों के साथ मिलकर गांव सभा में आने वाले धन पर डाका डाला जा रहा है जिसे ग्रामीण किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि कल बड़ी संख्या में ग्रामीण इस मामले को लेकर जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या से मिलकर मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे जबकि ग्राम प्रधान शीला देवी के प्रति विजय कुमार कोरी ने पत्रकारों को बताया कि अभी इस काम का ना तो टेंडर हुआ था और ना ही इसकी आईडी बन करके वर्क आर्डर ही हुआ था इसे वह अपने स्तर से ही करवा रहे थे अब ऐसे में प्रश्न यह उठता है की घटिया निर्माण कार्य बिना प्रशासनिक मंजूरी से कैसे चल रहा था और यदि चल रहा था तो क्या प्रशासन इस काम को श्रमदान घोषित करेगा देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है वही अमानीगंज के खंड विकास अधिकारी अखिलेश गुप्ता ने बताया कि निर्माण कार्य को उन्होंने रोक दिया है और जांच के लिए तीन सदस्य टीम बना दी गई है।

बालवीर दिवस पर दी गई वीरों को श्रद्धांजलि

लोकमित्र ब्यूरो
अयोध्या । कहां जाता है की वीरता की कोई उम्र नहीं होती, किसी का व्यक्तित्व उम्र नहीं देखता । ऐसे ही जाने कितने वीर सपूतों ने भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हंसते-हंसते बलिदान कर दिया। इस कार्य में महिलाएं पुरुष मात्र ही नहीं बल्कि बच्चों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया । 26 दिसंबर का दिन हमारा देश में बाल वीर दिवस के रूप में मनाया जाता है । इस दिन सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को आता ताई औरंगजेब ने दीवारों में चुनवा दिया था । यह बात समझता जिस समय औरंगज़ेब जबरन हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहा था । लेकिन दो वीरों ने औरंगजेब की इस अत्याचार को मुस्कान के तले निचोड़ दिया । जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने हंसते-हंसते अपने प्राणों का बलिदान देश हित में दे दिया। इसीलिए यह दिवस बालवीर दिवस के रूप में मनाया जाता है । अपने देश के इन वीर बलिदानियों को याद करते हुए आज नगर के सरस्वती विद्या मंदिर रामनगर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें इन दोनों वीर सपूतों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई । इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती जसवंत कौर जो की खवासपुरा गुरुद्वारे की प्रधान है रही। श्रीमती कौर ने दोनों वीरों की वीरगाथा नन्हे मुन्ने भैया-बहनों को सुने साथ ही साथ उन्होंने भैया-बहनों को देश के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी दी। इस कार्यक्रम की शुरुआत विद्या भारती के संस्कार स्वरूप मां सरस्वती के सामने दीपार्चन व पुष्पार्चन के साथ हुई । विद्यालय के प्रधानाचार्य मंगली प्रसाद तिवारी जी ने भैया बहनों को गुरु गोविंद सिंह और उनके वीर पुत्रों के विषय में बताया ।
आचार्य बहन सरिता पांडे द्वारा मुख्य अतिथि को साहित्य भेंट की गई। कार्यक्रम को सा कुशल संपन्न कराने में विद्यालय के आचार्य भैया विश्वनाथ,अजीत सिंह, अजय सिंह, विनोद दीक्षित,राम शंकर वर्मा इत्यादि तथा आचार्य बहाने शालिनी सिंह, सोनम सिंह, साक्षी सेन, श्रद्धा तिवारी इत्यादि का विशेष सहयोग मिला। अजीत सिंह के द्वारा मुख्य अतिथि को आभार ज्ञापित किया गया और कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ ।

अपने खरीद का पक्का बिल लें, यह आपका अधिकार है

अयोध्या । राज्य कर विभाग द्वारा ÷अपने खरीद का पक्का बिल लें, यह आपका अधिकार है÷ अभियान के तहत एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर आयुक्त ग्रेड-1 संतोष कुमार की अध्यक्षता में व्यापार मण्डल अयोध्या के प्रतिनिधियों से जुड़ी चर्चा हुई। बैठक का उद्देश्य उपभोक्ताओं को जागरुक करना था कि वे अपनी खरीद पर पक्का बिल प्राप्त करें, क्योंकि इससे कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता। अभियान के तहत स्टीकर और पैम्प्लेट्स वितरित किए गए, और व्यापारियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई। अभियान राज्य सरकार के निर्देशों के तहत दिसम्बर महीने में शुरू हुआ था, और राज्य कर विभाग की टीमें व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर स्टीकर लगाती हैं और पैम्प्लेट्स वितरित कर उपभोक्ताओं को पक्का बिल प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इस बैठक में व्यापार मण्डल के कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे, और राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने उनसे इस अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की।

दशरथ महल में हो रहे रामलीला का हुआ समापन

लोकमित्र ब्यूरो
अयोध्या। विगत 7 दिनों से चल रही रामलीला का समापन 25 दिसंबर 2024 रात 10 बजे हो गया।गौरतलब है कि हेल्प सेफ्टी केयर फाउंडेशन द्वारा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से रामलीला मंचन का शुभारंभ 19 दिसंबर 2024 को चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी के महल में शुभारंभ हुआ था इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी के महल के महंत अनंत विभूषित श्री श्री 108 परम पूज्य बिंदुगद्ययाचार्य देवेंद्रप्रसादाचार्य महाराज थे जिन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ महंत ने विष्णु लक्ष्मी स्वरूप में श्री राम और सीता जी को माला और पट अर्पण कर किया था ।रावण वध करने के बाद राम जी अयोध्या लौटे और उनका राज तिलक धूम धाम से हुआ हमारे राम जी राजा बन गए इसी के साथ कार्यक्रम का समापन हो गया इस दौरान संस्था के प्रबंधक ने सभी कलाकारों और सहयोगियों के साथ साथ संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को भी आभार और धन्यवाद दिया ।इस दौरान मंगल भवन पीठाधीश्वर महंत कृपालु राम भूषण जी महराज की गरिमामयी उपस्थित रही इसके साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे ।

आल इंडिया एथलेटिक्स इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में रूबी कश्यप ने जीता गोल्ड

लोकमित्र ब्यूरो
अयोध्या। डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की महिला खिलाड़ी रूबी कश्यप ने भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आयोजित ऑल इंडिया एथलेटिक्स इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के पहले दिन 10 किलोमीटर दौड़ में प्रथम स्थान पाकर विश्वविद्यालय को गोल्ड मेडल दिलाया। इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत रूबी कश्यप ने खेलों इंडिया प्रतियोगिता के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। इस प्रतियोगिता के टीम मैनेजर डॉ. सतीश श्रीवास्तव एवं कोच नीरज पटेल रहे। ऑल इंडिया इंटर यूनीवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रूबी कश्यप के उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. प्रतिभा गोयल ने गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी ने विश्वविद्यालय का गौरव एवं मान बढ़ाया है। यह उसके निरंतर खेल अभ्यास और तकनीकी दक्षता से संभव हुआ है। इस होनहार खिलाड़ी को विश्वविद्यालय सम्मानित करेगा। विवि क्रीड़ा सचिव प्रो. आशीष प्रताप सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के खेल इतिहास में यह पहला अवसर है कि अखिल भारतीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में

किसी महिला खिलाड़ी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि कुलपति प्रो. प्रतिभा गोयल के कुशल मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को अच्छी खेल सुविधाएं मिल रही है। इसके अलावा खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता की स्पोर्टस किट एवं रेल तथा बस में वातानुकूलित यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे खिलाड़ियों में अपार हर्ष है।इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय क्रीडा परिषद के उपाध्यक्ष प्रो. हिमांशु सिंह, वित्त अधिकारी पूर्णेंदु शुक्ला, कुलसचिव उमानाथ, कुलानुशासक प्रो. एस.एस. मिश्रा, प्रो. नीलम पाठक, साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. दानपति त्रिपाठी, विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष जनमेजय तिवारी, महामंत्री प्रो. अमूल्य, कुमार सिंह, विश्वविद्यालय आवासीय परिसर शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रो.शैलेन्द्र वर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. संग्राम सिंह, महामंत्री डॉ. राना रोहित सिंह, क्रीड़ा उप सचिव डॉ. अनुराग पाण्डेय, डॉ. विनय सिंह, डॉ. मनीष सिंह, प्रो. प्रवीन सिंह, प्रो. सन्तोष गौड़, डॉ. नागेंद्र सिंह, डॉ. पूनम जोशी, डॉ. सीमा पाण्डेय, डॉ. दुष्यंत सिंह, डॉ. अनिल मिश्रा, डॉ. कपिल राणा, डॉ त्रिलोकी यादव, डॉ अर्जुन सिंह, डॉ. अयूब सिद्दीकी, कुमार मंगलम सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने महिला खिलाड़ी को बधाई दी।

शिक्षा के साथ बच्चों को मस्ती का अवसर जरूरी- सुयश आनंद

सेंट जेवियर्स में जेवियर्स वंडरलैंड विंटर कॉर्नवाल का हुआ शुभारंभ, बच्चों में रहा उत्साह व उमंग का माहौल

बलरामपुर। सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलरामपुर में जेवियर्स वंडरलैंड विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया। विंटर कार्निवाल में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी शिरकत की। छात्रों में जमकर कार्निवल में मस्ती किया है।

विंटर कार्निवाल कार्यक्रम का शुभारंभ बहुत ही भव्यता के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय प्रबंध समिति के निदेशक सुयश कुमार रहे। विंटर कार्निवाल में मुख्य अतिथि सुयश कुमार के द्वारा सर्वप्रथम यीशु की मूर्ति के समक्ष कैंडल जलाई गई ।कार्यक्रम के शुरुआत की औपचारिक घोषणा कार्निवल बेल बजाकर की गई। इसी क्रम में नन्हे मुन्हे बच्चों द्वारा जिंगल बेल की धुन पर शानदार डांस प्रस्तुत की गई। सेंटा के द्वारा भी लोगों में टॉफी और चॉकलेट्स बांटी गई।विंटर कार्निवल कार्यक्रम में संजय तोमर व रिजवाना सिद्दीकी के मार्गदर्शन में मंच संचालन की भूमिका वैभवी दुबे,ओंकार शर्मा, वैभव राणा, अभ्युदय, तारूशी राणा ,भाव्या पांडे और आइसना ने सफलतापूर्वक किया।

विंटर कार्निवल कार्यक्रम 10ः00 से शाम 3ः00 बजे तक आयोजित किया गया जिसके मुख्य आकर्षण गेम काउंटर के तहत कार्निवल में क्लास 6वी के काउंटर पर बच्चों और नंदिनी सिंह, रोशन मदीहा, शालिनी दुबे एवं आकांक्षा मिश्रा के द्वारा बाउलिंग बॉल,बॉल शार्ट, मैच द कलर चलेंगे रेनबो रश गेम बच्चों ने खेले । कार्निवल में क्लास 7 वी के काउंटर पर बच्चों और रेखा सिंह आकांक्षा चौधरी अनुराधा सिंह और अनुपमा सिंह के द्वारा बर्जर रन, एंग्री बर्ड, कैंडल एंड मैचबॉक्स बैलून पिरामिड खेल बच्चों ने खेले । कार्निवल में क्लास 8वी के काउंटर पर बच्चों और डीके दुबे, राजू रुबीना नासिर, एवं इंद्रजीत यादव के द्वारा स्ट्रा स्प्रिंट टिक टोक टो, बिंदी ऑन द पॉइंट,रिंग ऑन ए थिंग खेल बच्चों ने खेला।

कार्निवल में क्लास 9वी के काउंटर पर बच्चों और दिव्या सोनी,मंजू मिश्रा,वलीसर,अलमास मैम और मोहित सिंह के द्वारा मिस्टी बॉक्सर प्राइस,जुग्गलिंग आर्किटेक्ट,रोलर बॉलर, प्लेन इन द रिंग, बॉटल फ्लिप फ्रेंज़ी खेल बच्चों ने खेला। कार्निवल में क्लास 11 वी के काउंटर पर बच्चों और अभिषेक सर शिवम कर क मौर्य सर विनीत सर एवं आशीष सर के द्वारा रिमोट कैरम पॉप एंड शॉर्ट चलेंगे मिनी बास्केटबॉल ब्लास्ट द पिरामिड, डार्ट गेम बच्चों ने खेला। कार्यवाल में क्लास 12 वी बच्चों और कंचन मिश्रा मैं के द्वारा हाउजी गेम खिलाया गया।

गेम में जीतने वाले बच्चों को आकर्षक उपहार भी दिए गए।फूड काउंटर पर विंटर कार्निवाल में क्लास 6वी के बच्चों द्वारा छोला भटूरा व पुलाव क्लास 7वी केबच्चोंद्वारा द्वारा पिज़्ज़ा एवं स्प्रिंग रोल का काउंटर लगाया गया। इसी क्रम में क्लास 8 वी के बच्चों ने चाइनीस कॉर्नर, क्लास 9वि के बच्चों ने समोसा चाय कॉफी और क्लास 11वीं के बच्चों ने नूडल्स मोमोज इत्यादि के काउंटर्स लगे। जिन पर आने वाले अभिभावकों एवं बच्चों ने व्यंजन को खाकर लुफ्त उठाया।कूपन बंपर प्राइस कार्निवल कूपंस पर आयोजन समिति ने बंपर प्राइस भी रखा जिसमें प्रथम पुरस्कार साइकिल, दो द्वितीय पुरस्कार जिसमें रोलर स्कूटर एवं दो तृतीय पुरस्कार रोलर स्केट्स रहें। इसी के साथ-साथ फर्स्ट 50,75,100 व 150 कूपन अर्न करने वाले काउंटर्स को भी उपहार वितरित किए गए।अन्य आकर्षणबच्चों ने विभिन्न प्रकार के झूलों जैसे कोलंबस, जायंट व्हील, मिकी माउस,मैरी गो राउंड कार,मैरी गो राउंड हॉर्स,मैरी गो राउंड पिकॉक, हॉर्स रायडिंग इत्यादि पर बच्चों ने खूब मजे किए।

बच्चों ने सेल्फी प्वाइंट, कैरोके ,पॉटरी जैसी गतिविधियों का खूब आनंद लिया इसी के साथ-साथ बच्चों ने टैटू स्टूडियो पर जाकर अपने मनपसंद विभिन्न प्रकार के आकर्षण टैटू बनवाए। बच्चों ने डीजे की धुन पर डांस करते हुए अभिभावकों के साथ खूब मस्ती की। कार्यक्रम में बच्चों ने खेलकूद झूलों एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से खूब आनंद उठाया कार्यक्रम के सफल आयोजन में सेंट जेवियर्स एवं डिज्नी के सभी टीचर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कार्यक्रम हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ।

प्राकृतिक सौंदर्य देखकर नौनिहाल खुशी से झूमे

कंपोजिट स्कूल विशंभर पुर का एकदिवसीय शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम संपन्न

बलरामपुर। शिक्षा क्षेत्र श्री दत्तगंज के कंपोजिट स्कूल विशंभर पुर में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत एकदिवसीय शैक्षिक भ्रमण कराया गया 28 छात्रों की टोली को बलरामपुर चीनी मिल यूनिट तुलसीपुर एवं इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़े जंगल का भ्रमण कराया गया।

विद्यालय प्रधानाध्यापक सकत राम ने शैक्षिक भ्रमण टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यालय टीम शिक्षकों के साथ तुलसीपुर चीनी मिल पहुंचकर वहां के सहायक प्रबंधक आशीष सिंह से मुलाकात की उन्होंने तकनीकी टीम को बच्चों को चीनी मिल का भ्रमण करने का निर्देश दिया तकनीकी टीम ने बॉयलर चीनी बनने एवं पैकिंग वाले स्थान का भ्रमण कराया बच्चों ने गन्ने की पेराई, डोंगा देखकर काफी उत्साहित दिखे इसके बाद चीनी मिल से बनने वाले उत्पादों की फैक्ट्री ले जाकर भ्रमण कराया। छात्रों ने बड़ी-बड़ी मशीन व गन्ने से बनने वाले उत्पादों के बारे में विस्तार से जानकारी लीहै। इसके बाद तीन इंडो नेपाल बॉर्डर जरवा होकर पहुंची। बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों से बच्चों ने सरहद संबंधी विभिन्न मुद्दों को साझा करते हुए उनसे भी जानकारी लीहै।

शिक्षक छात्रों की भ्रमण टीम बॉर्डर पर जांच करा कर कोयला बास जंगल झील झरना पहाड़ देखकर काफी खुश हुए। लक्ष्मण झूला पहुंचकर छात्रों ने पहाड़ व झरने का आनंद लिया। प्रधानाध्यापक सकत राम ने बच्चों को बॉर्डर से जुड़े हुए स्थलों की जानकारी दी उसके बाद पहाड़ पर औषधीय के बारे में विस्तार से जानकारीदी। बच्चों ने पहाड़ पर पहुंचते ही प्राकृतिक नजारा देखकर खुशी से झूम उठे। बच्चों की टीम के साथ धन अध्यापक सकत राम सहायक अध्यापक सुनीता पांडे नीलम पांडे रीना वर्मा शिवचरण लाल सतीश चंद्र आदि शिक्षकों की टीम ने प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बच्चों से पहाड़ झरना झील आदि पर विभिन्न बिंदुओं को साझा किया है। बच्चों ने पहाड़ के क्षेत्र पर खूब सेल्फी लेकर शैक्षिक भ्रमण का आनंद लिया है। प्रधानाध्यापक ने कहा कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शासन की पहल सराहनीय है। इससे बच्चों को न केवल मानसिक शारीरिक एवं प्राकृतिक खुशियां देखने को मिलती है बल्कि उनके मन मस्तिष्क में पढ़ाई करके आगे बढ़ाने की जिज्ञासा जागृत होती है।

दस साल के विनायक ने बचाई बेजुबान परिंदे की जान

बेजुबान परिंदे को खिलाया दाना-पानी, अब विनायक को नहीं छोड़ रहा परिंदा

लोकमित्र ब्यूरो

सुल्तानपुर। मासूम बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उनके अंदर सिर्फदूसरों के लिए प्यार ही होता है। फिर वह किसी इंसान के लिए हो या फिर पशु-पक्षियों के लिए हो। एक ऐसी ही 39 सेकेंड की प्यारी वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसमें एक बच्चा परिंदे को अपने हाथों से दाना चुगाते हुए दिखाई दे रहा है। शोशल मीडिया पर मासूम बच्चे के साथ बेजुबान परिंदे की वीडियो तस्वीर ने लोगों का दिल जीत लिया है।जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। बता दें कि बीते साल अमेठी जिले के जामो ब्लॉक का मंढका गांव के निवासी 30 वर्षीय आरिफ को एक सारस घायल अवस्था में पड़ा मिला था। इलाज के बाद सारस और आरिफ की दोस्ती शोशल मीडिया से लेकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सुर्खियां बनी रही। आरिफ और सारस की दोस्ती को देखने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अमेठी निवासी आरिफ के घर पहुंचे थे।

बुधवार को शहर के गोलाघाट निवासी 9 वर्षीय विनायक को एक बेजुबान परिंदा डीएम आवास चौराहे के बगल घायलावस्था में पड़ा मिला। मासूम विनायक ने घायल परिंदे को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां उसका इलाज कराकर अपने घर ले गए। बेजुबान को विनायक ने दाना चुगाया। शोशल मीडिया पर विनायक और परिंदे की दोस्ती की 39 सेकेंड की वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जानकारी देते हुए विनायक ने बताया कि बुधवार सुबह 11बजे घर के बाहर खड़ा था कि देखा कि डीएम आवास चौराहे के पहले कुछ बच्चे एक पंछी को पकड़कर मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने बिना देर किए तुरंत पहुंच कर घायल परिंदे को हाथ में उठा लिया।जिसका इलाज कराया और अब घर ले आया। बेजुबान परिंदा अब मुझे छोड़कर नहीं जा रहा है। शोशल मीडिया पर लोगों से विनायक ने अपील करते हुए कहा कि सभी को बेजुबानों की रक्षा और सुरक्षित करने के लिए आगे आना चाहिए।

एंबुलेंस को रस्ता दें अभियान पर विचार गोष्ठी व छात्राओं को निःशुल्क सेनेटरी पैड वितरित

लोकमित्र ब्यूरो

सुलतानपुर। कटका क्लब सामाजिक संस्था और यूनीक फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में अंगनाकोल में स्थित ए. के.शिक्षा निकेतन स्कूल में एंबुलेंस को रस्ता दें अभियान पर विचार गोष्ठी के साथ छात्राओं को निःशुल्क सेनेटरी पैड वितरण किया गया। कार्यक्रम शुभारंभ शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शीतला प्रसाद पांडे ने किया। इस अवसर पर उपस्थित संस्था के अध्यक्ष सौरभ मिश्रा विनम्र ने बताया कि हम सभी के नैतिक जिम्मेदारी है एंबुलेंस को जरूर रास्ता देना चाहिए अगर हम सभी एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं सरकार के द्वारा कठोर कार्रवाई भी की जाती है। यूनीक फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर अनूप मिश्रा ने बताया कि आज की यह पहल किशोरियों के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा और महिलाओं के सशक्तीकरण की ओर अग्रसर करेगी.। इस अवसर पर उपस्थित महिला टीम की अध्यक्ष अनुपमा द्विवेदी ने बताया कि हमारे देश में महिलाएं कभी कमजोर नहीं रहीं, वे शुरू से ही सशक्त रहीं हैं.मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूक होना आवश्यक है । कार्यक्रम का कुशल संचालन संस्था के महामंत्री सूरज विश्वास ने किया। इस मौके पर उपस्थित आरती पांडे प्रधानाध्यापिका, मोनू यादव, बृजेंद्र मिश्रा, प्रतिमा जायसवाल, विकास अग्रहरी,संतोषी यादव, रागिनी, पूजा, राजेंद्र प्रसाद, अभिषेक आदि मौजूद रहे।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न

जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।बैठक में जनपद के राष्ट्रीय राजमार्गों पर की गई सुरक्षात्मक कार्यवाही यथा जौनपुर-वाराणसी राजमार्ग, जौनपुर-सुल्तानपुर राजमार्ग, जौनपुर-रामपुर-भदोही मार्ग, जौनपुर-आजमगढ़ मार्ग पर क्षतिग्रस्त डिवाइडर की मरम्मत, डिवाइडर पेंटिंग, यातायात व्यवस्था, साइनेज बोर्ड, पोस्टर लगाए जाने आदि की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि महाकुंभ-2025 के दृष्टिगत जितने भी एनएच हैं उन पर साइनेज बोर्ड लगाए जाएं, रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जाए, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर ली जाए, शौचालय तथा सड़कों के किनारे साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।जनपद आजमगढ़ एवं केराकत मार्ग पर 07 जनवरी 2025 से पूर्व सांकेतिक बोर्ड तथा ब्रेकर लगा दिया जाय। क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत सहित सड़कों के किनारे पौधरोपण किया जाए। कोहरे के दृष्टिगत भी सड़कों पर सुरक्षात्मक कार्यवाही की जाए साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि विद्युत विभाग से समन्वय कर जहां भी लाइट की आवश्यकता है उसको पूर्ण किया जाए। अधिशासी अभियन्ता एनएच लोक निर्माण विभाग वाराणसी के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये।

उन्होंने यातायात निरीक्षक को निर्देशित किया कि वाहनों की फिटनेस जॉच समय समय पर की जाय तथा वाहन चालकों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए और सड़क सुरक्षा तथा यातायात जागरुकता के सम्बन्ध में आमजनमानस को जागरुक किया जाए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, मुख्य राजस्व अधिकारी, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य सहित अन्य उपस्थित रहे।

जिला पर्यावरण समिति की बैठक सम्पन्न

जौनपुर। जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र के निर्देशन में तथा मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक गुरुवार सायं कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा वर्ष-2023-24 और 2024-25 में रोपित किये गये पौधों की जीवित प्रतिशत रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में सूचना 30 दिसम्बर 2024 तक प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया। वृक्षारोपण वर्ष 2025-26 में समस्त विभागों द्वारा वृक्षारोपण हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में, विगत वर्ष की भांति प्रदेश में वृक्षारोपण वर्ष 2025-26 के लिए 36.50 करोड़ वृक्षारोपण लक्ष्य प्रस्तावित है।

जिसके सापेक्ष जनपद जौनपुर में वन विभाग को 14,55,400 व अन्य विभाग को 39,89,767 लक्ष्य प्रस्तावित है।

चिन्हित दिव्यांगों को मिला निशुल्क उपकरण

ऋतुराज सिंह इंटर कॉलेज में समेकित शिक्षा से आयोजित हुआ दिव्यांग उपकरण वितरण कार्यक्रम

बलरामपुर। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत समेकित शिक्षा के तहत 6 साल से 14 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को निशुल्क उपकरण वितरित किया गया यह कार्यक्रम तुलसीपुर विकासखंड के ऋतुराज इंटर कॉलेज कौवापुर में आयोजित किया गया। दिव्यांग उपकरण वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला एवं अध्यक्षता बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला ने की है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं मा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण से किया गया। उपकरण वितरण कानपुर की संस्था एलिंको के सहयोग से किया गया। समेकित शिक्षा की जिला समन्वयक आभा त्रिपाठी ने चिन्हित दिव्यांगों को हबील चेयर, रॉलेटर ,ट्राई साइकिल, कैलिपर, शिक्षण अधिगम सामग्री किट आदि उपकरणों का वितरण कराया । मुख्य अतिथि ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को उपकरण मिलने से न केवल वह सक्षम बनेंगे बल्कि शिक्षा एवं उपकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर भी बनेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी में एलिमको संस्था का अभार जताते हुए बच्चों को उपकरण के सहारे निरंतर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। देशबंधु पांडे, सत्येंद्र सिंह, राकेश सिंह चंद्रमणि ,प्रतिमा सिंह ,नीलम गुप्ता स्पेशल एजुकेटर रहे ।

जबरन निर्माण पर नगर पुलिस व विनियमित महकमा मेहरबान

सुल्तानपुर। कोतवाली नगर के पयागीपुर मोहल्ले भूखंड संख्या 394 व 395 पर आशियाना बनाने का सपना संजोए अरविंद मिश्रा प्रतापगढ़ व रूपेश चौरसिया निवासी चांदा ने अपनी अपनी पत्नी के नाम बैनामा 2017 में लिया था। बाउंड्रीवाल बनाकर गेट लगा सुरक्षित कर लिया था। वही डेंटल चिकित्सक डॉ सीडी सिंह ने भी इसी भूखण्ड में पत्नी के नाम बैनामा लिया। दोनों खतौनी धारकों की भी जबरन कब्जा होने की शुरू से शिकायत कर रहा है, बैनामा धारकों ने जबरन कब्जे की शिकायत एसपी से मिल कर किया था। ऐसे में रोकना तो दूर उल्टे लोकल पुलिस ने फर्जी सूचना देते हुए ऑनलाइन शिकायत का निपटारा कर दिया, जबकि उस समय दीवाल भी नही बनी थी। यदि आख्या के अनुरूप निर्माण रोक दिया गया था तो मकान की शटरिंग व लिंटर पड़ने तक का निर्माण कैसे हो गया? मकान बनाने के लिये शटरिंग चल रही है।

विनियमित मकहमे के जेई की आख्या पर नियत प्राधिकारी/एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी ने दो दिसम्बर को निर्माण पर रोक लगाने हेतु स्थगनादेश दिया है। इसके बावजूद नगर पुलिस की सह पर धड़ल्ले से निर्माण चल रहा हैं।कहीं कब्जा धारक सजातीय होने व सत्ता के इशारे पर ही एसडीएम, सीओ व नगर कोतवाल समेत सब मौन है। जबकि एसडीएम सदर, कमिश्नरी व रेवेन्यू बोर्ड में वाद लंबित है।फिरभी अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। जबकि स्टे का पालन हो कोतवाल नगर नारदमुनि व सीओ प्रशांत सिंह को लिखित आदेश है। खैर अदालत मे लम्बित वाद व स्टे दोनों बौना हो साबित हो रहा हैं।इतना जरूर है कि शांति भंग में उल्टे चालान कर इतिश्री कर ली गई है।सूत्रों की माने तो जब शासन, सत्ता का आंतरिक फरमान है तो जबरन निर्माण जायज है। फिलहाल पीड़ित अब सीएम दरबार मे दस्तक देने के फिराक में हैं।

435 मरीजों, तीमारदारों एवं जरूरतमंदो मुफ्त खाना बांटा

सुलतानपुर। जिले की अग्रणी सामाजिक संगठन राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ ने अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ अध्यक्ष मेराज अहमद खान के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय/जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों तीमारदारों तथा रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों जरूरतमंदों को शुद्ध पौष्टिक गरम ताजा मुफ्त भोजन वितरण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ डॉ अजय सोनी ने किया।उधर रेलवे स्टेशन पर समाज सेवी नईम अहमद ठेकेदार ने जरूरतमंदो को निःशुल्क भोजन की थाल वितरित किया। सगठन के राशिद खान बताया कि मेन्यू में अरहर दाल सब्जी रोटी और चावल शामिल था।मेडिकल कॉलेज में 296 और 139 जरूरतमंदों को रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क भोजन वितरण किया गया।भोजन वितरण कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव नफीसा खान, राशिद खान, डॉ शादाब खान, अब्दुल वदूद उर्फ बब्बन मिलियन टेलर अबरार खान, एहरार खान अमानत खान, राशिद वर्दी टेलर सुलतान महमूद, सद्दाम खान, सैफ खान, नईम खान, सरदार गुरप्रीत सिंह, आतिफ आसिफ माता प्रसाद जायसवाल, वैधनाथ कश्यप, भोलू आदि थे।

इंटर हाउस कॉमर्स प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में ज्वाय हाउस विजयी

लोकमित्र ब्यूरो

सुलतानपुर। करौंदिया, विवेकनगर स्थित कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन में इंटर हाउस कामर्स प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रधानाचार्य डॉ.एन.डी.सिंह, उपप्रधानाचार्य तन्वी गोयल तथा समन्वयक रेनू सिंह के द्वारा मां सरस्वती तथा बाबू के.एन.सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके हुआ।

एकाउंटेंसी, बिजनेस तथा इकोनॉमिक्स विषय में आलोचनात्मक सोच व कौशल को बढ़ाने के लिए चैरिटी,होप, ज्वाय तथा पीस हाउस के विद्यार्थियों की क्विज प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता के प्रतिभागी ज्वाय हाउस के विद्यार्थी तीरू त्रिपाठी, शैली मिश्रा, आंशी व युवराज श्रीवास्तव, पीस हाउस के विद्यार्थी तनु त्रिपाठी, प्रज्वल श्रीवास्तव, रुकैया खातून व उमरा फातिमा चैरिटी हाउस के विद्यार्थी युवराज अग्रहरि, रुद्र प्रताप, उत्कर्ष मिश्रा, अभय कुमार तथा होप हाउस के विद्यार्थी वंशिका तिवारी, श्रुति सिंह, जोया अफ्रोज तथा आयूशी पाण्डेय रहीं जिसमें ज्वाय हाउस ने प्रथम स्थान, पीस हाउस ने द्वितीय, चैरिटी हाउस ने तृतीय तथा होप हाउस ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। इस कामर्स प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के संचालक वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ शिक्षक नितिन जायसवाल तथा टाइम कीपर वीरेंद्र विक्रम सिंह रहे। इस अवसर पर चारों हाउस के इंचार्ज विश्वासमणि त्रिपाठी, सुनील राठी, देवब्रत सिंह तथा अस्मित गुप्ता उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आई.जी.आर.एस. की समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न

सुल्तानपुर। जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आई0जी0आर0एस0 की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें मुख्यमंत्री सन्दर्भ, जिलाधिकारी सन्दर्भ, ऑनलाइन प्राप्त सन्दर्भ, भारत सरकार पी0जी0 पोर्टल सन्दर्भ, शासन राजस्व परिषद निदेशालय सन्दर्भ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महिला हेल्प डेस्क, एन्टी भू-माफिया सहित आदि संदर्भों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा लंबित प्रकरणों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय में निस्तारित किये जायें। जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शासन के मंशानुरूप जनसामान्य की शिकायतों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकताओं के अनुरूप किये जायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का सम्बन्धित अधिकारी मौके पर जाकर मौका मुआयना कर फोटो सहित आख्या लगाकर गुणत्तापूर्ण निस्तारण करें। उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आई.जी.आर.एस. पोर्टल लगातार अवलोकन कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण समय से करें, किसी भी प्रकरण को डिफाल्टर न होने दें।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गौरव शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओ0पी0 चौधरी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वैशाली चोपड़ा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर प्रशान्त सिंह, परियोजना निदेशक(डीआरडीए) अशोक सिंह, उप कृषि निदेशक रामाश्रय यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला सहित सभी सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकाकारीगण मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

संगठन महापर्व को लेकर बनाई गई कार्ययोजना, दिए दिशा निर्देश

बांदा। शुक्रवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित कामकाजी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संगठन महापर्व पर आगामी जानकारी देते हुए पार्टी की नीतियों पर अमल करने का आह्वान किया गया।

भाजपा के संगठन पर्व निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत आवश्यक जिला कार्यालय में आयोजित कामकाजी बैठक में जिला प्रभारी रामकिशोर साहू ने बैठक में अपेक्षित पदाधिकारियों का वृत्त लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है-भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएं और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प; और साथ ही यह आत्मविश्वास कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे भाजपा जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने सभी का आभार जताया। जबकि संचालन जिला महामंत्री अखिलेश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता, अखिलेश श्रीवास्तव, बालमुकुंद शुक्ला तथा लवलेश सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जगराम सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रभा गुप्ता, बबेरू चेयरमैन विवेकानन्द गुप्ता, जिला महामंत्री कल्लू सिंह राजपूत, जिला उपाध्याय प्रेमनारायण द्विवेदी, मनोज पुरवार, डॉ धर्मेन्द्र त्रिपाठी, ममता मिश्रा तथा सीताराम वर्मा, पूर्व जिला महामंत्री राकेश मिश्रा,जिला कोषाध्यक्ष संतू गुप्ता, जिला मंत्री पंकज रैकवार, राजर्षी शुक्ला, दिनेश यादव, मीडिया प्रभारी आनन्द स्वरूप द्विवेदी, पंचायत प्रकोष्ठ जिला संयोजक राजनारायण द्विवेदी, राजेश सेन,महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वंदना गुप्ता, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मोहित गुप्ता, पूर्व चेयरमैन विजयपाल सिंह, देवमूरत द्विवेदी, विष्णु प्रताप सिंह, संतोष यादव, गिरजेश तिवारी, उत्तम सक्सेना, अजीत प्रकाश गुप्ता,दिलीप तिवारी, निखिल सक्सेना, दीपक राजपूत, अनूप तिवारी, अमित निगम, रंजीत सिंह, रामकृष्ण शुक्ला, श्यामबाबू पाल, अनूप सिंह, रामबाबू त्रिपाठी, अमरमणि त्रिपाठी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

लीलाधारी की लीलाओं में प्रकृति और मानव कल्याण का संदेश - आचार्य नवलेश

बांदा। जब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं, तो उनकी लीलाएं सिर्फ खेल नहीं होतीं, बल्कि उनके माध्यम से मानवता और भक्ति के लिए गहरे संदेश छिपे होते हैं। भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं में भी यही संदेश छुपा था। यह बातें भागवताचार्य भागवत रत्न आचार्य नवलेश महाराज ने कटरा रोड स्थित मैरिज हाल में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें शुक्रवार को श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहीं।

उन्होंने कहा कि भगवान की लीलाएं मानव जीवन के लिए प्रेरणा और दिशा का कार्य करती हैं। श्रीकृष्ण ने बचपन में माखन चोरी से लेकर कालिया नाग के दमन तक, हर घटना के जरिए हमें प्रकृति और मानव जीवन के महत्व को समझाया। बालकृष्ण के नटखट स्वभाव ने जहां मां यशोदा का दिल जीता, वहीं उनकी हर लीला ने पांच तत्वों–जल, वायु, मिट्टी, अग्नि और आकाश–को शुद्ध करने का कार्य किया। आचार्य नवलेश ने कहा कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें यह सिखाया कि प्रकृति की रक्षा और पूजा आवश्यक है। आज मानव अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, नदियों का जलस्तर घट रहा है और पहाड़ क्षीण हो रहे हैं। यह प्रकृति के साथ मानव का शोषण है, जो भविष्य में विनाशकारी साबित हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रकृति का दोहन उचित है, लेकिन शोषण नहीं। हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए, जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक हो। अगर हमने अपनी प्रवृत्ति नहीं बदली, तो आने वाला समय हमारे लिए संकट बनकर खड़ा होगा। श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन श्रोताओं की अपार भीड़ देखी गई। महाराज श्री के प्रवचनों और भजनों पर श्रोता भावविभोर होकर झूम उठे। संगीत का अद्भुत समन्वय राघवेंद्र जी और विनोद ने प्रस्तुत किया, जिसने माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन के मुख्य आयोजक जीतेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी अंकिता शर्मा ऊर्फ बल्ली हैं। यह कथा उनके माता-पिता को समर्पित है। कथा के अंत में भगवान की मंगल आरती और प्रसाद वितरण किया गया, जिससे भक्तजन आनंदित हो उठे। महाराज श्री के प्रवचनों में न केवल भक्ति का संदेश था, बल्कि उन्होंने वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण पर भी जोर दिया। श्रोताओं ने न केवल कथा का आनंद लिया, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने की प्रेरणा भी प्राप्त की।

क्वालीफायर मुकाबले में स्पार्टन इलेवन टीम ने जीता मैच

बांदा। टैलेंट सर्च लीग प्रतियोगिता के दौरान शुक्रवार को 13वें दिन पहला क्लीफायर मुकाबला स्पार्टन 11 बनाम इंडिया कैपिटल के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्पार्टन 11 ने 165 रन बनाए। सर्वाधिक रन शांतनु चौहान ने 100 रन व नीतीश राणा ने 21 रन बनाए। इंडिया कैपिटल कि तरफ से आयुष कुमार ने 3 व सुधांशु खरे ने 1 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछे करने उतरी इंडिया कैपिटल की टीम केवल 106 रन ही बना सकीं। इंडिया कैपिटल कि तरफ से सर्वाधिक माही रॉय ने 51 व आयुष कुमार ने 17 रन बनाए। स्पार्टन 11 कि तरफ से सर्वाधिक विकेट अभिषेक सिंह तोमर ने 4 व सैयद मुहम्मद ने 3 विकेट लिए। मैच के मैन ऑफ द मैच शांतनु चौहान रहे। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार नागेश खरे, सुनील सक्सेना और अध्यक्ष ललित कुमार के द्वारा दिया गया। मुख्य अतिथि स्टेडियम के कोच शिवप्रताप सिंह व मनोज मिश्रा रहे। मैच के दौरान टैलेंट सर्च लीग के अंपायर विपिन चक्रवाती, प्रियांशु, प्रशांत सिंह व दीपेंदर कुमार, अध्यक्ष/निर्देशक ललित प्रताप, उपाध्यक्ष अभिषेक तिवारी, संरक्षक दिलीप सिंह गौर, वासिफ जमा खां, शिवम साहू, पुलिस लाइन के पीटीआई संजय मिश्रा, ओपी, प्रबंधक नजरा खातून कोषाध्यक्ष शिवम गुप्ता आदि मौजूद रहे।

आशाओं और आशा संगिनी चयन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए -डीएम

जिला स्वास्थ्य समिति एवं पोषण अभियान की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश

लोकमित्र ब्यूरो

बांदा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति एवं पोषण अभियान की बैठक में जिलाधिकारी नगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आशाओं और आशा संगिनियों की चयन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का मेडिकल कॉलेज व महिला चिकित्सालय में अवशेष भुगतान को शत-प्रतिशत रूप से कराये जाने के निर्देश प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को दिये। उन्होंने आशाओं का भुगतान महुआ, बिसण्डा में लम्बित होने पर तत्काल कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं सहित सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराते हुए उनकी सभी एएलसी जांच कराये जाने और मातृ एवं बाल मृत्यु की समीक्षा करते हुए बाल मृत्यु होने के कारणों की पहचान करने के निर्देश दिये, ताकि जिससे कि चिकित्सा सुविधाओं में ध्यान दिया जा सके। उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप कार्य को पूर्ण करने तथा लाभार्थियों का समय से भुगतान कराने की बात कही। उन्होंने नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत बच्चों के टीकाकरण के लिए ड्यू लिस्ट आशा व एएनएम द्वारा ठीक प्रकार से बनाये जाने तथा छूटे बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने आयरन सीरप छह माह से पॉच वर्ष तक के बच्चों को वितरण कराये जाने के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया।बैठक के दौरान डीएम ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, बीडी सिगरेट पीने वालों व सूगर पीडित तथा जिन घरों में क्षय रोग से सम्बन्धित मरीब रहे हों उनकी जांच करते हुए टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग एवं चिन्हित किये जाने के निर्देश दिये, जिससे इस रोग की रोकथाम की जा सके। उन्होंने कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 जनवरी से 13 फरवरी, 2025 तक जागरूकता अभियान चलाये जाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के समस्त चिकित्सा अधिकारियों को दिये। उन्होंने 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाये जाने के कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने पोषण अभियान के अन्तर्गत जिला पोषण समिति की बैठक में रिक्त आंगनबाडी कार्यकत्रियों की चयन प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिये। उन्होंने हर आंगनबाडी केन्द्र पर एमडीएम पंजिका बनाये जाने तथा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नियमित रूप से पोषाहार वितरण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने पोषण एप में आधार सत्यापन कराये जाने तथा सभी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन लेकर चार्ट तैयार कराये जाने के निर्देश मुख्य सेविकाओं को दिये। उन्होंने सभी ब्लाकों में आंगनबाडी कार्यकत्रियों का पोषण ट्रैकर एप व अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु प्रशिक्षण कैम्प आयोजित किये जाने के निर्देश डीपीओ को दिये। उन्होंने अवशेष आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण किये जाने के लिए भूमि का चयन राजस्व विभाग से कराकर शीघ्र प्रस्ताव दिये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने अवशेष आंगनबाडी केन्द्रों में शौचालयों का निर्माण कार्य शीघ्र खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय कर पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युतीकरण का कार्य भी शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये।

बैठक में एडीएम राजेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी समेत संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

दंपति ने भाई बहन को पीटा, बहन अस्पताल में भर्ती

बांदा। दंपति ने घर से निकलने के उद्देश्य सौतेले भाई को बहन को मारपीट कर जख्मी कर दिया। शोर गुल सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने किसी तरह उन्हें बचा लिया। घायल बहन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया ।घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। तिंदवारी कस्बा निवासी संध्या 11 पुत्री दुर्विजय अपने दिव्यांग बड़े भाई करन और अरुण के साथ रहती है। उसके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है ।अरुण की कमाई से घर का खर्च चलता है । संध्या ने बताया कि उसकी मां मुन्नी देवी की 3 साल पहले मौत हो गई थी। वहीं पिता की 5 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। उसका सौतेला बड़ा भाई अर्जुन अपनी पत्नी प्रीति के साथ उसी घर में रहता है। संध्या ने आरोप लगाया कि सौतेला भाई अर्जुन उन लोगों को घर से निकलना चाहता है ।बात-बात में अर्जुन और उसकी पत्नी उनके साथ मारपीट करती है ।गुरुवार की शाम संध्या खाना बना रही थी तभी अर्जुन और उसकी पत्नी ने संध्या को गाली गलोज करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर दोनों लोगों ने संध्या को लाट घुसो से पीटना शुरू कर दिया । संध्या को पिटता देख दिव्यांग बड़ा भाई करन उसे बचाने आया तो उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया। संध्या को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया चाचा शिवचंद्र ने बताया कि घटना की तहरीर पुलिस को दी गई थी। लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया।

बीसीएल में बांदा वारियर्स टीम ने जीता मैच

बांदा। शुक्रवार को बांदा वॉरियर्स और बांदा फाइटर्स के बीच मैच खेला गया। बांदा वॉरियर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। इसमें 20 ओवर मे निर्धारित 128 रन बनाए जिसमें प्रतीक यादव ने सर्वाधिक 25 रन बनाए और हर्षित मिश्रा ने 20 रन बनाए, .जिसमें फैजान अली ने 4 ओवर 16 रन देकर 3 विकेट लिए और निलेंद्र ने 4 ओवर मे 16 रन देकर 2 विकेट लिए .जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांदा फाइटर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 85 रन बना पाई, जिसमें अभिषेक पाल ने सर्वाधिक 22 रन बनाए, जिसमें सुमित सिंह ने 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए जिसमें बांदा वॉरियर्स ने 43 रन से जीत हासिल की। मैन आफ द मैच प्रतीक यादव को संदीप नामदेव और चन्द्रमौली भारद्वाज ने दिया। सीनियर खिलाड़ी चंद्रमौली भारद्वाज और राममिलन गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, कोच शिवप्रताप सिंह, रेहान खान, विजय राय, मनोज मिश्रा, संदीप नामदेव, शिवम साहू आदि मौजूद रहे। स्कंद भारद्वाज, शाश्वत यादव, अजय वर्मा, कृष्णा सिंह व युवराज मौजूद रहे।

देश की आन-बान के लिए मर मिटने का रखते थे जज्बा

रामलीला मैदान में शुक्रवार को मनाई गई महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती

लोकमित्र ब्यूरो

बांदा। महाराजा खेत सिंह खंगार जूदेव की जयंती शुक्रवार को रामलीला मैदान अलीगंज में मनाई गई। जलशक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद ने महाराजा खेत सिंह की वीरता और उनके बलिदान पर प्रकाश डाला। साथ ही खेत सिंह की नई प्रतिमा लगवाने का आश्वासन दिया। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने खेतसिंह के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। कहा कि वे समाज, देश की आनबान के लिए मर मिटने का जज्बा रखते थे। मंच पर मुख्य अतिथियों का कार्यक्रम संयोजक शैलेंद्र सिंह खंगार व अखिल भारतीय खंगार समाज जन सेवा समिति दिल्ली राष्ट्रीय महामंत्री ग्राम चौसड़ वाले वीर सिंह खंगार व जिला अध्यक्ष कृष्णा सिंह खंगार बलवंत सिंह के द्वारा माला पहनाकर भव्य एवं दिव्य स्वागत किया गया। इसके पूर्व रामलीला मैदान से गाजे बाजे के साथ खेत सिंह जूदेव की शोभायात्रा निकाली गई।जो बाबूलाल चौराहा, महेश्वरी देवी मंदिर, राणा प्रताप चौक होते हुए गजानन माता मंदिर सर्वोदय नगर में समाप्त हुई। शोभायात्रा का जगह-जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन चंद्रपाल सिंह खंगार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खंगार समाज द्वारा शानदार निभाया।। इस मौके पर नरेनी विधायक ओम मणी वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष मालती बासु प्रतिनिधि अंकित बासु बड़ोखर ब्लाक प्रमुख सोनू सिंह, वीर सिंह खंगार, कृष्णकिशोर सिंह खंगार कृष्णा, जिलाध्यक्ष खंगार समाज, यशवंत सिंह खंगार, अरुण सिंह खंगार, चंद्रपाल सिंह खंगार, अमरदीप सिंह, संतोष सिंह, ओम सिंह खंगार, ज्ञानप्रताप सिंह सभासद, लल्लू सिंह खंगार, भोली सिंह, दादू पहलवान आदि मौजूद रहे।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन के निधन से देश को हुई अपूर्णीय क्षति

लोकमित्र ब्यूरो

बांदा। वर्ष 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे डॉ. मनमोहन सिंह के निधन से देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। सत्ताधारी भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने शोक संवेदना प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अब हम सबके बीच नहीं हैं, उनकी कमी देश को हमेशा महसूस होगी। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अपना महान नेता खो दिया है। अतर्रा में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में शोकसभाओं का आयोजन हुआ।

पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अफसाना शाह के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर अध्यक्ष ने कहा कि अत्यंत शालीन व्यक्तित्व के धनी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से कांग्रेस ने अपना महान नेता खो दिया है। कांग्रेस नेता संकटा प्रसाद त्रिपाठी ,डॉ. केपी सेन, राजेश कुमार गुप्ता, डॉ. संजय द्विवेदी, सत्यप्रकाश द्विवेदी, बी.लाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री सच्चे मार्गदर्शक थे। कांग्रेसियों ने दो मिनट का मौन रखकर आत्मशांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान आदित्य कुमार, शिवबली सिंह, पवन देवी कोरी, जितेंद्र गौरव, गेंदाप्रसाद यादव, जिलानी दुर्रानी, शब्बीर सौदागर, बबलू चौरसिया, भइयालाल पटेल, पूर्व शहर अध्यक्ष राजबहादुर गुप्ता आदि मौजूद रहे। भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से शोक व्यक्त किया। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। सभी पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा जिलाध्यक्ष संजय सिंह, मीडिया प्रभारी आनंदस्वरूप द्विवेदी, बालमुकंद शुक्ला, संतोष गुप्ता, जगराम सिंह के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। शोकसभा का संचालन जिला महामंत्री अखिलेशनाथ दीक्षित ने किया। इस दौरान लवलेश सिंह, प्रभा गुप्ता, चेयरमैन बबेरू विवेकानंद गुप्ता, कल्लू सिंह राजपूत, प्रेमनारायण द्विवेदी, धर्मेन्द्र त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। इधर, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉ. मधुसूदन कुशवाहा ने पार्टी कार्यालय में शोकसभा का आयोजन किया और प्रख्यात अर्थशास्त्री व देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर दो मिनट का मौन रखते हुए ईश्वर से आत्मशांति की प्रार्थना की। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर शुक्रवार को शोकसभा का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन शोक संवेदना प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दो मिनट का मौन धारण करते हुए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ईश्वर से आत्मशांति की प्रार्थना की। कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के बुंदेलखंड अध्यक्ष वीरेंद्र साक्षी, प्रमुख जिला महासचिव नईम नेता, जिला महासचिव वैश्य अमित गुप्ता मनीष, संजीव सिंह बबलू, आदित्य निगम नितिन, फैशल खान, खुर्शीद, पुनीत गुप्ता, ज्ञानेंद्र गुप्ता, शिवबहादुर सिंह, शाहबाज रिंकू, याकूब भाई, ज्ञान प्रकाश पांडे, मोहम्मद सिराज दानिश, जावेद, रिजवान, सद्दाम, शाहिद सहित पदाधिकारी मौजूद रहे।

ट्रेन से कटकर युवक ने कर ली खुदकुशी

लोकमित्र ब्यूरो

बांदा। घर से निकले युवक ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली ।मौत की खबर मिलते ही घर वालों कोहराम मच गया । सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया । बदौसा थाना क्षेत्र के दुबरिया गांव के मजरा गडरिया पुरवा निवासी जितेंद्र 32 पुत्र जयकरन गुरुवार की रात करीब 9:00 बजे घर से निकल गया। रेलवे स्टेशन के पास उसने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली ।सुबह घर वालों को जानकारी हुई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया ।मृतक के भाई राजेंद्र ने बताया कि जितेंद्र पांच भाइयों में सबसे बड़ा था ।वह बिना बताए घर से चला गया ।उसने ट्रेन से कट कर खुदकुशी कर ली ।मृतक अपने पीछे दो पुत्र एक पुत्री पत्नी सीता छोड़ गया। परिवारीजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

अग्रिम आदेशों तक प्रतियोगिता स्थगित

लोकमित्र ब्यूरो

बांदा। जिला युवा कल्याण एवं प्राविद अधिकारी ने बताया कि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के तत्वाधान में वित्तीय वर्ष-2024-25 में विकास खण्ड स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन विकास खण्ड महुआ, बबेरू और जसुपरा व नरैनी में होना प्रस्तावित था। लेकिन अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक के लिए प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया है।

माता-पिता की सेवा करना प्रत्येक सनातनी का धर्म - सुरेशानंद

लोकमित्र ब्यूरो



कमासिन। श्री कामेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में कथा व्यास पंडित सुरेशानंद शास्त्री ने कथा के द्वितीय दिवस पर भागवत कथा प्रेमियों को तपस्वी संत आत्माराम के त्याग और पुत्र धुंधकारी के जीवन वृतांत का विस्तृत वर्णन किया। शबरी के आश्रम में भगवान राम के प्रतिष्ठा की कथा का रसपान कराते हुए कहा कि शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची, आश्रम में सहारा पाने के बाद गुरु वचन को मानकर भगवान के दर्शन मिलने की आशा में सबरी प्रतिदिन कुटिया के रास्ते को साफ कर रघुकुल नंदन की प्रतीक्षा करती रही। गुरु के वचन में श्रद्धा विश्वास रख शबरी भगवान के दर्शन पाकर भाव विभोर होकर जंगल से चुन चुन कर मीठे बेर को खिलाकर हो गई। अनाथों की रक्षा की कथा व्यास ने कहा जीवन में गुरु प्रत्येक मानव को बनाना चाहिए। देवियों को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है पति ही गुरु है।

कथा श्रवण के समय ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए।यह भी कहा जो गरीब लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो उन्हें कथा जरूर सेवन करना चाहिए, जिनके घर में कोई संतान न हो उन्हें निश्चित भागवत कथा सुनना चाहिए। मानव कल्याण का साधन भगवान के चरणों में भक्ति से है, कथा सुनना हर सनातनी का कर्तव्य है। शास्त्रों का सार श्रीमद्भागवत में ही है। जब-जब धर्म की हानि हुई अधर्मियों का नाश करने के लिए प्रभु ने अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा की। भगवान अनंत के अवतार हैं। कृष्ण और राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ राम कृष्ण दोनों एक हैं। दोनों पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। कथा के तीसरे दिवस कथा में राजा परीक्षित के जन्म के आगे की कथा सुनाते हुए कहा क्षत्रिय राजा को प्रजा की सुरक्षा करनी चाहिए। पिता धर्मा पिता कर्मा माता-पिता भगवान के समान हैं, जिसने जीवन दिया वही भगवान है। माता-पिता की सेवा करना प्रत्येक सनातनी का धर्म है।

न्यूज डायरी

कुम्भ रेल सेवा एप सुरक्षा के साथ गाइड भी बनेगा

प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे ने महाकुम्भ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए %कुम्भ रेल सेवा एप शुरू किया है। इस एप पर श्रद्धालुओं को रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। मुसीबत में आरपीएफ का नंबर तो दर्शन के लिए तीर्थ स्थलों के बारे में एप से जान सकेंगे।
सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि कुम्भ रेल सेवा एप से श्रद्धालुओं को ट्रेनों की समयसारणी, टिकट बुकिंग, स्टेशन से मेला क्षेत्र तक पहुंचने के मार्ग और रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एप में महाकुम्भ के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की जानकारी दी जाएगी। इस एप में आपातकालीन स्थिति में जरूरी मोबाइल नंबरों की जानकारी मिलेगी।
इस एप में रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी, जैसे वेटिंग रूम, रेस्ट रूम, फूड स्टाल, पीने के पानी की व्यवस्था और सफाई जैसी सुविधाएं। इस एप में महाकुम्भ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें अतीत के महाकुम्भ के फोटो गैलरी, इतिहास, आयोजनों और धार्मिक महत्व की जानकारी भी मिलेगी। कुम्भ रेल सेवा एप महाकुम्भ के आयोजन को एक नया डिजिटल दृष्टिकोण प्रदान करेगा, जिससे यात्रियों को आवश्यक जानकारी और सुविधाएं आसानी से मिलेंगी।

राम जानकी मन्दिर के संस्थापक का निधन

लोकमित्र ब्यूरो
बहरिया । विकास खंड सोरांव क्षेत्र के हरिडीह गांव में में स्थित राम जानकी मन्दिर के संस्थापक रामबालक दास (सूखीडीह) का आकस्मिक निधन हो गया । इनके आकस्मिक निधन से श्रद्धालुओं एवं ग्रामीण लोगों में शोक व्याप्त है । उक्त जानकारी भक्त अभयराज पटेल ने दी ।

पूर्व प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह को नमस्ते भारत परिवार ने दी श्रध्दाजंली

प्रयागराज। पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के प्रमुख व प्रमुख अर्थशास्त्री डॉ मनमोहन सिंह के निधन पर नमस्ते भारत परिवार ने शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। डा0 मनमोहन सिंह को याद करते हुए सह संयोजक हिमांशु निक्की केसरवानी ने कहा कि उनकी विद्वत्ता, सादगी, ईमानदारी समूचे देश मे विख्यात रही। आधुनिक भारत में खुली अर्थव्यवस्था के सूत्रधार, भारत ही नहीं अपितु कई देशों ने उनकी अर्थव्यवस्था को अपनाया और सफल भी हुए। ऐसे महान असरदार सरदार डा0 मनमोहन सिंह को नमस्ते भारत परिवार नमन करता है। नमस्ते भारत के संयोजक नरेंद्र खेड़ा ने कहा कि भारत ने कुछ ही महिनों में डॉ मनमोहन सिंह व रतन टाटा जैसे दो बड़ी शख्सियत को 2024 में खो दिया। उनके कार्यकाल में जन सूचना अधिकार जैसे सशक्त कानून उनकी देने थी। आज ऐसी पुण्यात्मा के निधन से समूचा भारत उन्हें नम आंखों से श्रध्दाजंली अर्पित करता है।
श्रद्धाजलि अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से पूर्व पार्षद अमरजीत सिंह, प्रयागराज अध्यक्ष अंकुर रस्तोगी, गुलशन अरोड़ा, पीयूष जयसवाल, मुकेश टोटल, निरंकार विक्की साहू, सुनील केसरवानी, उत्तम केसरवानी, राज घनवानी, राकेश केसरवानी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।

खुद को छोटा आदमी कहते थे मनमोहन सिंह- किशोर

प्रयागराज। यूपी कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता किशोर वार्ष्णेय ने आर्थिक सुधारों के महानायक पूर्व प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह के निधन को देश की अपूर्णीय क्षति बताया है । उन्होंने कहा कि विद्वान और विचारक डा.सिंह प्रगतिशील बदलावों और समावेशी विकास के पुरोधा थे । जिनके उदारीकरण, सूचना के अधिकार, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, न्यूकिलयर डील जैसे छह फैसलों से देश को नई दिशा मिली।
वार्ष्णेय ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसी बड़ी कुर्सी के लिए छोटा आदमी कहते थे। वे जब बोलते थे तो दुनिया सुनती थी, वह न केवल भारत बल्कि दुनिया के बेहतरीन नेता थे। विद्वान और विचारक के रूप में प्रख्यात डा.सिंह को सदैव याद किया जायेगा।

राष्ट्रीय शोक के कारण मुख्यमंत्री का दौरा रद्द

प्रयागराज। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण पूरे देश में राष्ट्रीय शोक के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा फिलहाल रद्द हो गया। सीएम को शनिवार को प्रयागराज आना था। इस दौरान मुख्यमंत्री को वैष्णव अखाड़ों के पादुका पूजन में जाना था और महाकुम्भ की तैयारियों का निरीक्षण करना था। डीएम महाकुम्भ विजय किरन आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री का दौरा फिलहाल रद्द हो गया है।

चेन छीनने वाले दो शातिर चेन स्नेचर गिरफ्तार

प्रयागराज। धूमनगंज थाना, एसओजी नगर और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को चेन स्नेचर के गिरोह के दो शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से नकदी, जेवरात, दो बाइक, तमंचा और तीन कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों आरोपियों पर प्रयागराज व वाराणसी में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं।
डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में बताया कि धूमनगंज थाने में एक महीने के अंदर तीन चेन स्नैचिंग के मामले दर्ज हुए थे। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी में जुटी थी। इसी बीच शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर कौडरा गांव के समीप दबिश देकर आरोपी संतोष रावत निवासी गयासुद्दीनपुर थाना धूमनगंज व हाल पता गद्दोपुर थाना फाफामऊ और दीपक भारतीया निवासी हरवारा थाना धूमनगंज व हाल पता मम्फोर्डगंज कर्नलगंज को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से सोने के लॉकेट की बिक्री का 70 हजार रुपये, पांच सोने के जेवरात, एक चोरी की बाइक, एक कूटरचित नंबर वाली बाइक, एक देशी तमंचा व तीन कारतूस बरामद की गई। संतोष पर प्रयागराज व वाराणसी में कुल 26 मामले और दीपक के खिलाफ प्रयागराज में पांच मामले दर्ज हैं।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक संपन्न

प्रयागराज। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक फाफामऊ के प्राची हॉस्पिटल के सभागार में संपन्न हुई अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद केसरीवानी ने की। यह बैठक सोरांव तहसील के पत्रकारों वं फाफामऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय पत्रकारों की संयुक्त बैठक करने का मुख्य उद्देश्य संगठन के विस्तार और पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा की गई बैठक में सोरांव तहसील के तीन दर्जन से अधिक पत्रकारों ने हिस्सा लिया द्य जिला अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद केसरीवानी ने पत्रकारों की चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के स्तंभ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करना संगठन की प्राथमिकता है।इस अवसर पर संगठन के विस्तार और मजबूती पर भी चर्चा हुई। यह तय किया गया कि नई सदस्यता प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और अधिक से अधिक पत्रकारों को संगठन से जोड़ा जाएगा। बैठक में पत्रकारों को उनकी सुरक्षा दुर्घटना बीमा,के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई कार्यक्षेत्र की चुनौतियों और पत्रकारिता के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया गया।अध्यक्ष ने कहा कि संगठन पत्रकारों के हितों के लिए सदैव तत्पर रहेगा और उनकी हर समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। बैठक के अंत में सभी पत्रकारों ने संगठन की मजबूती के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।यह बैठक न केवल पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण रही, बल्कि संगठन की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई इस मौके पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला महामंत्री दिगंबर त्रिपाठी विपिन बिहारी राजीव ओझा नवल किशोर मिश्रा राम सजीवन मिश्रा राजेश शुक्ला पिंटू शुक्ला सुनीला सोमवंशी आर डी वर्मा अश्वनी मिश्रा कंदर्प पांडे डी के यादव ई थिलेश तिवारी शंकर लाल गुप्ता राजेश कुमार कार्यक्रम के समापन वं धन्यवाद ज्ञापनआयोजक जितेंद्र बहादुर सिंह ने आए हुए अतिथियों वं पत्रकारों के प्रति आभार व्यक्त किया बैठक में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय पत्रकार मौजूद रहे।

निर्मल गंगा के संकल्प को साकार कर रहा नमामि गंगे मिशन

लोकमित्र ब्यूरो
महाकुम्भ नगर। महाकुम्भ 2025 को न केवल आध्यात्मिकता का महापर्व, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का आदर्श प्रतीक बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन ने अनूठी और व्यापक योजनाओं को लागू किया है।
गंगा की पवित्रता और सतत प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, प्रयागराज में वर्तमान में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) संचालित हो रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 340 एमएलडी है। महाकुम्भ 2025 की विशेष तैयारियों को सशक्त बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन की ओर से तीन नई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनके अंतर्गत सलोरी में 43 एमएलडी, रसूलाबाद में 90 एमएलडी और नैनी में 50 एमएलडी क्षमता के अतिरिक्त एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य महाकुम्भ के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त गंगा जल उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि गंगा की अविरलता और निर्मलता को दीर्घकालिक रूप से

सुनिश्चित करना भी है। गंगा और यमुना नदियों की निर्मलता और स्वच्छता को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयागराज में अद्वितीय प्रयास किए जा रहे हैं।
कभी 81 नालों से प्रदूषित होने वाली इन नदियों की कहानी अब बदल रही है। नमामि गंगे मिशन और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से, इन नालों को स्वच्छता की धारा में परिवर्तित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्तमान में, 81 में से 37 नालों को पूरी तरह टैप कर उनका उपचार किया जा चुका है, जिससे इन नदियों में प्रदूषण का प्रवाह रुक गया है।
इसके अलावा, 5 नालों को सूखा या अप्रभावी पाया गया है, जिन्हें किसी प्रकार के उपचार की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, महाकुम्भ 2025 की तैयारियों के तहत, राज्य सरकार ने अपने बजट में 17 नालों को टैप करने का दायित्व लिया है और इसके लिए आवश्यक संसाधन व प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा रही है। शेष 22 नालों को टैप करने का कार्य नमामि गंगे मिशन (एनएमसीजी) के नेतृत्व में किया जा रहा है, जो स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। महाकुम्भ 2025 को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन द्वारा शुरू की गई दूरदर्शी योजनाओं का उद्देश्य गंगा और यमुना नदियों की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखना है, ताकि नदियों की पवित्रता के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी संरक्षित किया जा सके।
गंगा और यमुना को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, योजनाबद्ध अवसंरचना और समाज की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है कि गंगा और यमुना की पवित्रता आने वाली पीढ़ियों तक अक्षुण्ण बनी रहे।
मिशन की यह पहलें केवल महाकुम्भ को सफल बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य प्रयागराज की सीवरेज अवसंरचना को दीर्घकालिक रूप से मजबूत करना भी है।

महाकुंभ में बिना परमिशन न चल पाएंगे भंडारे

प्रयागराज। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुम्भ-2025 में संचालित किए जाने वाले भण्डारों की अनुमति कलेक्ट्रेट प्रयागराज स्थित नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय से निर्गत की जायेगी।
भण्डारों के आयोजन किए जाने हेतु यात्रियों के ठहराव स्थल (होल्डिंग एरिया) का चिन्हांकन किया गया है। भण्डारों के आयोजन हेतु आवेदन पत्र 05 जनवरी से पूर्व नगर मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के कार्यालय में प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नगर मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के कार्यालय अथवा संजय कुमार सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोबाईल संख्या-8840587851 व अरविन्द कुमार तिवारी, कार्यालस सहायक मो0 सं0-7007246156 पर भी प्राप्त की जा सकती है।
ज्ञातव्य हो कि भण्डारे के आयोजन के पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपरिहार्य है। बिना अनुमति के भण्डारे का आयोजन नहीं किया जायेगा।

शौच के लिए गई महिलाओं से छेड़खानी, बचाव के लिए गए लोगों पर हमला

मारपीट में महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग हुए घायल

लोकमित्र ब्यूरो
बहरिया। बहरिया थाना क्षेत्र के सेहुआडीह महमदपुर गांव में शौच के लिए गई महिलाओं से गुरुवार की रात लोगों द्वारा छेड़खानी किया गया जिसके बचाव के लिए गए ग्रामीणों पर लोगों ने हमला बोलकर दर्जन भर लोगों को लहूलुहान कर दिया। गांव में दो पक्षों में पहले से ही रास्ते को लेकर तनातनी थी। मामले में तहरीर दी गई है। बताया जाता है कि सेहुआडीह महमदपुर गांव की दलित बस्ती और पटेल बस्ती के लिए आजादी के बाद से आज तक कोई भी रास्ता नहीं था। लोग पगडंडी के सहारे आ जा रहे थे। लेकिन ग्राम प्रधान दिलीप यादव की वजह से एसडीएम के आदेश पर राजस्व टीम ने पैमाइश करके रास्ते को बनवाना शुरू किया। जो विपक्षी अराजक तत्वों को सड़क बनना रास नहीं आया।
गुरुवार की रात खुन्नस खाये विपक्षी सड़क की तरफ गई महिलाओं से छेड़खानी करने लगे। शोर मचाने पर दलित और पटेल जाति के लोग मौके पर पहुंचे तो पहले से ही योजना बनाएं दो दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडे सरिया लेकर धावा बोलकर मारपीट कर दर्जन भर लोगों को मारपीट का लहूलुहान कर दिया। दलितों को जाति सूचक गाली भी दिया गया। मारपीट में घायल लोगों ने थाने पर पहुंचकर नामजद तहरीर दिया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नही किया है। पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है ।मारपीट से गांव में तनाव बना हुआ है।

महाकुंभ से पहले 2100 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की हुई ट्रेनिंग

प्रयागराज में खाद्य सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने एफएसएसएआई के साथ मिलकर किया ऐतिहासिक कार्य

लोकमित्र ब्यूरो
प्रयागराज। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर प्रयागराज प्रशासन ने नगर की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है। अगले महीने होने वाले महाकुंभ से ठीक पहले नगर के 2100 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ के निर्देशन में मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सभागार में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए आयोजित एक दिवसीय फॉस्टैक प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यक्तिगत स्वच्छता, खाद्य प्रबंधन, खाना पकाने के तरीके और अपशिष्ट प्रबंधन समेत कई आवश्यक विषयों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी गयी। इसके तहत विशेष रूप से खाद्य

व्यवसायों के लाइसेंस और पंजीकरण के संबंध में अनुसूची 4 में निर्धारित दिशा निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की जानकारी और तौर-तरीकों को बेहतर बनाना तथा बेहतर खाद्य सुरक्षा मानकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण के दौरान स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को हाईजीन किट्स भी बांटा गया, जिनमें एप्रॉन, ग्लब्स, हेड-गियर तथा स्ट्रीट फूड वेंडर्स मैनुअल शामिल है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी व विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन वाजपेयी ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रोत्साहित किया। प्रशिक्षण के दौरान नगर मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह के साथ-साथ एफएसएसएआई के संयुक्त निदेशक अंकेश्वर मिश्रा समेत प्राधिकारण के दूसरे अधिकारी तथा राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग से सुशील कुमार सिंह-अभिहित अधिकारी व अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजन में एफएसएसएआई के ट्रेनिंग पार्टनर जनपहल ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को इकट्ठा करने तथा कार्यक्रम के समन्वय में अहम भूमिका निभाई।

ट्रांसफार्मर मे होल कर तेल चुरा ले गए चोर गांव में छाया अंधेरा

लोकमित्र ब्यूरो
उतराव । प्रयागराज।उतराव क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर नागनाथपुर में चोरो द्वारा ट्रांसफॉर्मर मे होलकर सैकड़ों लीटर तेल चुरा लिया।
जेई ने स्थानीय थाने पर अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है की मोहिद्दीन पुर नागनाथपुर नेशनल हाईवे के बगल में 250 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जिससे गांव में बिजली सप्लाई

मिलती है। लेकिन रात मे अज्ञात चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर मे किसी तरह होलकर सैकड़ों लीटर तेल को चुरा ले गए। तेल न होने से ट्रांसफार्मर बिजली सप्लाई देने में असमर्थ है वही गांवों में अंधेरा छाया हुआ है।कंज्यूमरों की शिकायत पर सैदाबाद जेई राजकुमार लाइनमैन रवि समेत पूरी टीम पहुंची तो जांच पड़ताल में जुट गये। जेई राजकुमार ने बताया को ट्रांसफार्मर से तेल को निकालना आसान नहीं है। लेकिन अज्ञात चोरों द्वारा इसमें किसी भारी छड़ से मारकर होलकर तेल निकाला गया है। जेई ने अज्ञात चोरों के खिलाफ स्थानीय थाने में लिखित रूप से तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आशा बहुओं ने अपनी विभिन्न को मांगों के लिये सौपा ज्ञापन

लोकमित्र ब्यूरो
बहरिया । विकास खंड बहरिया क्षेत्र के मैलहा में स्थित सीएचसी में कार्यरत सभी आशा बहुओं ने अपने पुरानी विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक करते हुये संघ की अध्यक्ष संगीता सिंह के नेतृत्व में दर्जनों आशा बहुओं के साथ अपनी पुरानी मांगों मातृत्व लाभ, मानदेय, आने जाने का भत्ता, टीकाकरणों का उचित मानदेय आदि समस्याओं के सम्बंध में मुख्यमंत्री के लिये ज्ञापन सीएचसी अधीक्षक डा0 अभिमन्यु सिंह को सौपा । उक्त अवसर पर निशा

देवी,कुसुम देवी, अनिका देवी, मनोरमा विश्वकर्मा, कलावती देवी, प्रीति मिश्रा, विमला, राधादेवी, मन्जू, सुशीला देवी, किरन, पिन्की, शशि श्रीवास्तव आदि आशा बहुएं मौजूद रही ।

दौलत हुसैन इंटर कॉलेज सेमीफाइनल में

प्रयागराज। दौलत हुसैन इंटर कॉलेज ने सिंगरौली क्रिकेट क्लब को सात विकेट से हराकर सोनभद्र में खेली जा रही 21वीं अंतरराज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
टीम के कोच मोहम्मद रिजवान से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनभद्र के म्योरपुर क्रिकेट मैदान पर शुक्रवार को खेले गए मैच में सिंगरौली क्लब ने 16 ओवर में 147 रन (आकाश 37, बृज किशोर 21, विकास 19, सिद्धार्थ वर्मा 3/11, मोहम्मद तैमूर 2/25) बनाए।
जवाब में दौलत हुसैन इंटर कॉलेज ने 12.2 ओवर में तीन विकेट पर 148 रन (मोहम्मद तैमूर 41 नाबाद, मोहम्मद अरमान 35, अब्दुल रहमान 28, तन्मय मालवीय 21 नाबाद, इरशाद अहमद 20, विशाल, सुनील व विपिन एक-एक विकेट) बना लिए। तैमूर को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
इससे पूर्व प्री. क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दौलत हुसैन इंटर कॉलेज ने 18 ओवर में 152 रन (मोहम्मद अरमान 55, अब्दुल रहमान 40, यशस्वी 5/12, अंकुश 2/28) बनाकर खुशी स्पोर्ट्स क्लब पटना को 18.1 ओवर में 135 रन (पवन 60, बिट्टू 33, मोहम्मद अरमान 4/18, कौशल 2/28) पर समेट दिया। मोहम्मद अरमान को मैन ऑफ़ द मैच चुना गया।

जनकवि कैलाश गौतम सम्मान से सम्मानित हुए दिनेश रघुवंशी

प्रयागराज। कैलाश गौतम सृजन संस्थान की ओर से शुक्रवार को हिन्दुस्तानी एकेडमी में जनकवि कैलाश गौतम राष्ट्रीय काव्य कुम्भ समारोह-2024 का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति समित गोपाल, समारोह के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि मेयर गणेश केसरवानी, कमांडेंट मनोज गौतम व अपर पुलिस आयुक्त संदीप वर्मा ने जनकवि कैलाश गौतम सम्मान से फरीदाबाद के दिनेश रघुवंशी को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न, शॉल व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देकर दो मिनट का मौन रखा गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि जनकवि की रचनाओं ने सदैव ही समाज को नई दिशा दी और हर एक को अटूट संघर्ष की प्रेरणा देने का कार्य किया। मेयर ने कहा कि उन्होंने अपनी कविताओं से प्रयागराज को कविता के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया।
अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि मानवीय संवेदनाएं और उनकी भावनाओं का सर्वोत्तम चित्रण जनकवि की रचनाओं में है। संस्थान के अध्यक्ष डॉ. श्लेष गौतम ने संचालन और अनुराग अरोरा व मनीष घोष ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

बेसिक शिक्षकों ने गिनाए अवकाश में हुए नुकसान

लेड़ियारी(प्रयागराज)। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में वर्ष 2025 में दिए जाने वाले अवकाश की जो तालिका परिषद सचिव द्वारा घोषित की गई है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2025 के लिए जारी अवकाश तालिका में कुल 34 अवकाश अंकित है । जबकि पिछले बार 36 थे । इस 34 में तीन अवकाश रविवार को पड़ने से अवकाश की संख्या वस्तुत 31 है ।खीरी न्याय पंचायत के संकुल प्रभारी दिनेश कुमार मिश्रा के अनुसार वस्तुतः 31 अवकाश में से तीन में पर्वों के कारण विद्यालय खुला रहेगा । इसके अलावा रविवार को पड़ रहे गणतंत्र दिवस पर विद्यालय खुलना है। इस तरह अवकाश छह जनवरी व 14 जनवरी यानी शीतकालीन अवकाश में मिल रहा मिल रहा है।इसी तरह सात जून का अवकाश ग्रीष्मावकाश में मिल रहा है।इस तरह वर्ष में सिर्फ 24 दिन अवकाश रहेगा । इसी तरह ग्रीष्मावकाश 27 दिन का होगा । जिसमें चार रविवार है । इस तरह ग्रीष्मावकाश सरकार 23 दिन का होगा । ऐसे ही शीतकालीन अवकाश 15 दिन का होगा । इसमें दो रविवार होने से यह 13 दिन का होगा । इसके अलावा ग्रीष्मावकाश , शीतावकाश और अन्य अवकाश मिलाकर साठ दिन का अवकाश होगा । और 51 रविवार को मिला दिया जाए तो 111 दिन विद्यालय बंद रहेंगे ।

मील्स ऑन व्हील्स वॉरियर्स सेमीफाइनल में

पीएसपीएल में सिंध फाइटर्स, सिंधी लायंस और पेपरी अवेंजर्स भी विजयी

लोकमित्र ब्यूरो
प्रयागराज। मील्स ऑन व्हील्स वॉरियर्स ने जेबीएन को 10 रन से हराकर प्रयागराज सिंधी प्रीमियर लीग (पीएसपीएल) में लगातार चौथी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके अलावा सिंध फाइटर्स, सिंधी लायंस और पेपरी अवेंजर्स ने भी अपने मैच जीते।
दौलत हुसैन इंटर कॉलेज मैदान पर शुक्रवार को खेले गए मैच में मील्स ऑन व्हील्स वॉरियर्स ने 10 ओवर में 6 विकेट पर 92 रन (दीपक जमनी 22, विशेष तालरेजा 3/14) बनाकर जेबीएन को 10 ओवर में 8 विकेट पर 82 रन (संजीव कुकरेजा 29, अमित बुधवानी 3/21, नीरज जुममनी 2/11) पर सीमित किया।
रिलैक्स एंड सनशाइन लीजेंड ने 10 ओवर में 98 रन (कुशल अलरानी 49 नाबाद, उमेश आहूजा 23, जतिन अलवानी 1/24) बनाए। जवाब में डेंटल जोन सिंध फाइटर्स ने 9.1 ओवर में 6 विकेट पर 100 रन (भानु सुहाला 42, दीपक करमचंदानी 21 नाबाद, राहुल मध्यान 4/29, विशाल केवलानी 2/25) बना लिए।
प्लाजु अल्टीमेट ने 10 ओवर में पांच विकेट पर 83 रन (मनोज सुहाला 24 नाबाद, सिद्धार्थ मदनानी व निखिल कांदरू एक-एक विकेट) बनाए। जवाब में सिंधी लायंस ने 7 ओवर में दो विकेट पर 88 रन (हिमांशु अंदानी 43 नाबाद, सनी केवलानी 22 नाबाद, जैकी आहूजा व विकास उतरानी एक-एक विकेट) बना लिये।
जनप्रिया किंग्स ने 10 ओवर में तीन विकेट पर 63 रन (भारत कुकरेजा 26 नाबाद, धीरज 20, प्रशांत आहूजा व तरुण चांदनी एक-एक विकेट) बनाए। जवाब में पेपरी अवेंजर्स ने 9.5 ओवर में चार विकेट पर 67 रन (तरुण चांदनी 25 नाबाद, राहुल बसंतानी 16 नाबाद, अमर केवलानी 2/15) बना लिए।

अंश के शतक से रामबाबू पाल क्लब जीता

प्रयागराज। अंश सिंह के शतक (113 रन, 77 गेंद, 17 चौके, तीन छक्के) के दम पर रामबाबू पाल क्लब ने फरहत अली क्लब को तीन विकेट से हराकर देव स्पोर्ट्स अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता में पूरे अंक प्राप्त किए।देव स्पोर्ट्स क्रिकेट अकादमी गोहरी न्यू शांतिपूरम मैदान पर शुक्रवार को खेले गए मैच में फरहत अली क्लब ने 30 ओवर में 9 विकेट पर 222 रन बनाये। जवाब में रामबाबू पाल क्लब ने 29.5 ओवर में 7 विकेट पर 224 रन सिंह 113 रन (अवनीश कुमार 38, हसी सिंह 26, देव प्रकाश सिंह 2/30, आयुष्मान वर्मा 2/43) बना लिए। अंश सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया।